



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 87]
No. 87]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, 1 मार्च, 2007/फाल्गुन 10, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH, 1, 2007/PHALGUNA 10, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

सं. 20/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 117(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 118(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) परंतुक में,-

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में “1 मई, 2007” अंकों और शब्द के स्थान पर “1 मई, 2009” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ख) सारणी में,-

- (i) क्रम सं.36क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “50 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं.36ख के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “60 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) क्रम सं.50 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “7.5 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) क्रम सं.68क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (v) क्रम सं.75 और 75क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम सं.77ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vii) क्रम सं.79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (viii) क्रम सं.100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ix) क्रम सं.101क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (x) क्रम सं.111 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “यूरिया” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (xi) क्रम सं.119 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xii) क्रम सं.123 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xiii) क्रम सं.125 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xiv) क्रम सं.126 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xv) क्रम सं.127 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xvi) क्रम सं.128 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xvii) क्रम सं.132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------|--|----------|----------|-----|
| “132. | 3704 | चलचित्र फिल्में, उद्भाषित किन्तु विकसित नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | -” |

- (xviii) क्रम सं.135 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (xix) क्रम सं.149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|--------------|---|-----|----------|-----|
| “149क. | 4301 या 4302 | फरदार चर्म कच्चा, चर्मशोधित या प्रसाधित | - | कुछ नहीं | -” |

- (xx) क्रम सं.150क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxi) क्रम सं.172 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxii) क्रम सं.187 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “3 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxiii) क्रम सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxiv) क्रम सं. 223 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxv) क्रम सं. 231, 231क और 232 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxvi) क्रम सं. 244क और 245 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxvii) क्रम सं. 260 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxviii) क्रम सं. 261 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxix) क्रम सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxx) क्रम सं. 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxxii) क्रम सं. 316ख के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर “-” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxxiii) क्रम सं. 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xxxiii) क्रम सं. 344 के सामने, स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद सं0 (1) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxxiv) क्रम सं. 344क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xxxv) क्रम सं. 345 के सामने, स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद सं0 (1) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) क्रम सं.346 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|----------------------------|--|----------|-----|-------|
| "346 | 88 | ग्लाइडर या विमान के सिमुलेटर | कुछ नहीं | - | - |
| 346क | 88 या कोई अन्य अध्याय | ग्लाइडर के पुर्जे या विमान के सिमुलेटर (ग्लाइडर के स्वर दायरों और ट्यूबों को छोड़कर) | कुछ नहीं | - | 67 |
| 346ख | 8802 (8802 60 00 के सिवाय) | सभी माल | कुछ नहीं | - | 101 |
| 346ग | 8802 | हैलीकाप्टर | 3% | - | - |
| 346घ | 8803 | 8802 शीर्ष के वायुयान के पुर्जे | कुछ नहीं | - | 102"; |

(xxxvii) क्रम सं.347 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| "347 | 8803 | 8802 शीर्ष के वायुयान के पुर्जे | 3 % | - | -"; |

(xxxviii) क्रम सं.349 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|-----------------------|--|----------|----------|------|
| "349 | 88 या कोई अन्य अध्याय | निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) उपग्रह और पे-लोड ; (ii) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, साधन और उपकरण (जिसके अंतर्गत कंप्यूटर और कंप्यूटर साफ्टवेयर भी हैं), उपसाधन, भाग, पुर्जे, संघटक, अतिरिक्त पुर्जे, औजार, मौकप और माडूल, कच्ची सामग्री और खपने वाले सामान जो यानों को लांच करने और उपग्रहों तथा पे लोडों के लिए अपेक्षित हैं । | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 88"; |

(xxxix) क्रम सं.353 के सामने, स्तंभ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर "8902, 8904 00 00, या 8905 90" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) क्रम सं.353 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|------------|---------|----------|-----|-----|
| "353क. | 8905 10 00 | सभी माल | कुछ नहीं | - | -"; |

- (xli) क्रम सं.361 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xlii) क्रम सं. 399 के सामने, स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद सं0 (vi) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर "7.5 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xliii) क्रम सं.426ख और 427 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xliv) क्रम सं.438 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xlv) क्रम सं.443 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xlvi) क्रम सं.457, 458, 459 और 460 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xlvii) क्रम सं.460क के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (xlviii) क्रम सं.461 और 462 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (xlix) क्रम सं.483, 484 और 485 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (l) क्रम सं.486 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (li) क्रम सं.488 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lii) क्रम सं.494 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "एथलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (liii) क्रम सं.495,496 और 497 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (liv) क्रम सं.497ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lv) क्रम सं. 498 और 499 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lvi) क्रम सं. 502 और 502क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lvii) क्रम सं. 504, 505, 506 और 506क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lviii) क्रम सं. 507 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lix) क्रम सं.521 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lx) क्रम सं.522 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 (lxi) क्रम सं.523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 और 532 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 (lxii) क्रम सं.533 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "5 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (lxiii) क्रम सं.534 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|------|-----|-----|
| "534. | 5401, 5402, 5404 या 5406 00 10 | पालिस्टर फिलामेंट सूत | 7.5% | - | -"; |

- (lxiv) क्रम सं.535 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|---|---------|------|-----|-----|
| "535. | 5511 | सभी माल | 10% | - | - |
| 535क | 5501 20 00, 5503 20 00 या 5506 20 00 | सभी माल | 7.5% | - | -"; |

(lxv) क्रम सं.542 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(lxvi) क्रम सं.546 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|---|--|------|-----|-----|
| “547. | 0508 00 10 | सभी माल | 10% | - | - |
| 548. | 1301 90 22 | सभी माल | 20% | - | - |
| 549. | 1520 00 00 | सभी माल | 20% | - | - |
| 550. | 1702 30 | डिक्सट्रोज मोनोहाइड्रेड | 20% | - | - |
| 551. | 2309 10 00 | सभी माल | 20% | - | - |
| 552. | 28 (2823 00 10 के सिवाय) | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 553. | 29 (2905 43 00, 2905 44 00 और 2933 71 00 के सिवाय) | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 554. | 31 | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 555. | 3201, 3202, 3203, 3204, 3205 00 00, 3206 (3206 11 और 3206 19 00 के सिवाय) या 3207 | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 556. | 3207 10 40 | चीनी मिट्टी के रंग | 5% | - | - |
| 557. | 3403 | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 558. | 3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808 (3808 10 00 के सिवाय), 3810, 3812, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00 या 3824 (3824 60 के सिवाय) | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 559. | 3901 से 3915 या (3908 के सिवाय) | सभी माल | 7.5% | - | - |
| 560. | कोई अध्याय | छाते के पुर्जे जिसके अंतर्गत छाते के पैनल भी हैं | 5% | - | - |
| 561. | 7104 | कच्चे संश्लिष्ट रत्न | 5% | - | - |
| 562. | 8424 | कृषि और बागवानी प्रयोजनों के लिए छिड़कने वाले और ड्रिप सिंचाई प्रणालियां | 5% | - | - |
| 563. | 8438 | सभी माल | 5% | - | - |

| | | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------------------|----|---|----|
| 564. | 8479 30 00 | सभी माल | 5% | - | - |
| 565. | 9108, 9110 या 9114 30 10 | घड़ियों के डायल और घड़ियों के स्पंदन | 5% | - | -" |

(ग) उपाबंध में, -

- (i) शर्त सं० 7, 33, 41, 41क, 42 और 50 का लोप किया जाएगा ;
(ii) शर्त सं० 69 के खंड (i) में “ भारतीय जमीन से भारतीय लांच यानों द्वारा” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
(iii) शर्त सं० 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

| शर्त सं० | शर्तें |
|----------|---|
| “101 | <p>यदि -</p> <p>(i) यथास्थिति अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक या प्रचालक की ओर से आयात किया जाता है और ऐसा वायुयान, यथास्थिति, अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा के प्रचालन के लिए उपयोग में लाया जाता है ;</p> <p>(ii) उक्त वायुयान भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आशयित नहीं है, भारत को या भारत के बाहर किसी उड़ान के प्रयोजन के लिए भारत में लाया जाता है, जो भारत में प्रवेश की तारीख से छह मास के भीतर हटाए जाने के लिए आशयित है ।</p> <p>स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए -</p> <p>(क) “प्रचालक” से वायुयान प्रचालन में लगे हुए या वायुयान प्रचालन में लगने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है ;</p> <p>(ख) “ अनुसूचित वायु परिवहन सेवा” से उन्हीं दो या अधिक स्थानों के बीच की जाने वाली कोई वायु परिवहन सेवा और किसी प्रकाशित समय सूची के अनुसार या इस प्रकार नियमित उड़ानों या बारम्बार उड़ानों के साथ प्रचालित है कि वे एक मान्यताप्राप्त रूप में प्रणालीबद्ध श्रंखला हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुली है ; और</p> <p>(ग) “ अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा” से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार किसी अनुसूचित आधार पर स्थोरा या डाक का वायु परिवहन या उड़ानें अभिप्रेत हैं, जो इस प्रकार नियमित या बारम्बार हैं कि वे किसी मान्यता प्राप्त रूप में प्रणालीबद्ध श्रंखला हैं, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए खुली नहीं हैं ।</p> |
| 102. | <p>यदि -</p> <p>(i) यदि वायुयान की सर्विस करने, मरम्मत करने या अनुरक्षण के लिए आयात किया जाता है, जिसका यथास्थिति अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा के प्रचालन के लिए उपयोग किया जाता है ; या</p> <p>(ii) शर्त संख्या 101 के खंड (ii) में उल्लिखित किसी वायुयान की सर्विस करने, मरम्मत करने या अनुरक्षण के लिए पुर्जों को भारत में लाया जाता है ।</p> <p>स्पष्टीकरण - “अनुसूचित वायु परिवहन सेवा” और “ अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा” पद के वही अर्थ हैं, जो शर्त संख्या 101 में क्रमशः उनके हैं ।”</p> |

(iv) सूची 2, 2क, 14, 19, 19क, 20, 26क, 27 और 48 का लोप किया जाएगा ;

(v) सूची 27क में, मद (9) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(10) परा फिल्टरन, सूक्ष्म फिल्टरन के लिए कार्टिज और मेंबरेन, रिवर्स ओसमोसिस, निर्जर्म फिल्टरन और विषाणु का हटया जाना

(11) कोषिका संवर्धन युक्तियों जैसी रोलर बॉटल प्रणालियां, स्पिनर फ्लास्क आदि

- (12) सेन्ट्रीफ्यूज ट्यूबुलर, विस्फोटन रोधी, डिस्क स्टैक
- (13) डीएनए/आलिगोन्यूक्लीओटाइड सिंथेसाइजर और डीएनए विश्लेषक
- (14) इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रणाली (प्रोटीन और डीएनए ; 2डी)
- (15) एलिसा वाशर
- (16) कन्सुमीमीटर
- (17) एलसी - एमएस मशीनें
- (18) कम तापमान के प्रशीतक (- 70 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे कम)
- (19) माइक्रो ऐरे उपस्कर जिसके अंतर्गत स्कैनर, माइक्रोफ्लयूइडिक्स स्टेशन, ऐरेअर्स, बायो ऐनेलाइजर्स, माइक्रो ऐरे चिप्स और बायो चिप्स
- (20) प्रोटियोमिक ऐनेलाइजर्स और प्रोटियोमिक लेब प्रणालियां
- (21) फ्लो साइटोमीटर/एफएसी
- (22) प्रोटीन परिसोधन प्रणाली
- (23) जैल प्रलेखन प्रणाली
- (24) एनजाइम लिंकड इम्यूनो स्पाट (एलीस्पाट) रीडर प्रणाली ।”

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरएयू]

एस. बन्जान, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 21/2002 - सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2002 कायदा के राजपत्र, असाधारण में सा.का.वि. सं० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 00/2007 - सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 2007 द्वारा किया गया था जो सा.का.वि. सं० 45(अ), तारीख 25 जनवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2007

No. 20/2007-CUSTOMS

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118 (E) of the same date, namely:-

In the said notification,-

- (A) in the proviso,-
 - (i) clause (a) shall be omitted;

- (ii) in clause (b), for the words, letters and figures “the 1st day of May, 2007”, the words, letters and figures “the 1st day of May, 2009” shall be substituted;
 (iii) clause (c) shall be omitted;

(B) in the Table,-

- (i) against S.No. 36A, for the entry in column (4), the entry “50%” shall be substituted;
 (ii) against S.No. 36B, for the entry in column (4), the entry “60%” shall be substituted;
 (iii) against S.No. 50, for the entry in column (4), the entry “7.5%” shall be substituted;
 (iv) against S.No. 68A, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
 (v) S. Nos. 75 and 75A, and the entries relating thereto shall be omitted;
 (vi) S. No. 77B and the entries relating thereto shall be omitted;
 (vii) S. No. 79 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (viii) S. No. 100 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (ix) S. No. 101A and the entries relating thereto shall be omitted;
 (x) against S.No. 111, for the entry in column (3), the entry “Urea” shall be substituted;
 (xi) against S.No. 119, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xii) against S.No. 123, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xiii) against S.No. 125, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xiv) against S.No. 126, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xv) against S.No. 127, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xvi) against S.No. 128, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xvii) for S.No. 132 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------|---|-----|-----|-----|
| “132. | 3704 | Cinematographic films, exposed but not developed | Nil | Nil | — |

- (xviii) against S.No. 135, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xix) after S.No. 149 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| “149A. | 4301 or 4302 | Raw, tanned or dressed fur skins | - | Nil | — |

- (xx) S. No. 150A and the entries relating thereto shall be omitted;
 (xxi) against S.No. 172, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xxii) against S. No. 187, for the entry in column (4), the entry “3%” shall be substituted;
 (xxiii) S. No. 219 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (xxiv) against S. No. 223, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xxv) S. Nos. 231, 231A and 232, and the entries relating thereto shall be omitted;
 (xxvi) S. Nos. 244A and 245, and the entries relating thereto shall be omitted;
 (xxvii) against S. No. 260, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xxviii) against S. No. 261, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;
 (xxix) S. No. 272 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (xxx) S. No. 277 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (xxxi) against S. No. 316B, for the entry in column (5), the entry “—” shall be substituted;
 (xxxii) S. No. 342 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xxxiii) against S. No.344, in column (4), for the entry relating to item (1) of column (3), the entry "10%" shall be substituted;

(xxxiv) against S. No.344A, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(xxxv) against S. No.345, in column (4), for the entry relating to item (1) of column (3), the entry "10%" shall be substituted;

(xxxvi) for S.No. 346 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|--------------------------|---|-----|-----|-------|
| "346. | 88 | Gliders, or simulators of aeroplanes | Nil | - | - |
| 346A. | 88 or any other Chapter | Parts of gliders or simulators of aircrafts (excluding rubber tyres and tubes of gliders) | Nil | - | 67 |
| 346B. | 8802 (except 8802 60 00) | All goods | Nil | - | 101 |
| 346C. | 8802 | Helicopters | 3% | - | - |
| 346D. | 8803 | Parts, of aircraft of heading 8802 | Nil | - | 102"; |

(xxxvii) for S.No.347 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| "347. | 8803 | Parts, of aircraft of heading 8802 | 3% | - | -"; |

(xxxviii) for S.No. 349 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|-------------------------|---|-----|-----|------|
| "349. | 88 or any other Chapter | The following goods, namely:- (i) Satellites and payloads; (ii) Scientific and technical instruments, apparatus, equipments (including computers and computer software), accessories, parts, components, spares, tools, mockups and modules, raw materials and consumables required for launch vehicles and for satellites and payloads | Nil | Nil | 69"; |

(xxxix) against S.No.353, for the entry in column (2), the entry “8902, 8904 00 00, or 8905 90” shall be substituted;

(xl) after S.No.353 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|------------|-----------|-----|-----|-----|
| “353A. | 8905 10 00 | All goods | Nil | - | -”; |

(xli) against S. No.361, for the entry in column (4), the entry “10%” shall be substituted;

(xlii) against S. No.399, in column (4), for the entry relating to item (vi) of column (3), the entry “7.5%” shall be substituted;

(xliii) S. Nos.426B and 427, and the entries relating thereto shall be omitted;

(xliv) S. No.438 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xlv) against S.No. 443, for the entry in column (4), the entry “5%” shall be substituted;

(xlvi) S. Nos. 457, 458, 459 and 460, and the entries relating thereto shall be omitted;

(xlvii) against S.No.460A, for the entry in column (4), the entry “5%” shall be substituted;

(xlviii) S. Nos. 461 and 462, and the entries relating thereto shall be omitted;

(xlix) S. Nos. 483, 484 and 485, and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) against S. No. 486, for the entry in column (4), the entry “2%” shall be substituted;

(li) S. No. 488 and the entries relating thereto shall be omitted;

(lii) against S. No. 494, for the entry in column (3), the entry “Ethylene vinyl acetate (EVA)” shall be substituted;

(liii) S. Nos. 495, 496 and 497, and the entries relating thereto shall be omitted;

(liv) S. No. 497B and the entries relating thereto shall be omitted;

(lv) S. Nos. 498 and 499, and the entries relating thereto shall be omitted;

(lvi) S. Nos. 502 and 502A, and the entries relating thereto shall be omitted;

(lvii) S. Nos. 504, 505, 506 and 506A, and the entries relating thereto shall be omitted;

(lviii) S. No. 507 and the entries relating thereto shall be omitted;

(lix) S. No. 521 and the entries relating thereto shall be omitted;

(lx) against S.No. 522, for the entry in column (4), the entry “5%” shall be substituted;

(lxi) S. Nos. 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 and 532, and the entries relating thereto shall be omitted;

(lxii) against S. No. 533, for the entry in column (4), the entry “5%” shall be substituted;

(lxiii) for S.No. 534 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|------|-----|-----|
| “534. | 5401, 5402, 5404 or 5406 00 10 | Polyester filament yarn | 7.5% | - | -”; |

(lxiv) for S.No 535 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------|--|-----------|------|-----|-----|
| “535. | 5511 | All goods | 10% | - | - |
| 535A. | 5501 20 00, 5503 20 00 or 5506 20 00 | All goods | 7.5% | - | -”; |

(lxv) S. No. 542 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (lxvi) after S.No.546 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|---|------|-----|-----|
| 547. | 0508 00 10 | All goods | 10% | - | - |
| 548. | 1301 90 22 | All goods | 20% | - | - |
| 549. | 1520 00 00 | All goods | 20% | - | - |
| 550. | 1702 | Dextrose Monohydrate | 20% | - | - |
| 551. | 2309 10 00 | All goods | 20% | - | - |
| 552. | 28 (except 2823 00 10) | All goods | 7.5% | - | - |
| 553. | 29 (except 2905 43 00, 2905 44 00 and 2933 71 00) | All goods | 7.5% | - | - |
| 554. | 31 | All goods | 7.5% | - | - |
| 555. | 3201, 3202, 3203, 3204, 3205 00 00, 3206 (except 3206 11 and 3206 19 00) or 3207 | All goods | 7.5% | - | - |
| 556. | 3207 10 40 | Ceramic colours | 5% | - | - |
| 557. | 3403 | All goods | 7.5% | - | - |
| 558. | 3801, 3802, 3803 00 00, 3804, 3805, 3806, 3807, 3809 (except 3809 10 00), 3810, 3812, 3816 00 00, 3817, 3821 00 00 or 3824 (except 3824 60) | All goods | 7.5% | - | - |
| 559. | 3901 to 3915 (except 3908) | All goods | 7.5% | - | - |
| 560. | Any Chapter | Parts of umbrella, including umbrella panels | 5% | - | - |
| 561. | 7104 | Rough synthetic gemstones | 5% | - | - |
| 562. | 8424 | Sprinklers and drip irrigation systems for agricultural and horticultural purposes | 5% | - | - |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------------|----|---|---|
| 563. | 8438 | All goods | 5% | - | - |
| 564. | 8479 30 00 | All goods | 5% | - | - |
| 565. | 9108, 9110 or 9114 30 10 | Watch dials and watch movements | 5% | - | - |

(C) in the ANNEXURE,-

(i) Condition Nos.7, 33, 41, 41A, 42 and 50 shall be omitted;

(ii) in Condition No.69, in clause (i), the words "by Indian launch vehicles from Indian soil" shall be omitted;

(iii) after Condition No.100 and the entries relating thereto, the following Conditions shall be inserted, namely:-

| Condition No. | Conditions |
|---------------|---|
| "101. | <p>If, -</p> <p>(i) imported by an operator or on behalf of the operator, for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service, and such aircraft is used for operating the scheduled air transport service or the scheduled air cargo service, as the case may be; or</p> <p>(ii) the said aircraft is not registered or not intended to be registered in India, and brought into India for the purpose of a flight to or across India, and which is intended to be removed from India within six months from the date of entry.</p> <p>Explanation.- For the purposes of this entry,</p> <p>(a) "operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;</p> <p>(b) "scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public; and</p> <p>(c) "scheduled air cargo service" means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, not open to use by passengers.</p> |
| 102. | <p>If, -</p> <p>(i) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft, which is used for operating scheduled air transport service or the scheduled air cargo service, as the case may be; or</p> <p>(ii) the parts are brought into India for servicing, repair or maintenance of an aircraft mentioned in clause (ii) of Condition No.101.</p> <p>Explanation.- The expressions, "scheduled air transport service" and "scheduled air cargo service" shall have the meanings respectively assigned to them in Condition No.101."</p> |

(iv) Lists 2, 2A, 14, 19, 19A, 20, 26A, 27 and 48 shall be omitted;

(v) in List 27A, after item (9), the following items shall be inserted, namely:-

“(10) Cartridges and membranes for ultra-filtration, micro-filtration, reverse osmosis, sterile filtration and viral removal

- (11) Cell cultivation devices like roller bottle systems, spinner flasks etc
- (12) Centrifuges-tubular, explosion proof, disk stack
- (13) DNA/Oligonucleotides Synthesizers and DNA Analysers
- (14) Electrophoresis system (protein and DNA; 2D)
- (15) ELISA washer
- (16) Fluorimeter
- (17) LC-MS machines
- (18) Low temperature freezers (minus 70 degree centigrade and less)
- (19) Micro-array equipment including scanners, micro-fluidics station, arrayers, bio-analysers, micro-array chips and bio-chips
- (20) Proteomic Analysers and proteomic lab Systems
- (21) Flow Cytometer/FACs
- (22) Protein Purification System
- (23) Gel Documentation System
- (24) Enzyme linked immuno SPOT (Elispot) Reader System.”.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended vide notification No.9/2007-Customs, dated the 25th January, 2007 which was published vide number G.S.R.45(E), dated the 25th January, 2007.

अधिसूचना
सं० 21/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007
10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 118(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले और नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर, मूल्यानुसार दर है।

सारणी

| क्रम सं०. | पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद | मानक दर |
|-----------|---|---------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 2106 90 | 150% |
| 2. | 2207 10 और 2208 | 150% |
| 3. | 25 (2504 और 2510 के सिवाय) | 10% |
| 4. | 2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90 | 10% |
| 5. | 2701 (2701 12 00 के सिवाय), 2702, 2703, 2704, 2705 00 00, 2706, 2707 और 2708 | 10% |
| 6. | 28 (2801, 2802, 2803, 2804, 2805 और 2814 के सिवाय) | 10% |
| 7. | 2801, 2802, 2803, 2804 और 2805 | 5% |
| 8. | 29 (2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 और 2941 के सिवाय) | 10% |
| 9. | 3005 और 3006 (3006 60 के सिवाय) | 10% |
| 10. | 31 (3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 और 3105 90 के सिवाय) | 10% |
| 11. | 32 | 10% |
| 12. | 33 (3301 और 3302 10 के सिवाय) | 10% |
| 13. | 34 (3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय) | 10% |
| 14. | 3506 और 3507 | 10% |
| 15. | 36 | 10% |
| 16. | 37 | 10% |
| 17. | 38 (3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818, 3823 और 3824 60 के सिवाय) | 10% |
| 18. | 39 | 10% |
| 19. | 40 (4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 और 4011 30 00 के सिवाय) | 10% |

| | | |
|-----|--|--|
| 20. | 41 (4101, 4102 और 4103 के सिवाय) | 10% |
| 21. | 42 | 10% |
| 22. | 4302, 4303 और 4304 | 10% |
| 23. | 44 (4401, 4402 और 4403 के सिवाय) | 10% |
| 24. | 45 | 10% |
| 25. | 46 | 10% |
| 26. | 4707 | 10% |
| 27. | 48 | 10% |
| 28. | 49 (4902, 4904 00 00 और 4905 के सिवाय) | 10% |
| 29. | 5004, 5005, 5006 और 5007 | 10% |
| 30. | 5104, 5105 (5105 29 10), 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110 के सिवाय | 10% |
| 31. | 5111 11 | 10% या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 32. | 5111 19 | 10% या 150 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 33. | 5111 20 | 10% या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 34. | 5111 30 | 10% या 75 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 35. | 5111 90 | 10% या 90 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 36. | 5112 11 | 10% या 125 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 37. | 5112 19 | 10% या 155 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 38. | 5112 20 | 10% या 85 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 39. | 5112 30 | 10% या 110 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 40. | 5112 90 | 10% या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 41. | 5113 | 10% या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 42. | 5204, 5205, 5206 और 5207 | 10% |
| 43. | 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, और 5208 33 | 10% |
| 44. | 5208 39 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 45. | 5208 41 | 10% या 9 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 46. | 5208 42 | 10% या 37 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 47. | 5208 43 | 10% |
| 48. | 5208 49 | 10% या 200 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 49. | 5208 51 | 10% या 27 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |

| | | |
|-----|---|--|
| 50. | 5208 52 | 10% या 23 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 51. | 5208 59 | 10% या 50 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 52. | 5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 और 5209 29 | 10% |
| 53. | 5209 31, 5209 32 और 5209 39 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 54. | 5209 41 | 10% या 32 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 55. | 5209 42 00 | 10% या 25 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 56. | 5209 43 | 10% या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 57. | 5209 49 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 58. | 5209 51 और 5209 52 | 10% या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 59. | 5209 59 | 10% या 38 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 60. | 5210 11, 5210 19 00, 5210 21, 5210 29, 5210 31 और 5210 32 | 10% |
| 61. | 5210 39 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 62. | 5210 41 | 10% या 15 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 63. | 5210 49 | 10% या 185 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 64. | 5210 51 और 5210 59 | 10% या 15 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 65. | 5211 11, 5211 12, 5211 19 00 और 5211 20 | 10% |
| 66. | 5211 31, 5211 32 और 5211 39 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 67. | 5211 41 | 10% या 44 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 68. | 5211 42 00 | 10% या 18 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 69. | 5211 43 | 10% या 40 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 70. | 5211 49 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 71. | 5211 51, 5211 52 और 5211 59 | 10% या 18 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 72. | 5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00 | 10% |
| 73. | 5212 15 00 | 10% या 165 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 74. | 5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00 | 10% |
| 75. | 5212 24 00 | 10% या 20 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 76. | 5212 25 00 | 10% या 165 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 77. | 53 (5301 और 5302 के सिवाय) | 10% |
| 78. | 5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 और 5406 00 | 10% |

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 79. | 5407 10 | 10% या 115 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 80. | 5407 20 और 5407 30 | 10% |
| 81. | 5407 41 | 10% या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 82. | 5407 42 | 10% या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 83. | 5407 43 00 | 10% या 67 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 84. | 5407 44 | 10% या 58 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 85. | 5407 51 | 10% या 11 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 86. | 5407 52 | 10% या 38 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 87. | 5407 53 00 | 10% या 50 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 88. | 5407 54 | 10% या 20 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 89. | 5407 61 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 90. | 5407 69 00 | 10% या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 91. | 5407 71 | 10% या 10 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 92. | 5407 72 00 | 10% या 24 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 93. | 5407 73 00 | 10% या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 94. | 5407 74 00 | 10% या 38 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 95. | 5407 81 | 10% या 10 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 96. | 5407 82 | 10% या 42 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 97. | 5407 83 00 | 10% या 67 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 98. | 5407 84 | 10% या 38 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 99. | 5407 91 | 10% या 15 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 100. | 5407 92 00 | 10% या 67 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 101. | 5407 93 00 | 10% या 45 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 102. | 5407 94 00 | 10% या 67 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 103. | 5408 10 00 और 5408 21 | 10% |
| 104. | 5408 22 | 10% या 45 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 105. | 5408 23 00 | 10% या 47 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 106. | 5408 24 | 10% या 87 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 107. | 5408 31 | 10% या 25 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 108. | 5408 32 | 10% या 44 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 109. | 5408 33 00 | 10% या 10 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |

| | | |
|------|---|---|
| 110. | \$408 34 | 10% या 11 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 111. | \$501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510 | 10% |
| 112. | \$511 10 00 और 5511 20 00 | 10% या 31 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 113. | \$511 30 | 10% या 30 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 114. | \$512 11 | 10% |
| 115. | \$512 19 | 10% या 42 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 116. | \$512 21 | 10% |
| 117. | \$512 29 | 10% या 47 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 118. | \$512 91 | 10% |
| 119. | \$512 99 | 10% या 65 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 120. | \$513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19 | 10% |
| 121. | \$513 21 00 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 122. | \$513 23 00 | 10% या 125 रु. प्रति किलोग्राम या 25 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 123. | \$513 29 00 | 10% या 185 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 124. | \$513 31 00 | 10% या 21 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 125. | \$513 39 00 | 10% या 125 रु. प्रति किलोग्राम या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 126. | \$513 41 00 | 10% या 25 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 127. | \$513 49 00 | 10% या 185 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 128. | \$514 11, 5514 12 और 5514 19 | 10% |
| 129. | \$514 21 00 | 10% या 100 रु. प्रति किलोग्राम या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 130. | \$514 22 00 | 10% या 140 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 131. | \$514 23 00 | 10% या 160 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 132. | \$514 29 00 | 10% या 170 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 133. | \$514 30 11 | 10% या 64 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 134. | \$514 30 12 | 10% या 43 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 135. | \$514 30 13 | 10% या 180 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 136. | \$514 30 19 | 10% या 31 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 137. | \$514 41 00 | 10% या 26 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |

| | | |
|------|--|--|
| 138. | 5514 42 00 | 10% या 140 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 139. | 5514 43 00 | 10% या 31 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 140. | 5514 49 00 | 10% या 160 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 141. | 5515 11 | 10% या 40 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 142. | 5515 12 | 10% या 95 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 143. | 5515 13 | 10% या 75 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 144. | 5515 19 | 10% या 45 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 145. | 5515 21 | 10% या 79 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 146. | 5515 22 | 10% या 140 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 147. | 5515 29 | 10% या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 148. | 5515 91 | 10% या 57 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 149. | 5515 99 | 10% या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 150. | 5516 11 | 10% |
| 151. | 5516 12 00 | 10% या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 152. | 5516 13 00 | 10% या 40 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 153. | 5516 14 | 10% या 12 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 154. | 5516 21 | 10% |
| 155. | 5516 22 00 और 5516 23 00 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 156. | 5516 24 00 | 10% या 12 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 157. | 5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 और 5516 42 00 | 10% |
| 158. | 5516 43 00 और 5516 44 00 | 10% या 12 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 159. | 5516 91 और 5516 92 00 | 10% |
| 160. | 5516 93 00 | 10% या 21 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 161. | 5516 94 00 | 10% या 40 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 162. | 56 | 10% |
| 163. | 5701, 5702 10 00, 5702 20 और 5702 31 | 10% |
| 164. | 5702 32 | 10% या 105 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 165. | 5702 39 और 5702 41 | 10% |
| 166. | 5702 42 | 10% या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 167. | 5702 49 | 10% |

| | | |
|------|---|--|
| 168. | 5702 50 21, 5702 50 22 और 5702 50 29 | 10% या 105 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 169. | 5702 50 31, 5702 50 32, 5702 50 33, 5702 50 39 और 5702 91 | 10% |
| 170. | 5702 92 | 10% या 110 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 171. | 5702 99 और 5703 10 | 10% |
| 172. | 5703 20 | 10% या 70 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 173. | 5703 30 | 10% या 55 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 174. | 5703 90 और 5704 10 00 | 10% |
| 175. | 5704 90 | 10% या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 176. | 5705 | 10% |
| 177. | 5801 10 00 | 10% या 210 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 178. | 5801 21 00 | 10% या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 179. | 5801 22 | 10% या 75 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 180. | 5801 23 00 | 10% या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 181. | 5801 24 00 | 10% या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 182. | 5801 25 00 | 10% या 120 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 183. | 5801 26 00 | 10% या 180 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 184. | 5801 31 00 | 10% या 75 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 185. | 5801 32 00 | 10% या 180 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 186. | 5801 33 00 | 10% या 150 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 187. | 5801 34 | 10% या 140 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 188. | 5801 35 00 | 10% या 68 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 189. | 5801 36 | 10% या 130 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 190. | 5801 90 | 10% या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 191. | 5802 11 00 | 10% |
| 192. | 5802 19 | 10% या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 193. | 5802 20 00 | 10% |
| 194. | 5802 30 00 | 10% या 150 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 195. | 5803 | 10% |
| 196. | 5804 | 10% या 200 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 197. | 5805, 5806, 5807, 5808 और 5809 | 10% |
| 198. | 5810 10 00 | 10% या 200 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |

| | | |
|------|--|--|
| 199. | 5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 और 5811 | 10% |
| 200. | 59 | 10% |
| 201. | 60 (6001 92 00 के सिवाय) | 10% |
| 202. | 6001 92 00 | 10% या 100 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 203. | 6101 20 00 | 10% या 540 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 204. | 6101 30 | 10% या 530 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 205. | 6101 90 | 10% |
| 206. | 6102 10 00 | 10% या 595 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 207. | 6102 20 00 | 10% या 425 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 208. | 6102 30 | 10% या 475 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 209. | 6102 90, 6103 और 6104 13 00 | 10% |
| 210. | 6104 19 | 10% या 460 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 211. | 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 और 6104 39 | 10% |
| 212. | 6104 41 00 | 10% या 255 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 213. | 6104 42 00 | 10% |
| 214. | 6104 43 00 और 6104 44 00 | 10% या 255 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 215. | 6104 49 | 10% या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 216. | 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 और 6104 59 | 10% या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 217. | 6104 61 00 | 10% |
| 218. | 6104 62 00 और 6104 63 00 | 10% या 98 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 219. | 6104 69 | 10% |
| 220. | 6105 10 और 6105 20 | 10% या 83 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 221. | 6105 90 | 10% या 90 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 222. | 6106 10 00 | 10% या 90 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 223. | 6106 20 | 10% या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 224. | 6106 90 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 225. | 6107 11 00 | 10% या 24 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 226. | 6107 12 | 10% या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 227. | 6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 99, 6108 11 और 6108 19 | 10% |

| | | |
|------|--|--|
| 228. | 6108 21 00 और 6108 22 | 10% या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 229. | 6108 29, 6108 31 00, 6108 32 और 6108 39 | 10% |
| 230. | 6108 91 00 | 10% या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 231. | 6108 92 | 10% या 60 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 232. | 6108 99 | 10% |
| 233. | 6109 10 00 | 10% या 45 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 234. | 6109 90 | 10% या 50 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 235. | 6110 11, 6110 12 00 और 6110 19 00 | 10% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 236. | 6110 20 00 | 10% या 85 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 237. | 6110 30 | 10% या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 238. | 6110 90 00 | 10% या 105 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 239. | 6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 और 6117 | 10% |
| 240. | 6201 11 00 और 6201 12 | 10% या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 241. | 6201 13 | 10% या 320 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 242. | 6201 19 | 10% |
| 243. | 6201 91 00 | 10% या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 244. | 6201 92 00 | 10% या 210 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 245. | 6201 93 00 | 10% या 180 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 246. | 6201 99 | 10% |
| 247. | 6202 11 | 10% या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 248. | 6202 12 00 | 10% या 210 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 249. | 6202 13 00 | 10% या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 250. | 6202 19 | 10% |
| 251. | 6202 91 | 10% या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 252. | 6202 92 | 10% या 160 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 253. | 6202 93 | 10% या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 254. | 6202 99 | 10% |
| 255. | 6203 11 00 | 10% या 1100 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 256. | 6203 12 00 | 10% या 720 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 257. | 6203 19 | 10% या 1110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 258. | 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00 | 10% या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |

| | | |
|------|--|---|
| 259. | 6203 31 00 | 10% या 815 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 260. | 6203 32 00 | 10% या 440 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 261. | 6203 33 00 | 10% या 320 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 262. | 6203 39 | 10% या 755 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 263. | 6203 41 00 | 10% या 285 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 264. | 6203 42 00 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 265. | 6203 43 00 और 6203 49 | 10% या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 266. | 6204 11 00 | 10% या 550 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 267. | 6204 12 00 | 10% |
| 268. | 6204 13 00 | 10% या 550 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 269. | 6204 19 | 10% या 500 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 270. | 6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 और 6204 29 | 10% |
| 271. | 6204 31 00 | 10% या 370 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 272. | 6204 32 00 | 10% या 650 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 273. | 6204 33 00 | 10% या 390 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 274. | 6204 39 | 10% या 350 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 275. | 6204 41 | 10% या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 276. | 6204 42 | 10% या 116 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 277. | 6204 43, 6204 44 00 और 6204 49 | 10% या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 278. | 6204 51 00 | 10% या 485 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 279. | 6204 52 00, 6204 53 00 और 6204 59 | 10% |
| 280. | 6204 61 | 10% या 285 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 281. | 6204 62 00 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 282. | 6204 63 00 | 10% |
| 283. | 6204 69 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 284. | 6205 20 00 | 10% या 85 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 285. | 6205 30 00 | 10% या 120 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 286. | 6205 90 | 10% या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 287. | 6206 10 | 10% |
| 288. | 6206 20 00 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |

| | | |
|------|---|---|
| 289. | 6206 30 00 | 10% या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 290. | 6206 40 00 | 10% या 120 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 291. | 6206 90 00 | 10% |
| 292. | 6207 11 00 | 10% या 28 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 293. | 6207 19 | 10% या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 294. | 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00 और 6207 91 | 10% |
| 295. | 6207 99 | 10% या 70 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 296. | 6208 11 00 | 10% या 80 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 297. | 6208 19 | 10% या 60 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 298. | 6208 21 00, 6208 22 00 और 6208 29 | 10% |
| 299. | 6208 91 | 10% या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 300. | 6208 92 | 10% या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 301. | 6208 99, 6209 और 6210 10 00 | 10% |
| 302. | 6210 20 | 10% या 365 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 303. | 6210 30 | 10% या 305 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 304. | 6210 40 और 6210 50 00 | 10% या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 305. | 6211 11 00, 6211 12 00 और 6211 20 00 | 10% |
| 306. | 6211 32 00 और 6211 33 00 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 307. | 6211 39 00 और 6211 41 00 | 10% |
| 308. | 6211 42 और 6211 43 00 | 10% या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 309. | 6211 49 00 | 10% |
| 310. | 6212 | 10% या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 311. | 6213 | 10% |
| 312. | 6214 10 | 10% या 390 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 313. | 6214 20 | 10% या 180 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 314. | 6214 30 00 और 6214 40 00 | 10% |
| 315. | 6214 90 | 10% या 75 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 316. | 6215 | 10% या 55 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 317. | 6216 और 6217 | 10% |

| | | |
|------|--|--|
| 318. | 63 (6301 20 00, 6302 21 00 और 6302 31 00 के सिवाय) | 10% |
| 319. | 6301 20 00 | 10% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 320. | 6302 21 00 | 10% या 108 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 321. | 6302 31 00 | 10% या 96 रु. प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो |
| 322. | 64 | 10% |
| 323. | 65 | 10% |
| 324. | 66 | 10% |
| 325. | 67 | 10% |
| 326. | 68 | 10% |
| 327. | 69 | 10% |
| 328. | 70 | 10% |
| 329. | 71 | 10% |
| 330. | 72 | 10% |
| 331. | 73 | 10% |
| 332. | 7401, 7402, 7403, 7404, 7405 00 00, 7406, 7407, 7408, 7409 और 7410 | 5% |
| 333. | 7411, 7412, 7413 00 00, 7415, 7418 और 7419 | 10% |
| 334. | 75 | 5% |
| 335. | 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606 और 7607 | 5% |
| 336. | 7608, 7609 00 00, 7610, 7611 00 00, 7612, 7613, 7614, 7615 और 7616 | 10% |
| 337. | 7801, 7802 और 7804 | 5% |
| 338. | 7806 | 10% |
| 339. | 7901, 7902, 7903, 7904 और 7905 | 5% |
| 340. | 7907 | 10% |
| 341. | 8001, 8002 और 8003 | 5% |
| 342. | 8007 | 10% |
| 343. | 8101(8101 99 10 और 8101 99 90 के सिवाय) | 5% |
| 344. | 8101 99 10 और 8101 99 90 | 10% |

| | | |
|------|---|------|
| 345. | 8102 (8102 99 00 के सिवाय) | 5% |
| 346. | 8102 99 00 | 10% |
| 347. | 8103 (8103 90 00 के सिवाय) | 5% |
| 348. | 8103 90 00 | 10% |
| 349. | 8104 (8104 90 90 के सिवाय) | 5% |
| 350. | 8104 90 90 | 10% |
| 351. | 8105 (8105 90 00 के सिवाय) | 5% |
| 352. | 8105 90 00 | 10% |
| 353. | 8106 (8106 00 90 के सिवाय) | 5% |
| 354. | 8106 00 90 | 10% |
| 355. | 8107 (8107 90 90 के सिवाय) | 5% |
| 356. | 8107 90 90 | 10% |
| 357. | 8108 (8108 90 90 के सिवाय) | 5% |
| 358. | 8108 90 90 | 10% |
| 359. | 8109 (8109 90 00 के सिवाय) | 5% |
| 360. | 8109 90 00 | 10% |
| 361. | 8110 (8110 90 00 के सिवाय) | 5% |
| 362. | 8110 90 00 | 10% |
| 363. | 8111 (8111 00 90 के सिवाय) | 5% |
| 364. | 8111 00 90 | 10% |
| 365. | 8112 (8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00 और 8112 99 00 के सिवाय) | 5% |
| 366. | 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00 और 8112 99 00 | 10% |
| 367. | 8113 | 10% |
| 368. | 82 | 10% |
| 369. | 83 | 10% |
| 370. | 84 (8407 21 00, 8413 11 10, 8413 19 10, 8413 20 00, 8413 91 40, 8414 20 10, 8414 20 20, 8414 51 10, 8414 51 20, 8414 51 30, 8414 59 20, 8414 90 12, 8414 90 30, 8415 10 10, 8415 10 90, 8415 20 10, 8415 20 90, 8415 81 10, 8415 81 90, 8415 82 10, 8415 82 90, 8415 83 10, 8415 83 90, | 7.5% |

Table

| S. No. | Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule | Rate |
|--------|--|------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 2106 90 | 150% |
| 2. | 2207 10 and 2208 | 150% |
| 3. | 25 (except 2504 and 2510) | 10% |
| 4. | 2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 and 2620 30 90 | 10% |
| 5. | 2701 (except 2701 12 00), 2702, 2703, 2704, 2705 00 00, 2706, 2707 and 2708 | 10% |
| 6. | 28 (except 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 and 2814) | 10% |
| 7. | 2801, 2802, 2803, 2804 and 2805 | 5% |
| 8. | 29 (except 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 and 2941) | 10% |
| 9. | 3005 and 3006 (except 3006 60) | 10% |
| 10. | 31 (except 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 and 3105 90) | 10% |
| 11. | 32 | 10% |
| 12. | 33 (except 3301 and 3302 10) | 10% |
| 13. | 34 (except 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00) | 10% |
| 14. | 3506 and 3507 | 10% |
| 15. | 36 | 10% |
| 16. | 37 | 10% |
| 17. | 38 (except 3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818, 3823 and 3824 60) | 10% |
| 18. | 39 | 10% |
| 19. | 40 (except 4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 and 4011 30 00) | 10% |

| | | |
|-----|---|---|
| 20. | 41 (except 4101, 4102 and 4103) | 10% |
| 21. | 42 | 10% |
| 22. | 4302, 4303 and 4304 | 10% |
| 23. | 44 (except 4401, 4402 and 4403) | 10% |
| 24. | 45 | 10% |
| 25. | 46 | 10% |
| 26. | 4707 | 10% |
| 27. | 48 | 10% |
| 28. | 49 (except 4902, 4904 00 00 and 4905) | 10% |
| 29. | 5004, 5005, 5006 and 5007 | 10% |
| 30. | 5104, 5105 (except 5105 29 10), 5106, 5107, 5108, 5109 and 5110 | 10% |
| 31. | 5111 11 | 10% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher |
| 32. | 5111 19 | 10% or Rs. 150 per sq. metre, whichever is higher |
| 33. | 5111 20 | 10% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher |
| 34. | 5111 30 | 10% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher |
| 35. | 5111 90 | 10% or Rs. 90 per sq. metre, whichever is higher |
| 36. | 5112 11 | 10% or Rs. 125 per sq. metre, whichever is higher |
| 37. | 5112 19 | 10% or Rs. 155 per sq. metre, whichever is higher |
| 38. | 5112 20 | 10% or Rs. 85 per sq. metre, whichever is higher |
| 39. | 5112 30 | 10% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher |
| 40. | 5112 90 | 10% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher |
| 41. | 5113 | 10% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher |

| | | |
|------|--|-----|
| | 8415 90 00, 8418 10 90, 8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20, 8418 69 30, 8419 11 10, 8419 19 10, 8419 81 10, 8419 81 20, 8419 81 90, 8419 90 10, 8421 21 20, 8422 11 00, 8422 90 20, 8423 10 00, 8423 90 10, 8433 11 90, 8433 19 90, 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60, 8443 32 90, 8443 99 10, 8443 99 20, 8443 99 30, 8443 99 40, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 59, 8450 11 00, 8450 12 00, 8450 19 00, 8450 90 10, 8451 21 00, 8451 30 10, 8452 10 11, 8452 10 12, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 22, 8452 10 29, 8452 30 10, 8452 90 10, 8456 90 10, 8469 00 10, 8469 00 20, 8469 00 90, 8470 10 00, 8470 21 00, 8470 29 00, 8470 30 00, 8470 50 10, 8470 50 20, 8470 90 10, 8470 90 20, 8471 30 10, 8471 30 90, 8471 41 10, 8471 41 20, 8471 41 90, 8471 49 00, 8471 50 00, 8471 60 10, 8471 60 24, 8471 60 25, 8471 60 29, 8471 60 40, 8471 60 50, 8471 60 60, 8471 60 90, 8471 70 10, 8471 70 20, 8471 70 30, 8471 70 40, 8471 70 50, 8471 70 60, 8471 70 70, 8471 70 90, 8471 80 00, 8471 90 00, 8472 90 10, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99 और 8473 50 00 के सिवाय) | |
| 371. | 8413 11 10, 8413 19 10, 8413 20 00, 8413 91 40, 8414 20 10, 8414 20 20, 8414 51 10, 8414 51 20, 8414 51 30, 8414 59 20, 8414 90 12, 8414 90 30, 8415 10 10, 8415 10 90, 8415 20 10, 8415 20 90, 8415 81 10, 8415 81 90, 8415 82 10, 8415 82 90, 8415 83 10, 8415 83 90, 8415 90 00, 8418 10 90, 8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20, 8418 69 30, 8419 11 10, 8419 19 10, 8419 81 10, 8419 81 20, 8419 81 90, 8419 90 10, 8421 21 20, 8422 11 00, 8422 90 20, 8423 10 00, 8423 90 10, 8433 11 90, 8433 19 90, 8450 11 00, 8450 12 00, 8450 19 00, 8450 90 10, 8451 21 00, 8451 30 10, 8452 10 11, 8452 10 12, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 22, 8452 10 29, 8452 30 10, 8452 90 10, 8469 00 20, 8469 00 90 और 8472 90 10 | 10% |

| | | |
|------|---|------|
| 372. | 8501 और 8502 (8502 11 00 और 8502 20 10 के सिवाय) | 7.5% |
| 373. | 8502 11 00 और 8502 20 10 | 10% |
| 374. | 8503, 8504 (8504 31 00, 8504 32 00, 8504 40 10 और 8504 40 30 के सिवाय) | 7.5% |
| 375. | 8504 31 00, 8504 32 00, 8504 40 10 और 8504 40 30 | 10% |
| 376. | 8505 | 7.5% |
| 377. | 8506, 8507, 8508, 8509 और 8510 | 10% |
| 378. | 8511, 8512 (8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10 और 8512 40 00 के सिवाय) | 7.5% |
| 379. | 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10 और 8512 40 00 | 10% |
| 380. | 8513 (8513 10 10 के सिवाय) | 7.5% |
| 381. | 8513 10 10 | 10% |
| 382. | 8514 और 8515 | 7.5% |
| 383. | 8516, 8518, 8519 (8519 50 00 के सिवाय), 8521, 8522 और 8523 (8523 52 10, 8523 52 20, 8523 52 90, 8523 59 10 और 8523 80 20 के सिवाय) | 10% |
| 384. | 8525 (8525 50 50, 8525 60 11, 8525 60 12, 8525 60 13, 8525 60 19, 8525 60 91, 8525 60 92, 8525 60 99, 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 और 8525 80 90 टैरिफ मदों के सिवाय) | 7.5% |
| 385. | 8525 50 50, 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 और 8525 80 90 | 10% |
| 386. | 8526 | 7.5% |
| 387. | 8527 और 8528 | 10% |
| 388. | 8529 (8529 10 19, 8529 10 29, 8529 10 99 और 8529 90 90 के सिवाय) | 7.5% |
| 389. | 8529 10 19, 8529 10 29, 8529 10 99 और 8529 90 90 | 10% |
| 390. | 8530 | 7.5% |
| 391. | 8531 (8531 20 00 के सिवाय) | 10% |

| | | |
|------|--|------|
| 392. | 8535, 8536 (8536 10 10, 8536 41 00, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 10 और 8536 69 90 के सिवाय) | 7.5% |
| 393. | 8536 10 10, 8536 41 00, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 10 और 8536 69 90 | 10% |
| 394. | 8537 और 8538. | 7.5% |
| 395. | 8539 और 8540 (8540 40 00 के सिवाय) | 10% |
| 396. | 8542 39 00 और 8543 (8543 10 10 और 8543 70 11 के सिवाय) | 7.5% |
| 397. | 8544 (8544 70 10 और 8544 70 90 के सिवाय), 8545, 8546 और 8547 | 7.5% |
| 398. | 8548 | 10% |
| 399. | 86 | 10% |
| 400. | 87 (8703, 8710 00 00 और 8711 के सिवाय) | 10% |
| 401. | 88 (8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय) | 10% |
| 402. | 89 | 10% |
| 403. | 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 और 9008 | 10% |
| 404. | 9010 (9010 60 00 के सिवाय) | 7.5% |
| 405. | 9010 60 00 | 10% |
| 406. | 9011, 9012 और 9013 (9013 10 10, 9013 80 10 और 9013 90 10 के सिवाय) | 7.5% |
| 407. | 9013 10 10 | 10% |
| 408. | 9014 और 9015 | 7.5% |
| 409. | 9016 और 9017 | 10% |
| 410. | 9018, 9019, 9020 00 00, 9021 और 9022 | 7.5% |
| 411. | 9023 | 10% |
| 412. | 9024 और 9025 (9025 11 10 और 9025 19 10 के सिवाय) | 7.5% |
| 413. | 9025 11 10 और 9025 19 10 | 10% |

| | | |
|------|--|------|
| 414. | 9027 10 00 | 10% |
| 415. | 9027 90 10, 9027 90 20, 9027 90 90 और 9028 (9028 30 के सिवाय) | 7.5% |
| 416. | 9028 30 10 और 9028 30 90 | 10% |
| 417. | 9029 (9029 10 10 के सिवाय) | 7.5% |
| 418. | 9029 10 10 | 10% |
| 419. | 9030 (9030 40 00 और 9030 82 00 के सिवाय), 9031 (9031 41 00 के सिवाय), 9032 और 9033 00 00 | 7.5% |
| 420. | 91 | 10% |
| 421. | 92 | 10% |
| 422. | 93 | 10% |
| 423. | 94 | 10% |
| 424. | 95 | 10% |
| 425. | 96 | 10% |
| 426. | 97 (9704 के सिवाय) | 10% |
| 427. | 98 (9803 00 00 के सिवाय) | 10% |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 21/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 118(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the Table aforesaid.

Explanation. - For the purposes of this notification, the rate specified in column (3) is the *ad valorem* rate.

| | | |
|-----|--|--|
| 42. | 5204, 5205, 5206 and 5207 | 10% |
| 43. | 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32 and 5208 33 | 10% |
| 44. | 5208 39 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 45. | 5208 41 | 10% or Rs. 9 per sq. metre, whichever is higher |
| 46. | 5208 42 | 10% or Rs. 37 per sq. metre, whichever is higher |
| 47. | 5208 43 | 10% |
| 48. | 5208 49 | 10% or Rs. 200 per kg., whichever is higher |
| 49. | 5208 51 | 10% or Rs. 27 per sq. metre, whichever is higher |
| 50. | 5208 52 | 10% or Rs. 23 per sq. metre, whichever is higher |
| 51. | 5208 59 | 10% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher |
| 52. | 5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 and 5209 29 | 10% |
| 53. | 5209 31, 5209 32 and 5209 39 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 54. | 5209 41 | 10% or Rs. 32 per sq. metre, whichever is higher |
| 55. | 5209 42 00 | 10% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher |
| 56. | 5209 43 | 10% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher |
| 57. | 5209 49 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 58. | 5209 51 and 5209 52 | 10% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher |
| 59. | 5209 59 | 10% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher |
| 60. | 5210 11, 5210 19 00, 5210 21, 5210 29, 5210 31 and 5210 32 | 10% |
| 61. | 5210 39 | 10% or Rs. 150 per kg. whichever is higher |
| 62. | 5210 41 | 10% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher |
| 63. | 5210 49 | 10% or Rs. 185 per kg., whichever is higher |

| | | |
|-----|---|--|
| 64. | 5210 51 and 5210 59 | 10% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher |
| 65. | 5211 11, 5211 12, 5211 19 00 and 5211 20 | 10% |
| 66. | 5211 31, 5211 32 and 5211 39 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 67. | 5211 41 | 10% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher |
| 68. | 5211 42 00 | 10% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher |
| 69. | 5211 43 | 10% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher |
| 70. | 5211 49 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 71. | 5211 51, 5211 52 and 5211 59 | 10% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher |
| 72. | 5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 and 5212 14 00 | 10% |
| 73. | 5212 15 00 | 10% or Rs. 165 per kg., whichever is higher |
| 74. | 5212 21 00, 5212 22 00 and 5212 23 00 | 10% |
| 75. | 5212 24 00 | 10% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher |
| 76. | 5212 25 00 | 10% or Rs. 165 per kg., whichever is higher |
| 77. | 53 (except 5301 and 5302) | 10% |
| 78. | 5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 and 5406 00 | 10% |
| 79. | 5407 10 | 10% or Rs. 115 per kg., whichever is higher |
| 80. | 5407 20 and 5407 30 | 10% |
| 81. | 5407 41 | 10% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher |
| 82. | 5407 42 | 10% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher |
| 83. | 5407 43 00 | 10% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher |
| 84. | 5407 44 | 10% or Rs. 58 per sq. metre, whichever is higher |
| 85. | 5407 51 | 10% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher |

| | | |
|------|------------------------|--|
| 86. | 5407 52 | 10% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher |
| 87. | 5407 53 00 | 10% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher |
| 88. | 5407 54 | 10% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher |
| 89. | 5407 61 | 10% or Rs. 150 per kg. whichever is higher |
| 90. | 5407 69 00 | 10% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher |
| 91. | 5407 71 | 10% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher |
| 92. | 5407 72 00 | 10% or Rs. 24 per sq. metre, whichever is higher |
| 93. | 5407 73 00 | 10% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher |
| 94. | 5407 74 00 | 10% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher |
| 95. | 5407 81 | 10% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher |
| 96. | 5407 82 | 10% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher |
| 97. | 5407 83 00 | 10% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher |
| 98. | 5407 84 | 10% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher |
| 99. | 5407 91 | 10% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher |
| 100. | 5407 92 00 | 10% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher |
| 101. | 5407 93 00 | 10% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher |
| 102. | 5407 94 00 | 10% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher |
| 103. | 5408 10 00 and 5408 21 | 10% |
| 104. | 5408 22 | 10% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher |
| 105. | 5408 23 00 | 10% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher |
| 106. | 5408 24 | 10% or Rs. 87 per sq. metre, whichever is higher |
| 107. | 5408 31 | 10% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher |

| | | |
|------|---|--|
| 108. | 5408 32 | 10% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher |
| 109. | 5408 33 00 | 10% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher |
| 110. | 5408 34 | 10% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher |
| 111. | 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 and 5510 | 10% |
| 112. | 5511 10 00 and 5511 20 00 | 10% or Rs. 31 per kg., whichever is higher |
| 113. | 5511 30 | 10% or Rs. 30 per kg., whichever is higher |
| 114. | 5512 11 | 10% |
| 115. | 5512 19 | 10% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher |
| 116. | 5512 21 | 10% |
| 117. | 5512 29 | 10% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher |
| 118. | 5512 91 | 10% |
| 119. | 5512 99 | 10% or Rs. 65 per kg., whichever is higher |
| 120. | 5513 11, 5513 12, 5513 13 and 5513 19 | 10% |
| 121. | 5513 21 00 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 122. | 5513 23 00 | 10% or Rs. 125 per kg. or Rs. 25 per sq. metre, whichever is highest |
| 123. | 5513 29 00 | 10% or Rs. 185 per kg., whichever is higher |
| 124. | 5513 31 00 | 10% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher |
| 125. | 5513 39 00 | 10% or Rs. 125 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest |
| 126. | 5513 41 00 | 10% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher |
| 127. | 5513 49 00 | 10% or Rs. 185 per kg., whichever is higher |
| 128. | 5514 11, 5514 12 and 5514 19 | 10% |
| 129. | 5514 21 00 | 10% or Rs. 100 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest |

| | | |
|------|------------|--|
| 130. | 5514 22 00 | 10% or Rs. 140 per kg., whichever is higher |
| 131. | 5514 23 00 | 10% or Rs. 160 per kg., whichever is higher |
| 132. | 5514 29 00 | 10% or Rs. 170 per kg., whichever is higher |
| 133. | 5514 30 11 | 10% or Rs. 64 per sq. metre, whichever is higher |
| 134. | 5514 30 12 | 10% or Rs. 43 per sq. metre, whichever is higher |
| 135. | 5514 30 13 | 10% or Rs. 180 per kg., whichever is higher |
| 136. | 5514 30 19 | 10% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher |
| 137. | 5514 41 00 | 10% or Rs. 26 per sq. metre, whichever is higher |
| 138. | 5514 42 00 | 10% or Rs. 140 per kg., whichever is higher |
| 139. | 5514 43 00 | 10% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher |
| 140. | 5514 49 00 | 10% or Rs. 160 per kg., whichever is higher |
| 141. | 5515 11 | 10% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher |
| 142. | 5515 12 | 10% or Rs. 95 per kg., whichever is higher |
| 143. | 5515 13 | 10% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher |
| 144. | 5515 19 | 10% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher |
| 145. | 5515 21 | 10% or Rs. 79 per sq. metre, whichever is higher |
| 146. | 5515 22 | 10% or Rs. 140 per kg., whichever is higher |
| 147. | 5515 29 | 10% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher |
| 148. | 5515 91 | 10% or Rs. 57 per sq. metre, whichever is higher |
| 149. | 5515 99 | 10% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher |
| 150. | 5516 11 | 10% |
| 151. | 5516 12 00 | 10% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher |

| | | |
|------|---|---|
| 152. | 5516 13 00 | 10% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher |
| 153. | 5516 14 | 10% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher |
| 154. | 5516 21 | 10% |
| 155. | 5516 22 00 and 5516 23 00 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 156. | 5516 24 00 | 10% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher |
| 157. | 5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 and 5516 42 00 | 10% |
| 158. | 5516 43 00 and 5516 44 00 | 10% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher |
| 159. | 5516 91 and 5516 92 00 | 10% |
| 160. | 5516 93 00 | 10% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher |
| 161. | 5516 94 00 | 10% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher |
| 162. | 56 | 10% |
| 163. | 5701, 5702 10 00, 5702 20 and 5702 31 | 10% |
| 164. | 5702 32 | 10% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher |
| 165. | 5702 39 and 5702 41 | 10% |
| 166. | 5702 42 | 10% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher |
| 167. | 5702 49 | 10% |
| 168. | 5702 50 21, 5702 50 22 and 5702 50 29 | 10% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher |
| 169. | 5702 50 31, 5702 50 32, 5702 50 33, 5702 50 39 and 5702 91 | 10% |
| 170. | 5702 92 | 10% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher |
| 171. | 5702 99 and 5703 10 | 10% |
| 172. | 5703 20 | 10% or Rs. 70 per sq. metre, whichever is higher |
| 173. | 5703 30 | 10% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher |

| | | |
|------|------------------------|---|
| 174. | 5703 90 and 5704 10 00 | 10% |
| 175. | 5704 90 | 10% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher |
| 176. | 5705 | 10% |
| 177. | 5801 10 00 | 10% or Rs. 210 per sq. metre, whichever is higher |
| 178. | 5801 21 00 | 10% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher |
| 179. | 5801 22 | 10% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher |
| 180. | 5801 23 00 | 10% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher |
| 181. | 5801 24 00 | 10% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher |
| 182. | 5801 25 00 | 10% or Rs. 120 per sq. metre, whichever is higher |
| 183. | 5801 26 00 | 10% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher |
| 184. | 5801 31 00 | 10% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher |
| 185. | 5801 32 00 | 10% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher |
| 186. | 5801 33 00 | 10% or Rs. 150 per sq. metre, whichever is higher |
| 187. | 5801 34 | 10% or Rs. 140 per sq. metre, whichever is higher |
| 188. | 5801 35 00 | 10% or Rs. 68 per sq. metre, whichever is higher |
| 189. | 5801 36 | 10% or Rs. 130 per sq. metre, whichever is higher |
| 190. | 5801 90 | 10% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher |
| 191. | 5802 11 00 | 10% |
| 192. | 5802 19 | 10% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher |
| 193. | 5802 20 00 | 10% |
| 194. | 5802 30 00 | 10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher |
| 195. | 5803 | 10% |

| | | |
|------|---|---|
| 196. | 5804 | 10% or Rs. 200 per kg., whichever is higher |
| 197. | 5805, 5806, 5807, 5808 and 5809 | 10% |
| 198. | 5810 10 00 | 10% or Rs. 200 per kg., whichever is higher |
| 199. | 5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 and 5811 | 10% |
| 200. | 59 | 10% |
| 201. | 60 (except 6001 92 00) | 10% |
| 202. | 6001 92 00 | 10% or Rs. 100 per kg., whichever is higher |
| 203. | 6101 20 00 | 10% or Rs. 540 per piece, whichever is higher |
| 204. | 6101 30 | 10% or Rs. 530 per piece, whichever is higher |
| 205. | 6101 90 | 10% |
| 206. | 6102 10 00 | 10% or Rs. 595 per piece, whichever is higher |
| 207. | 6102 20 00 | 10% or Rs. 425 per piece, whichever is higher |
| 208. | 6102 30 | 10% or Rs. 475 per piece, whichever is higher |
| 209. | 6102 90, 6103 and 6104 13 00 | 10% |
| 210. | 6104 19 | 10% or Rs. 460 per piece, whichever is higher |
| 211. | 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 and 6104 39 | 10% |
| 212. | 6104 41 00 | 10% or Rs. 255 per piece, whichever is higher |
| 213. | 6104 42 00 | 10% |
| 214. | 6104 43 00 and 6104 44 00 | 10% or Rs. 255 per piece, whichever is higher |
| 215. | 6104 49 | 10% or Rs. 220 per piece, whichever is higher |
| 216. | 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 and 6104 59 | 10% or Rs. 110 per piece, whichever is higher |
| 217. | 6104 61 00 | 10% |

| | | |
|------|--|---|
| 218. | 6104 62 00 and 6104 63 00 | 10% or Rs. 98 per piece, whichever is higher |
| 219. | 6104 69 | 10% |
| 220. | 6105 10 and 6105 20 | 10% or Rs. 83 per piece, whichever is higher |
| 221. | 6105 90 | 10% or Rs. 90 per piece, whichever is higher |
| 222. | 6106 10 00 | 10% or Rs. 90 per piece, whichever is higher |
| 223. | 6106 20 | 10% or Rs. 25 per piece, whichever is higher |
| 224. | 6106 90 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |
| 225. | 6107 11 00 | 10% or Rs. 24 per piece, whichever is higher |
| 226. | 6107 12 | 10% or Rs. 30 per piece, whichever is higher |
| 227. | 6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 99, 6108 11 and 6108 19 | 10% |
| 228. | 6108 21 00 and 6108 22 | 10% or Rs. 25 per piece, whichever is higher |
| 229. | 6108 29, 6108 31 00, 6108 32 and 6108 39 | 10% |
| 230. | 6108 91 00 | 10% or Rs. 65 per piece, whichever is higher |
| 231. | 6108 92 | 10% or Rs. 60 per piece, whichever is higher |
| 232. | 6108 99 | 10% |
| 233. | 6109 10 00 | 10% or Rs. 45 per piece, whichever is higher |
| 234. | 6109 90 | 10% or Rs. 50 per piece, whichever is higher |
| 235. | 6110 11, 6110 12 00 and 6110 19 00 | 10% or Rs. 275 per piece, whichever is higher |
| 236. | 6110 20 00 | 10% or Rs. 85 per piece, whichever is higher |
| 237. | 6110 30 | 10% or Rs. 110 per piece, whichever is higher |
| 238. | 6110 90 00 | 10% or Rs. 105 per piece, whichever is higher |
| 239. | 6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 and 6117 | 10% |

| | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 240. | 6201 11 00 and 6201 12 | 10% or Rs. 385 per piece, whichever is higher |
| 241. | 6201 13 | 10% or Rs. 320 per piece, whichever is higher |
| 242. | 6201 19 | 10% |
| 243. | 6201 91 00 | 10% or Rs. 220 per piece, whichever is higher |
| 244. | 6201 92 00 | 10% or Rs. 210 per piece, whichever is higher |
| 245. | 6201 93 00 | 10% or Rs. 180 per piece, whichever is higher |
| 246. | 6201 99 | 10% |
| 247. | 6202 11 | 10% or Rs. 385 per piece, whichever is higher |
| 248. | 6202 12 00 | 10% or Rs. 210 per piece, whichever is higher |
| 249. | 6202 13 00 | 10% or Rs. 385 per piece, whichever is higher |
| 250. | 6202 19 | 10% |
| 251. | 6202 91 | 10% or Rs. 220 per piece, whichever is higher |
| 252. | 6202 92 | 10% or Rs. 160 per piece, whichever is higher |
| 253. | 6202 93 | 10% or Rs. 220 per piece, whichever is higher |
| 254. | 6202 99 | 10% |
| 255. | 6203 11 00 | 10% or Rs. 1100 per piece, whichever is higher |
| 256. | 6203 12 00 | 10% or Rs. 720 per piece, whichever is higher |
| 257. | 6203 19 | 10% or Rs. 1110 per piece, whichever is higher |
| 258. | 6203 22 00, 6203 23 00 and 6203 29 00 | 10% or Rs. 145 per piece, whichever is higher |
| 259. | 6203 31 00 | 10% or Rs. 815 per piece, whichever is higher |
| 260. | 6203 32 00 | 10% or Rs. 440 per piece, whichever is higher |
| 261. | 6203 33 00 | 10% or Rs. 320 per piece, whichever is higher |

| | | |
|------|---|--|
| 262. | 6203 39 | 10% or Rs. 755 per piece, whichever is higher |
| 263. | 6203 41 00 | 10% or Rs. 285 per piece, whichever is higher |
| 264. | 6203 42 00 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |
| 265. | 6203 43 00 and 6203 49 | 10% or Rs. 110 per piece, whichever is higher |
| 266. | 6204 11 00 | 10% or Rs. 550 per piece, whichever is higher |
| 267. | 6204 12 00 | 10% |
| 268. | 6204 13 00 | 10% or Rs. 550 per piece, whichever is higher |
| 269. | 6204 19 | 10% or Rs. 500 per piece, whichever is higher |
| 270. | 6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 and 6204 29 | 10% |
| 271. | 6204 31 00 | 10% or Rs. 370 per piece, whichever is higher |
| 272. | 6204 32 00 | 10% or Rs. 650 per piece, whichever is higher |
| 273. | 6204 33 00 | 10% or Rs. 390 per piece, whichever is higher |
| 274. | 6204 39 | 10% or Rs. 350 per piece, whichever is higher |
| 275. | 6204 41 | 10% or Rs. 145 per piece, whichever is higher |
| 276. | 6204 42 | 10% or Rs. 116 per piece, whichever is higher |
| 277. | 6204 43, 6204 44 00 and 6204 49 | 10% or Rs. 145 per piece, whichever is higher |
| 278. | 6204 51 00 | 10% or Rs. 485 per piece, whichever is higher |
| 279. | 6204 52 00, 6204 53 00 and 6204 59 | 10% |
| 280. | 6204 61 | 10% or Rs. 285 per piece, whichever is higher |
| 281. | 6204 62 00 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |
| 282. | 6204 63 00 | 10% |
| 283. | 6204 69 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |

| | | |
|------|--|---|
| 284. | 6205 20 00 | 10% or Rs. 85 per piece, whichever is higher |
| 285. | 6205 30 00 | 10% or Rs. 120 per piece, whichever is higher |
| 286. | 6205 90 | 10% or Rs. 95 per piece, whichever is higher |
| 287. | 6206 10 | 10% |
| 288. | 6206 20 00 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |
| 289. | 6206 30 00 | 10% or Rs. 95 per piece, whichever is higher |
| 290. | 6206 40 00 | 10% or Rs. 120 per piece, whichever is higher |
| 291. | 6206 90 00 | 10% |
| 292. | 6207 11 00 | 10% or Rs. 28 per piece, whichever is higher |
| 293. | 6207 19 | 10% or Rs. 30 per piece, whichever is higher |
| 294. | 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00 and 6207 91 | 10% |
| 295. | 6207 99 | 10% or Rs. 70 per piece, whichever is higher |
| 296. | 6208 11 00 | 10% or Rs. 80 per piece, whichever is higher |
| 297. | 6208 19 | 10% or Rs. 60 per piece, whichever is higher |
| 298. | 6208 21 00, 6208 22 00 and 6208 29 | 10% |
| 299. | 6208 91 | 10% or Rs. 95 per piece, whichever is higher |
| 300. | 6208 92 | 10% or Rs. 65 per piece, whichever is higher |
| 301. | 6208 99, 6209 and 6210 10 00 | 10% |
| 302. | 6210 20 | 10% or Rs. 365 per piece, whichever is higher |
| 303. | 6210 30 | 10% or Rs. 305 per piece, whichever is higher |
| 304. | 6210 40 and 6210 50 00 | 10% or Rs. 65 per piece, whichever is higher |
| 305. | 6211 11 00, 6211 12 00 and 6211 20 00 | 10% |

| | | |
|------|---|---|
| 306. | 6211 32 00 and 6211 33 00 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |
| 307. | 6211 39 00 and 6211 41 00 | 10% |
| 308. | 6211 42 and 6211 43 00 | 10% or Rs. 135 per piece, whichever is higher |
| 309. | 6211 49 00 | 10% |
| 310. | 6212 | 10% or Rs. 30 per piece, whichever is higher |
| 311. | 6213 | 10% |
| 312. | 6214 10 | 10% or Rs. 390 per piece, whichever is higher |
| 313. | 6214 20 | 10% or Rs. 180 per piece, whichever is higher |
| 314. | 6214 30 00 and 6214 40 00 | 10% |
| 315. | 6214 90 | 10% or Rs. 75 per piece, whichever is higher |
| 316. | 6215 | 10% or Rs. 55 per piece, whichever is higher |
| 317. | 6216 and 6217 | 10% |
| 318. | 63 (except 6301 20 00, 6302 21 00 and 6302 31 00) | 10% |
| 319. | 6301 20 00 | 10% or Rs. 275 per piece, whichever is higher |
| 320. | 6302 21 00 | 10% or Rs. 108 per kg., whichever is higher |
| 321. | 6302 31 00 | 10% or Rs. 96 per kg., whichever is higher |
| 322. | 64 | 10% |
| 323. | 65 | 10% |
| 324. | 66 | 10% |
| 325. | 67 | 10% |
| 326. | 68 | 10% |
| 327. | 69 | 10% |

| | | |
|------|---|-----|
| 328. | 70 | 10% |
| 329. | 71 | 10% |
| 330. | 72 | 10% |
| 331. | 73 | 10% |
| 332. | 7401, 7402, 7403, 7404, 7405 00 00, 7406, 7407, 7408, 7409 and 7410 | 5% |
| 333. | 7411, 7412, 7413 00 00, 7415, 7418 and 7419 | 10% |
| 334. | 75 | 5% |
| 335. | 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606 and 7607 | 5% |
| 336. | 7608, 7609 00 00, 7610, 7611 00 00, 7612, 7613, 7614, 7615 and 7616 | 10% |
| 337. | 7801, 7802 and 7804 | 5% |
| 338. | 7806 | 10% |
| 339. | 7901, 7902, 7903, 7904 and 7905 | 5% |
| 340. | 7907 | 10% |
| 341. | 8001, 8002 and 8003 | 5% |
| 342. | 8007 | 10% |
| 343. | 8101(except 8101 99 10 and 8101 99 90) | 5% |
| 344. | 8101 99 10 and 8101 99 90 | 10% |
| 345. | 8102 (except 8102 99 00) | 5% |
| 346. | 8102 99 00 | 10% |
| 347. | 8103 (except 8103 90 00) | 5% |
| 348. | 8103 90 00 | 10% |
| 349. | 8104 (except 8104 90 90) | 5% |

| | | |
|------|---|------|
| 350. | 8104 90 90 | 10% |
| 351. | 8105 (except 8105 90 00) | 5% |
| 352. | 8105 90 00 | 10% |
| 353. | 8106 (except 8106 00 90) | 5% |
| 354. | 8106 00 90 | 10% |
| 355. | 8107 (except 8107 90 90) | 5% |
| 356. | 8107 90 90 | 10% |
| 357. | 8108 (except 8108 90 90) | 5% |
| 358. | 8108 90 90 | 10% |
| 359. | 8109 (except 8109 90 00) | 5% |
| 360. | 8109 90 00 | 10% |
| 361. | 8110 (except 8110 90 00) | 5% |
| 362. | 8110 90 00 | 10% |
| 363. | 8111 (except 8111 00 90) | 5% |
| 364. | 8111 00 90 | 10% |
| 365. | 8112 (except 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00 and 8112 99 00) | 5% |
| 366. | 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00 and 8112 99 00 | 10% |
| 367. | 8113 | 10% |
| 368. | 82 | 10% |
| 369. | 83 | 10% |
| 370. | 84 (except 8407 21 00, 8413 11 10, 8413 19 10, 8413 20 00, 8413 91 40, 8414 20 10, 8414 20 20, 8414 51 10, 8414 51 20, 8414 51 30, 8414 59 20, 8414 90 12, 8414 90 30, 8415 10 10, 8415 10 90, 8415 20 10, 8415 | 7.5% |

| | | |
|------|---|-----|
| | 20 90, 8415 81 10, 8415 81 90, 8415 82 10, 8415 82 90, 8415 83 10, 8415 83 90, 8415 90 00, 8418 10 90, 8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20, 8418 69 30, 8419 11 10, 8419 19 10, 8419 81 10, 8419 81 20, 8419 81 90, 8419 90 10, 8421 21 20, 8422 11 00, 8422 90 20, 8423 10 00, 8423 90 10, 8433 11 90, 8433 19 90, 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60, 8443 32 90, 8443 99 10, 8443 99 20, 8443 99 30, 8443 99 40, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 59, 8450 11 00, 8450 12 00, 8450 19 00, 8450 90 10, 8451 21 00, 8451 30 10, 8452 10 11, 8452 10 12, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 22, 8452 10 29, 8452 30 10, 8452 90 10, 8456 90 10, 8469 00 10, 8469 00 20, 8469 00 90, 8470 10 00, 8470 21 00, 8470 29 00, 8470 30 00, 8470 50 10, 8470 50 20, 8470 90 10, 8470 90 20, 8471 30 10, 8471 30 90, 8471 41 10, 8471 41 20, 8471 41 90, 8471 49 00, 8471 50 00, 8471 60 10, 8471 60 24, 8471 60 25, 8471 60 29, 8471 60 40, 8471 60 50, 8471 60 60, 8471 60 90, 8471 70 10, 8471 70 20, 8471 70 30, 8471 70 40, 8471 70 50, 8471 70 60, 8471 70 70, 8471 70 90, 8471 80 00, 8471 90 00, 8472 90 10, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99 and 8473 50 00) | |
| 371. | 8413 11 10, 8413 19 10, 8413 20 00, 8413 91 40, 8414 20 10, 8414 20 20, 8414 51 10, 8414 51 20, 8414 51 30, 8414 59 20, 8414 90 12, 8414 90 30, 8415 10 10, 8415 10 90, 8415 20 10, 8415 20 90, 8415 81 10, 8415 81 90, 8415 82 10, 8415 82 90, 8415 83 10, 8415 83 90, 8415 90 00, 8418 10 90, 8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20, 8418 69 30, 8419 11 10, 8419 19 10, 8419 81 10, 8419 81 20, 8419 81 90, 8419 90 10, 8421 21 20, 8422 11 00, 8422 90 20, 8423 10 00, 8423 90 10, 8433 11 90, 8433 19 90, 8450 11 00, 8450 12 00, 8450 19 00, 8450 90 10, 8451 21 00, 8451 30 10, 8452 10 11, 8452 10 12, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 22, 8452 10 29, 8452 30 10, 8452 90 10, | 10% |

| | | |
|------|--|------|
| | 8469 00 20, 8469 00 90 and 8472 90 10 | |
| 372. | 8501 and 8502 (except 8502 11 00 and 8502 20 10) | 7.5% |
| 373. | 8502 11 00 and 8502 20 10 | 10% |
| 374. | 8503, 8504 (except 8504 31 00, 8504 32 00, 8504 40 10 and 8504 40 30) | 7.5% |
| 375. | 8504 31 00, 8504 32 00, 8504 40 10 and 8504 40 30 | 10% |
| 376. | 8505 | 7.5% |
| 377. | 8506, 8507, 8508, 8509 and 8510 | 10% |
| 378. | 8511, 8512 (except 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10 and 8512 40 00) | 7.5% |
| 379. | 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10 and 8512 40 00 | 10% |
| 380. | 8513 (except 8513 10 10) | 7.5% |
| 381. | 8513 10 10 | 10% |
| 382. | 8514 and 8515 | 7.5% |
| 383. | 8516, 8518, 8519 (except 8519 50 00), 8521, 8522 and 8523 (except 8523 52 10, 8523 52 20, 8523 52 90, 8523 59 10 and 8523 80 20) | 10% |
| 384. | 8525 (except tariff items 8525 50 50, 8525 60 11, 8525 60 12, 8525 60 13, 8525 60 19, 8525 60 91, 8525 60 92, 8525 60 99, 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 and 8525 80 90) | 7.5% |
| 385. | 8525 50 50, 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 and 8525 80 90 | 10% |
| 386. | 8526 | 7.5% |
| 387. | 8527 and 8528 | 10% |
| 388. | 8529 (except 8529 10 19, 8529 10 29, 8529 10 99 and 8529 90 90) | 7.5% |
| 389. | 8529 10 19, 8529 10 29, 8529 10 99 and 8529 90 90 | 10% |
| 390. | 8530 | 7.5% |

| | | |
|------|---|------|
| 391. | 8531 (except 8531 20 00) | 10% |
| 392. | 8535, 8536 (except 8536 10 10, 8536 41 00, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 10 and 8536 69 90) | 7.5% |
| 393. | 8536 10 10, 8536 41 00, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 10 and 8536 69 90 | 10% |
| 394. | 8537 and 8538 | 7.5% |
| 395. | 8539 and 8540 (except 8540 40 00) | 10% |
| 396. | 8542 39 00 and 8543 (except 8543 10 10 and 8543 70 11) | 7.5% |
| 397. | 8544 (except 8544 70 10 and 8544 70 90), 8545, 8546 and 8547 | 7.5% |
| 398. | 8548 | 10% |
| 399. | 86 | 10% |
| 400. | 87 (except 8703, 8710 00 00 and 8711) | 10% |
| 401. | 88 (except 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00) | 10% |
| 402. | 89 | 10% |
| 403. | 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 and 9008 | 10% |
| 404. | 9010 (except 9010 60 00) | 7.5% |
| 405. | 9010 60 00 | 10% |
| 406. | 9011, 9012 and 9013 (except 9013 10 10, 9013 80 10 and 9013 90 10) | 7.5% |
| 407. | 9013 10 10 | 10% |
| 408. | 9014 and 9015 | 7.5% |
| 409. | 9016 and 9017 | 10% |
| 410. | 9018, 9019, 9020 00 00, 9021 and 9022 | 7.5% |
| 411. | 9023 | 10% |

| | | |
|------|--|------|
| 412. | 9024 and 9025 (except 9025 11 10 and 9025 19 10) | 7.5% |
| 413. | 9025 11 10 and 9025 19 10 | 10% |
| 414. | 9027 10 00 | 10% |
| 415. | 9027 90 10, 9027 90 20, 9027 90 90 and 9028 (except 9028 30) | 7.5% |
| 416. | 9028 30 10 and 9028 30 90 | 10% |
| 417. | 9029 (except 9029 10 10) | 7.5% |
| 418. | 9029 10 10 | 10% |
| 419. | 9030 (except 9030 40 00 and 9030 82 00), 9031 (except 9031 41 00), 9032 and 9033 00 00 | 7.5% |
| 420. | 91 | 10% |
| 421. | 92 | 10% |
| 422. | 93 | 10% |
| 423. | 94 | 10% |
| 424. | 95 | 10% |
| 425. | 96 | 10% |
| 426. | 97 (except 9704) | 10% |
| 427. | 98 (except 9803 00 00) | 10% |

[F. No. 334/1/2007-TRU]
S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 22/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन 1928 (शक)

सा.स.वि. 119(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 15/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 (सा०का०नि० सं० 113 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित) को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या ऐसा करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जो—

(क) जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से ; और

(ख) जहां शुल्क की अधिमानी दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से, अधिक है,

छूट देती है ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर मूल्यानुसार दर है ।

सारणी

| क्रम सं. | पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद | मानक दर | अधिमानी दर |
|----------|---|---------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 0806 20 | 100% | 90% |
| 2. | 0907 | 35% | 35% |
| 3. | 2504 | 10% | 5% |
| 4. | 2917 37 00 और 2933 71 00 | 10% | 10% |
| 5. | 2936 | 10% | 10% |
| 6. | 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00 | 10% | 10% |
| 7. | 2941 | 10% | 10% |
| 8. | 3001, 3002, 3003, और 3004 | 10% | 10% |
| 9. | 3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 | 10% | 10% |
| 10. | 3801 10 00, 3802 10 00 और 3812 10 00 | 10% | 10% |
| 11. | 3815 11 00 और 3815 12 | 10% | 5% |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 22/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.15/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 [published vide number G.S.R.113(E), dated the 1st March, 2005], except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of -

(a) the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable; and

(b) the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

Explanation. - For the purposes of this notification, the rate specified in column (3) or column (4) is the *ad valorem* rate.

Table

| S. No. | Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule | Standard rate | Preferential rate |
|--------|--|---------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 0806 20 | 100% | 90% |
| 2. | 0907 | 35% | 35% |
| 3. | 2504 | 10% | 5% |
| 4. | 2917 37 00 and 2933 71 00 | 10% | 10% |
| 5. | 2936 | 10% | 10% |
| 6. | 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 and 2939 59 00 | 10% | 10% |
| 7. | 2941 | 10% | 10% |
| 8. | 3001, 3002, 3003 and 3004 | 10% | 10% |
| 9. | 3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00 | 10% | 10% |
| 10. | 3801 10 00, 3802 10 00 and 3812 10 00 | 10% | 10% |
| 11. | 3815 11 00 and 3815 12 | 10% | 5% |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 23/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 120(अ).— (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 20/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 92 (अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

| क्रम सं० | पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद | माल का वर्णन | मानक दर |
|----------|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "63. | 1507 से 1515 | खाद्य श्रेणी वनस्पति तेल और उनके खाद्य श्रेणी भाग | कुछ नहीं |
| 64. | 2613 10 00 | सभी माल | कुछ नहीं" । |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पणी - मूल अधिसूचना सं० 20/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 16/2007-सीमाशुल्क, तारीख 21 फरवरी, 2007 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा०का०नि० सं० 98(अ), तारीख 21 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 23/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 92(E), of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No. 62 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

| S.No. | Chapter, heading, sub- heading or tariff item of the First Schedule | Description of goods | Standard rate |
|-------|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "63. | 1507 to 1515 | Edible grade vegetable oils and their edible grade fractions | Nil |
| 64. | 2613 10 00 | All goods | Nil." |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 92(E), dated the 1st March, 2006 and was subsequently amended vide notification No.16/2007-Customs, dated the 21st February, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.98 (E), dated the 21st February, 2007.

अधिसूचना

सं० 24/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 51/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो उसी तारीख को सा०का०नि० सं० 303(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं० | आयातकर्ता का नाम | माल का वर्णन | शर्तें |
|----------|------------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “2. | अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थाएं | (क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, साधित्र, उपस्कर (कंप्यूटर सहित) ; (ख) उपसाधन, पुर्जे, खपतयोग्य और जीवित प्राणी (प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए); (ग) कंप्यूटर साफ्टवेयर, काम्पेक्ट डिस्क - रीड आनली मेमोरी (सीडी - रोम), अभिलिखित चुम्बकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिचेज ; (घ) प्रोटोटाइप, जिसका सी.आई.एफ. मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है । | (1) आयातकर्ता - (i) भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत है ; (ii) आयात की प्रत्येक दशा में, संस्था के अध्यक्ष से यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं और उनका उपयोग केवल कथित प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; (iii) प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए जीवित प्राणियों के आयात की दशा में, आयात करते समय, संस्था के अध्यक्ष से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि जीवित प्राणी अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं और प्राणियों के संबंध में प्रयोगों के |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है । (2) उपरोक्त (1) के अंतर्गत आने वाले माल का आयात किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरण या विक्रय नहीं किया जाएगा ।” |
|--|--|--|--|

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 51/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 28/2003- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।।

NOTIFICATION

No. 24/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

C.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 which was published vide number G.S.R. 303(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for S.No.2 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

TABLE

| S.No. | Name of the importer | Description of goods | Conditions |
|-------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "2. | Research institutions, other than a hospital | (a) Scientific and technical instruments, apparatus, | (1) The importer - (i) is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research; |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>equipment (including computers);</p> <p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (for experimental purposes);</p> <p>(c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;</p> <p>(d) prototypes, the C.I.F. value of which does not exceed rupees fifty thousand in a financial year</p> | <p>(ii) produces a certificate from the Head of the institution, in each case of import, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for the stated purpose only;</p> <p>(iii) in the case of import of live animals for experimental purposes, produces, at the time of importation, a certificate from the Head of the institution that the live animals are required for research purposes and encloses a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.</p> <p>(2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold for a period of five years from the date of importation."</p> |
|--|---|---|

[F. No. 334/1/2007-TRU]
S. BAJAJ, Under Secy.

Note.- The principal notification No.51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No.28/2003-Customs, dated the 1st March, 2003 and published vide number G.S.R.163(E), dated the 1st March, 2003.

अधिसूचना

सं० 25/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 122(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 100/89-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1989 में, [सा.का.नि. 315 (अ), तारीख 1 मार्च, 1989 द्वारा प्रकाशित] निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 10 और क्रम सं० 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा०का०नि० सं० 315(अ), तारीख 1 मार्च, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 135/2000-सीमाशुल्क, तारीख 17 अक्टूबर, 2000 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 796(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

No. 25/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.100/89-Customs, dated the 1st March, 1989 [published vide number G.S.R. 315(E), dated the 1st March, 1989], namely:-

In the said notification, in the Table, Sl. Nos. 10 and 11, and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.100/89-Customs, dated the 1st March, 1989 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 315(E), dated the 1st March, 1989 and was last amended vide notification No.135/2000-Customs, dated the 17th October, 2000 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.796(E), dated the 17th October, 2000.

अधिसूचना

सं० 26/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 123(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 123 (अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 9 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “8517 11 या 8517 18” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 123 (अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 133/2006-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006 (सा.का.नि. सं० 794(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006) द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 26/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R 123(E), of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No.9, for the entry in column (2), the entry “8517 11 or 8517 18” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No. 25/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.123 (E), dated the 1st March, 2005 and was last amended by notification No 133/2006-Customs, dated the 30th December, 2006 [G.S.R 794(E), dated the 30th December, 2006].

अधिसूचना

सं० 27/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 124(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 91 और धारा 94 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने शिक्षा उपकर से, जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 12 के अधीन, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत सकल सीमाशुल्क के दो प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से, और इसके अतिरिक्त और उसी रीति में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर सीमा शुल्क के रूप में प्रभार्य किसी राशि से अधिक है, किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

- (i) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क ;
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क ;
- (iii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ;
- (iv) आयातित माल पर शिक्षा उपकर ; और
- (v) वित्त विधेयक, 2007 के खंड 129 के साथ पठित खंड 126 के अधीन जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, उक्त माल पर उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है,

छूट देती है ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION
No. 27/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 124(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sections 91 and 94 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004),

the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the Education Cess leviable thereon under the said sections 91 and 94 of the said Finance Act, which is in excess of the amount calculated at the rate of two per cent. of the aggregate of duties of customs which are levied and collected by the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue), under section 12 of the said Customs Act, and any sum chargeable on such goods under any other law for the time being in force, in addition to and in the same manner as, a duty of customs, but not including-

- (i) the additional duty referred to in sub-section (5) of section (3) of the said Customs Tariff Act;
- (ii) the safeguard duty referred to in sections 8B and 8C of the said Customs Tariff Act;
- (iii) the anti-dumping duty referred to in section 9A of the said Customs Tariff Act;
- (iv) the Education Cess on imported goods; and
- (v) the Secondary and Higher Education Cess leviable on the said goods under clause 126 read with clause 129 of the Finance Bill, 2007, which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 28/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक (संख्यांक 22), 2007 के खंड 126 और खंड 129, के साथ पठित, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल रखता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 के, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को, सा.का.नि. सं. 411(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी,

अन्तर्गत आने वाले सभी माल को, खंड 126 और खंड 129 के अधीन उनपर समस्त उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से, जो उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण लगाया गया था, छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - अधिसूचना सं० 69/2004-सीमाशुल्क, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 411(अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

No. 28/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 126 read with clause 129 of the Finance Bill (No.22), 2007, which by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods covered under notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 69/2004-Customs, dated 9th July 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 411(E), of the same date, from the whole of the Secondary and Higher Education Cess leviable thereon under the said clause 126 read with clause 129 which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: Notification No. 69/2004-Customs was published in Gazette of India, Extraordinary, vide No. G.S.R. 411(E) dated 9th July, 2004.

अधिसूचना

सं० 29/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 126(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/2005-सीमाशुल्क, तारीख 2 मई, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 265(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “30 अप्रैल, 2007” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “30 जून, 2009” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 39/2005-सीमाशुल्क, तारीख 2 मई, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 265(अ) तारीख 2 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 43/2005-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 2005 (सा.का.नि. सं० 300(अ), तारीख 13 मई, 2005) द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

No. 29/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.39/2005-Customs, dated the 2nd May, 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.265 (E), of the same date, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words, “30th day of April, 2007”, the figures, letters and words “30th day of June, 2009” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 39/2005-Cus, dated the 2nd May, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 265(E), dated the 2nd May, 2005 and was last amended vide notification No. 43/2005-Cus, dated the 13th May, 2005 [G.S.R. 300(E), dated the 13th May, 2005].

अधिसूचना

सं० 30/ 2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 127(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2007 है।
- (2) ये 1 मार्च, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

2. परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में, क्रम सं० 3घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

| क्र० सं० | संयंत्र या परियोजना का नाम | प्रयोजक प्राधिकारी |
|----------|-------------------------------|------------------------------|
| “3ड | अंकीय सिनेमा विकास परियोजनाएं | सूचना और प्रसारण मंत्रालय” । |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 580(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1986 [अधिसूचना सं० 230/1986 - सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986] द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं० 89(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 [अधिसूचना सं० 17/2006 - सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 30/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely :-

1. (i) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall come into force on the 1st day of March, 2007.

2. In the Project Imports Regulations, 1986, in the Table, after Sr. No. 3D and the entries relating thereto, the following Sr. No. and entries shall be inserted, namely:-

| Sr. No. | Name of the plant or project | Sponsoring Authority |
|---------|-------------------------------------|--|
| "3E. | Digital cinema development projects | Ministry of Information and Broadcasting". |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 580(E), dated the 3rd April, 1986 [Notification No. 230/1986-Customs, dated the 3rd April, 1986] and was last amended vide number G.S.R. 89(E), dated the 1st March, 2006. [Notification No. 17/2006-Customs, dated the 1st March, 2006].

अधिसूचना

सं० 31/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 128(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 98 के शीर्ष 9801 की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, अंकीय सिनेमा विकास परियोजनाओं को, उक्त शीर्ष के अधीन निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 42/96 - सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 294(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम. संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) |
|------|--------------------------------|
| " 37 | अंकीय सिनेमा विकास परियोजनाएं" |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 42/96 - सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं० 294(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 07/2007 - सीमाशुल्क, तारीख 22 जनवरी, 2007 [सा.का.नि. सं० 40(अ), तारीख 22 जनवरी, 2007] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 31/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of heading 9801 contained in Chapter 98 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby notifies the Digital cinema development projects as projects for the purpose of assessment under the said heading and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published vide number G.S.R. 294(E), of the same date, namely:-

In the said notification, after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) |
|-----|---------------------------------------|
| "37 | Digital cinema development projects." |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note.— The principal notification No. 42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 07/2007-Customs, dated the 22nd January, 2007 [G.S.R. 40(E), dated the 22nd January, 2007].

अधिसूचना

सं० 32/ 2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 129(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 49/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, आसाधारण में, सा.का.नि.

सं. 301 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (2) की मद (II) में “247,” अंकों के पश्चात् “349,” अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० सं० 301 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 12/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 25(अ), तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 32/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 129(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.301(E), dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No. 1, in column (2), in item (II), after the figures “247,” the figures “, 349,” shall be inserted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.301(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No.12/2004-Customs, dated the 8th January, 2004 which was published vide number G.S.R.25(E), dated the 8th January, 2004.

अधिसूचना

सं० 33/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 130(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/2004-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 74(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, —

- (i) क्रम सं० 5 से क्रम सं० 16 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं० 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना, सं० 27/2004-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा०का०नि० सं० 74(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 12/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2006 (सा.का.नि. सं० 84(अ), तारीख 1 मार्च, 2006) द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 33/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public

interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2004-Customs, dated the 23rd January, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.74(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the table,

- (i) S.No. 5 to S.No. 16 (both inclusive) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S.No. 25 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 27/2004-Customs, dated the 23rd January, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 74(E), dated the 23rd January, 2004 and was last amended vide notification No.12/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 [G.S.R.84 (E), dated the 1st March, 2006].

अधिसूचना

सं० 34/2007-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 131(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 291(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 16 के सामने, स्तंभ (2) में, “ऐरामिड धागे” शब्दों के स्थान पर, “ऐरामिड धागे, ऐरामिड सूत” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 113/2006-सीमाशुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 2006 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि. सं० 705(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 34/2007-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 291 (E), of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No. 16, in column (2), for the words “aramid thread,” the words “aramid thread, aramid yarns,” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal Notification No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No. 113/2006-Customs, dated the 16th November, 2006 which was published vide number G.S.R. 705(E), dated the 16th November, 2006

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| अधिसूचना | नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007. |
| सं० 3/2007- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क | 10 फाल्गुन, 1928 (शक) |

सा.का.नि. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 3/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं० 93 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सारणी में,-

(i) क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|-----------------------------|--|----------|-----|
| “18क. | 1905 31 00 या 1905 90 20 | पैकेज के रूप में निकासी किए गए बिस्कुट की प्रति कि.ग्रा. समतुल्य फुटकर विक्रय कीमत 50 रु. से अनधिक । | कुछ नहीं | ”; |

स्पष्टीकरण 1 - “फुटकर विक्रय कीमत” से ऐसा अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिसपर उत्पाद शुल्क्य माल का पैकेज के रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जाए और जिसमें, यथास्थिति, सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यवहारियों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और उसी प्रकार के प्रभार सम्मिलित हैं, और विक्रय के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है ;

स्पष्टीकरण 2 - “प्रति कि.ग्रा. समतुल्य फुटकर विक्रय कीमत” निम्नलिखित रीति में संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

यदि पैकेज में X ग्राम बिस्कुट है और घोषित फुटकर विक्रय कीमत Y रु. है तो फुटकर विक्रय कीमत समतुल्य प्रति कि.ग्रा. = $(Y \times 1000)$

X

दृष्टांत : यदि पैकेज में 50 ग्राम बिस्कुट है और फुटकर विक्रय कीमत 2 रु. है तो फुटकर विक्रय कीमत समतुल्य प्रति टन = $(2 \times 1000) = 40$ रु.

50

(ii) क्रम सं० 28 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, “टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स (सोया बड़ी)” रखा जाएगा ;

(iii) क्रम सं. 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|------------|---------|-----|-----|
| “ 29क | 2106 90 20 | सभी माल | 16% | —”; |

(iv) क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|---------|---|----------|-----|
| “30क | 2106 90 | सभी प्रकार के मिश्रित खाद्य, जिनके अन्तर्गत तुरन्त तैयार होने वाला मिश्रित खाद्य भी है। | कुछ नहीं | —”; |

(v) क्रम सं. 36 के सामने स्तम्भ (5) में की प्रविष्टि के सामने “2” प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

(vi) क्रम सं० 37 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “10 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं० 38 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “22 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) उपाबंध में, शर्त 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

| शर्त सं० | शर्त |
|----------|--|
| “2 | इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होगी कि बीड़ियों का विनिर्माता, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, उपायुक्त या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल से पूर्व नीचे दिए गए प्ररूप में एक घोषणा फाइल करता है : परन्तु यह है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए घोषणा, 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व फाइल की जाएगी। |

प्रारूप

अधिसूचना सं० 3/2006 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 की क्रम सं० 36 के अधीन उत्पाद-शुल्क से छूट के फायदे का लाभ लेने के लिए बीड़ियों के विनिर्माता द्वारा फाइल की जाने वाली घोषणा।

1. विनिर्माता का नाम और पता
2. स्थायी लेखा सं०
3. जहां ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन परिसरों के पते सहित, विनिर्माता द्वारा की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरे

| परिसरों का पता | की जाने वाली प्रक्रिया |
|----------------|------------------------|
| | |

- 4 (क) क्या जाब कर्मकारों द्वारा बीड़ियों के विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है (जैसे बीड़ियों को बेलना)

(ख) यदि हां, तो जाब कर्मकार का नाम और पता, उनके द्वारा किए जाने वाले प्रक्रिया और बीड़ियों की मात्रा जिसके संबंध में ऐसी प्रक्रिया पूर्व वित्तीय वर्ष में की गई है।

| जाब कर्मकारों का नाम और पता | की गई प्रक्रिया की प्रकृति | बीड़ियों की मात्रा |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | |

5. विनिर्माता द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में विनिर्मित और निकासी की गई बीड़ियों की कुल मात्रा।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी हर प्रकार से सत्य, सही और पूरी है।

(निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम)

स्थान :
तारीख

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 93 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION
No.3/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 132(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 93(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Table,-

(i) after S.No.18 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|-----------------------------|---|-----|-----|
| "18A. | 1905 31 00 or 1905 90 20 | Biscuits cleared in packaged form, with per kg. retail sale price equivalent not exceeding Rs.50. | Nil | -"; |

Explanation 1- "Retail sale price" means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is sole consideration for such sale.

Explanation 2- "per kg. retail sale price equivalent" shall be calculated in the following manner, namely:-

If the package contains X gm of biscuits and the declared retail sale price on it is Rs. Y, then the per kg. retail sale price equivalent = $\frac{Y \times 1000}{X}$

Illustration:- If the package contains 50gm of biscuits and the declared retail sale price on it is Rs. 2, then per kg. retail sale price equivalent = Rs. $\frac{2 \times 1000}{50}$ = Rs. 40.

50

(ii) against S.No.28, for the entry in column (3), the entry "Texturised Vegetable Proteins (Soya bari)" shall be substituted;

(iii) after S.No. 29 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|------------|-----------|-----|-----|
| "29A. | 2106 90 20 | All goods | 16% | -"; |

(iv) after S.No. 30 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|---------|---|-----|-----|
| "30A. | 2106 90 | All kinds of food mixes, including instant food mixes | Nil | -"; |

- (v) against S.No.36, for the entry in column (5), the entry "2" shall be substituted;
- (vi) against S.No.37, for the entry in column (4), the entry "Rs.10 per thousand" shall be substituted;
- (vii) against S.No.38, for the entry in column (4), the entry "Rs.22 per thousand" shall be substituted; and
- (B) in the Annexure, after Condition No. 1 and the entry relating thereto, the following condition shall be inserted, namely,-

| Condition No. | Conditions |
|---------------|--|
| "2. | The exemption contained in this notification shall apply subject to the condition that the manufacturer of biris, files a declaration in the format given below before the 30 th day of April in each financial year with the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be. Provided that the declaration for the financial year 2006-2007 shall be filed on or before the 31 st day of March, 2007. |

Format

Declaration to be filed by a manufacturer of biris availing benefit of exemption from excise duty under S.No. 36 of the Notification no. 3/2006-Central Excise dated 1st of March, 2006

1. Name and Address of the manufacturer.
2. PAN
3. Details of manufacturing processes undertaken by the manufacturer along with the address of premises where such activities are carried out.

| Address of the premises | Processes being undertaken |
|-------------------------|----------------------------|
| | |

4. (a) Whether any process of manufacture of biris is undertaken by job worker (such as rolling of biris) Y/N
(b) If yes, the name and address of job-worker, processes undertaken by them, and the quantity of biris in relation to which such processes have been carried out in the previous financial year.

| Name and address of the job worker | Nature of processes undertaken | Quantity of Biris |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | |

5. Total quantity of biris manufactured and cleared in the previous financial year by the manufacturer.

I hereby declare that the information given in above is true, correct and complete in every respect.

(Signature and name of the Assessee or authorized signatory)

Place:

Date:

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.93(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R.804(E), dated the 30th December, 2006.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| अधिसूचना | नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007. |
| सं० 4/2007- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 10 फाल्गुन, 1928 (शक) |

सा.का.नि. 133A (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 4/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 94 (अ) तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सारणी में, -

(i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---------|--|------------------|-----|
| "1 | 2523 29 | किसी छोटे सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित और पैकेज के रूप में निकासी किया गया सभी माल, - | | |
| | | (i) जिसका फुटकर विक्रय मूल्य 190 रु. प्रति 50 किग्रा थैले से अधिक नहीं है या प्रति टन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य 3800 रु से अधिक नहीं है; | 220 रु. प्रति टन | 1 |
| | | (ii) जिसका फुटकर विक्रय मूल्य 190 रु. प्रति 50 किग्रा थैले से अधिक है या प्रति टन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य 3800 रु से अधिक है; | 370 रु. प्रति टन | 1 |
| 1क | 2523 29 | सभी माल, जो किसी छोटे सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित नहीं किया गया है और 190 रु. प्रति 50 कि.ग्रा. के थैले से अनधिक के फुटकर विक्रय मूल्य प्रति टन 3800 रु से अनधिक के समतुल्य विक्रय फुटकर के पैकेज के रूप में निकासी किया गया है ; | 350 रु. प्रति टन | - |
| 1ख | 2523 29 | पैकेज के रूप में निकारी किए गए माल से भिन्न, किसी छोटे सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित सभी माल । | 250 रु. प्रति टन | 1 |
| 1ग | 2523 29 | पैकेज के रूप में निकारी किए गए माल से भिन्न, सभी माल जो किसी छोटे सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित किया गया है या नहीं और जो क्रम सं० 1ख के अन्तर्गत नहीं आता है । | 400 रु. प्रति टन | - |

स्पष्टीकरण - क्रम सं. 1, 1क, 1ख और 1ग के प्रयोजनों के लिए, -

1. "छोटा सीमेंट संयंत्र" का निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) कोई कारखाना, जिसमें उर्ध्वाधर शाफ्ट भट्टे का उपयोग किया जाता है, जिसकी संस्थापित क्षमता 300 टन प्रतिदिन या 99,000 टन प्रतिवर्ष से अनधिक है और कारखाने द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में, उत्पादित सीमेंट की कुल निकासी 109,500 टन से अधिक नहीं होगी ; या

(ii) कोई कारखाना, जिसमें सेटरी भट्टे का उपयोग किया जाता है, जिसकी संस्थापित क्षमता 900 टन प्रतिदिन या 2,97,000 टन प्रतिवर्ष से अनधिक है और कारखाने द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में, उत्पादित सीमेंट की कुल निकासी 3,00,000 टन से अधिक नहीं होगी ;

2. “फुटकर विक्रय मूल्य” से ऐसा अधिकतम मूल्य अभिप्रेत है जिसपर उत्पाद शुल्क माल का पैकेज के रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जाए और जिसमें, यथास्थिति, सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यवहारियों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और उसी प्रकार के सभी प्रभार सम्मिलित हैं, और इस प्रकार मुद्रित मूल्य विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है ;

परन्तु यदि माल की थोक पैकेजों में निकासी की जाती है जिनपर घोषित फुटकर विक्रय मूल्य के साथ मानक पैकेजों की संख्या है तो ऐसे घोषित फुटकर विक्रय मूल्य को उपरोक्त निर्दिष्ट संबंधित क्रम संख्याओं के अधीन शुल्क की दर का अवधारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि थोक पैकेज में घोषित विक्रय मूल्य, और प्रति टन समतुल्य विक्रय मूल्य के अनुसार मानक पैकेजों में अन्तर है तो थोक पैकेजों के प्रति टन समतुल्य विक्रय मूल्य या मानक पैकेजों के प्रति टन समतुल्य विक्रय मूल्य को इसमें से जो भी अधिक हो, शुल्क की दर अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि जहां माल का फुटकर विक्रय मूल्य, मानक भार और माप मानक (पैकेज में वाणिज्य) नियम, 1977 के अधीन घोषित किया जाना अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार घोषित नहीं किया जाता है, वहां शुल्क का इस प्रकार अवधारण किया जाएगा जैसे पैकेजों के रूप में माल से भिन्न निकासी किए गए माल का किया जाता है;

3. जहां पैकेज पर एक फुटकर विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य घोषित किया जाता है वहां ऐसे फुटकर विक्रय मूल्य के अधिकतम को फुटकर विक्रय मूल्य समझा जाएगा ;

4. (i) “प्रति टन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य” निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

यदि पैकेज में X किग्रा सीमेंट है और घोषित फुटकर विक्रय मूल्य Y रु. है तो प्रति टन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य = $\frac{Y \times 1000}{X}$

उदाहरण : यदि पैकेज में 25 किग्रा है और फुटकर विक्रय मूल्य 180 रु. है तो प्रति टन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य = $\frac{180 \times 1000}{25} = 7200$ रु.

25

(ii) “प्रति टन समतुल्य विक्र मूल्य” उस रीति में संगणित किया जाएगा जो उपरोक्त (i) में उल्लिखित है ।

उदाहरण : यदि थोक पैकेज में 500 कि.ग्रा. सीमेन्ट है और घोषित
मूल्य 3200 रु. है तो प्रति टन समतुल्य विक्रय मूल्य
 $(3200 \times 1000) = 6400$ रु.
500

(ii) क्रम सं. 17 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “6 प्रतिशत घन 5.00 रु. प्रति लिटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 19 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “6 प्रतिशत घन 1.25 रु. प्रति लिटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) क्रम सं. 52ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------------|---|-----|-----|
| “52च | 2902 20 00 | कैप्रोलैक्टम के विनिर्माण में उपयोग के लिए बेंजीन | 12% | 2 |
| 52छ | 2933 71 00 | कैप्रोलैक्टम | 12% | -”; |

(vi) क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|----------|--|------|-----|
| “53क | 29 या 38 | वनस्पति तेलों से अभिप्राप्त लंबी श्रृंखला वसा अम्लों के अल्काई | कुछ | -”; |
| | | इस्टर्स जो सामान्य रूप से बायो-डीजल के नाम से ज्ञात हैं। | नहीं | |

(vii) क्रम सं. 61 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “8 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं. 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|-------------|-----|-----|
| “62क | 3005 | वाडिंग, गॉज | 8% | -”; |

(ix) क्रम सं. 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(x) क्रम सं. 80क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|--------------|-----|-----|
| “80ख | 3908 | नाइलॉन चिप्स | 12% | -”; |

(xi) क्रम सं. 87क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|---------|-----|-----|
| “87ख | 4412 | सभी माल | 8% | -”; |

(ख) उपाबंध की शर्तों में, -

(i) शर्त 1 के खंड (ii) में "तथापि, 400 रु प्रति टन की दर से शुल्क के संदाय पर की गई सीमेंट की निकासी निम्नान्वे हजार टनों की ऊपर वर्णित मात्रा की संगणना करने के लिए लेखे में नहीं ली जाएगी।" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"तथापि, शुल्क के संदाय पर प्रभावित सीमेंट की निकासियों को, -

(क) क्रम सं. 1क के अंतर्गत आने वाले माल की दशा में 350/- रु प्रति टन की दर से ;

(ख) क्रम सं. 1ग के अंतर्गत आने वाले माल की दशा में 400/- रु प्रति टन की दर से ; और

(ग) पैकेज के रूप में निकासी किए गए माल की दशा में 600/- रु प्रति टन की दर से और ऐसे माल का फुटकर विक्रय मूल्य 190/- रुपए प्रति 50 किलोग्राम थैले या प्रति टन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य के 3800/- रु से अधिक हो जाता है ता

तो उपरोक्त उल्लिखित निम्नान्वे हजार टन की संगणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा।"

(ii) शर्त सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में, सा.का.नि. सं. 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसम्बर 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

No.4/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 94(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Table,-

(i) for S.No.1 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---------|--|-------------------|-----|
| "1. | 2523 29 | All goods, manufactured in a mini cement plant and cleared in packaged form- | | |
| | | (i) of retail sale price not exceeding Rs. 190 per 50 kg bag or of per tonne equivalent retail sale price not exceeding Rs.3800; | Rs.220 per tonne | 1. |
| | | (ii) of retail sale price exceeding Rs. 190 per 50 kg bag or of per tonne equivalent retail sale price exceeding Rs.3800; | Rs.370 per tonne | 1 |
| 1A | 2523 29 | All goods, whether or not manufactured in a mini cement plant, not covered in S.No.1 and cleared in packaged form of retail sale price not exceeding Rs. 190 per 50 kg bag or of per tonne equivalent retail sale price not exceeding Rs.3800; | Rs. 350 per tonne | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---------|---|------------------|-----|
| 1B. | 2523 29 | All goods, manufactured in a mini cement plant; other than those cleared in packaged form; | Rs.250 per tonne | 1 |
| 1C. | 2523 29 | All goods, whether or not manufactured in a mini cement plant, not covered in S.No.1B, other than those cleared in packaged form; | Rs.400 per tonne | -- |

Explanation.— For the purposes of S.Nos. 1, 1A, 1B and 1C.:-

1. "mini cement plant" means-

(i) a factory using vertical shaft kiln, with installed capacity not exceeding 300 tonnes per day or 99,000 tonnes per annum and the total clearances of cement produced by the factory, in a financial year, shall not exceed 1,09,500 tonnes; or

(ii) a factory using rotary kiln, with installed capacity not exceeding 900 tonnes per day or 2,97,000 tonnes per annum and the total clearances of cement produced by the factory, in a financial year, shall not exceed 3,00,000 tonnes;

2. "retail sale price" means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price so printed is the sole consideration for the sale:

Provided that if the goods are cleared in wholesale packages containing a number of standard packages with retail sale price declared on them, then, such declared retail sale price shall be taken into consideration for determining the rate of duty under respective S.Nos. referred to above:

Provided further that if the declared sale price on wholesale package and on the standard packages is different in terms of per tonne equivalent sale price, then, the per tonne equivalent sale price of the wholesale package or per tonne equivalent retail sale price of the standard packages, whichever is higher, shall be taken into consideration for determining the rate of duty:

Provided also that where the retail sale price of the goods are not required to be declared under the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, and thus not declared, the duty shall be determined as is in the case of goods cleared in other than packaged form;

3. Where on the package, more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale prices shall be deemed to be the retail sale price;

4. (i) "per tonne equivalent retail sale price" shall be calculated in the following manner, namely:-

If the package contains X kg of cement and the declared retail sale price is Rs. Y, then the per tonne equivalent retail sale price = $\frac{Y \times 1000}{X}$

X

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|

Example: If the package contains 25 kg and retail sale price is Rs. 180, the per tonne equivalent retail sale price = Rs. 180×1000

25

= Rs. 7200

(ii) "per tonne equivalent sale price" shall be calculated in a manner similar to that mentioned in (i) above.

Example: If the wholesale package contains 500 kg of cement and the declared price is Rs. 3200, the per tonne equivalent sale price = Rs. (3200×1000) = Rs. 6400

500

(ii) against S.No. 17, for the entry in column (4), the entry "6% plus Rs. 5.00 per litre" shall be substituted;

(iii) against S.No. 19, for the entry in column (4), the entry "6% plus Rs. 1.25 per litre" shall be substituted;

(iv) S.No. 42 and the entries relating thereto shall be omitted;

(v) after S.No. 52E and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------------|---|-----|-----|
| 52F. | 2902 20 00 | Benzene for use in the manufacture of caprolactam | 12% | 2 |
| 52G. | 2933 71 00 | Caprolactam | 12% | -" |

(vi) after S.No. 53 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|----------|---|-----|-----|
| 53A. | 29 or 38 | Alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio-diesels. | Nil | -" |

(vii) against S.No. 61, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;

(viii) after S.No. 62 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|----------------|-----|-----|
| 62A. | 3005 | Wadding, gauze | 8% | -" |

(ix) S.No. 75 and the entries relating thereto shall be omitted;

(x) after S.No. 80A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|-------------|-----|-----|
| 80B. | 3908 | Nylon Chips | 12% | -" |

(xi) after S.No. 87A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|-----------|-----|-----|
| 87B. | 4412 | All goods | 8% | -" |

(B) in the Annexure, in the Conditions,-

(i) in Condition 1, in clause (ii), for the words and figures “However, the clearances of cement effected on payment of duty at the rate of Rs.400 per tonne shall not be taken into account for computing the above mentioned quantity of ninety-nine thousand tonnes”, the following shall be substituted, namely:-

“However, the clearances of cement effected on payment of duty-

(a) at the rate of Rs.350 per tonne, in case of goods falling under S.No. 1A;

(b) at the rate of Rs.400 per tonne, in case of goods falling under S.No.1C; and

(c) at the rate of Rs.600 per tonne in case of goods cleared in packaged form and the retail sale price of such goods exceeds Rs. 190 per 50 kg bag or per tonne equivalent retail sale price exceeds Rs.3800,

shall not be taken into account for computing the above mentioned quantity of ninety-nine thousand tonnes.”;

(ii) Condition No. 7 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.94(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2006.

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

अधिसूचना

सं० 5/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 134(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 5/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो सा०का०नि० सं० 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं. 1 के सामने, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर “210 डेनियर्स या उसके गुणकों में नायलान एकल फिलामेंट सूत जिसकी सहायता 6 प्रतिशत हो से भिन्न सभी माल” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--------------------------------|--|-----|-----|
| “1क | 5402, 5404 या 5406 10 00 | 210 डेनियर्स या उसके गुणकों में नायलान फिलामेंट सूत (नायलान एकल फिलामेंट सूत सहित) जिसकी सहायता 6 प्रतिशत हो | 12% | —”; |

(iii) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|------------------------|-----|-----|
| “5क | 6406 (6406 99 30 और 6406 99 40 के सिवाय) | सभी माल | 8% | - |
| 5ख | 6601 | छतरियां और धूप छतरियां | 8% | —”; |

(iv) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) क्रम सं. 22 के सामने, स्तम्भ (3) में, “या संश्लिष्ट” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|---|-----|------|
| “22क | 7105 | संश्लिष्ट बहुमूल्य या कम मूल्यवान रत्न की धूलि और चूर्ण | 8% | —” । |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No.5/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

134

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 95(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- against S.No.1, for the entry in column (3), the entry “All goods, other than nylon filament yarn of 210 deniers or in the multiples thereof, with tolerance of 6 per cent.” shall be substituted;
- after S.No.1 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|--------------------------|---|-----|-----|
| "1A. | 5402, 5404 or 5406 10 00 | Nylon filament yarn (including nylon monofilament yarn) of 210 deniers or in the multiples thereof, with tolerance of 6 per cent. | 12% | -"; |

(iii) after S.No.5 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|---|-----------------------------|-----|-----|
| "5A. | 6406 (except 6406 99 30 and 6406 99 40) | All goods | 8% | - |
| 5B | 6601 | Umbrellas and sun umbrellas | 8% | -"; |

(iv) S.No.17 and the entries relating thereto shall be omitted;

(v) against S.No.22, in column (3), the words "or synthetic" shall be omitted;

(vi) after S.No.22 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|------|---|-----|-----|
| "22A. | 7105 | Dust and powder of synthetic precious or semi-precious stones | 8% | -" |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.95(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

सं० 6/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 6/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो सा०का०नि० सं० 96(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असोधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(I) उद्देशिका के परंतुक में, "1 मई, 2007" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 मई, 2009" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(II) सारणी में, -

(i) क्रम सं. 3 के सामने, स्तम्भ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 7 के सामने, स्तम्भ (3) में, की मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 2. इसके स्रोत से संयंत्र तक और वहां से उसके प्रथम भंडारण बिन्दु तक (जिसके अंतर्गत उसका स्वच्छ उपचारित जल पात्र, यदि कोई हो, भी है) जल के परिधान के लिए आवश्यक पाइप ;

3. 20 सेंटीमीटर से अधिक बाहरी व्यास के पाइप जब ऐसे पाइप जल पूर्ति परियोजनाओं का एकीकृत भाग हों ।”;

(iii) क्रम सं. 8क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|----------|-----|
| “8ख | 8421 21 (8421 21 20 के सिवाय) | जल शुद्धिकरण उपस्कर, जिसका प्रचालन निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों पर आधारित है :- (क) पोलि एक्रिलोनाइट मेम्बरेन्स पर आधारित परा फिल्टरन प्रौद्योगिकी या (ख) चीनी मिट्टी सूक्ष्म फिल्टरन मेम्बरेन का उपयोग करते हुए आर्सेनिक निष्कासन प्रौद्योगिकी या (ग) पतली फिल्म संघटक मेम्बरेन (टीएफसी) उत्क्रम परासरण प्रौद्योगिकी ; या (घ) केन्डल रहित टेराकोटा जल फिल्टरन । | शून्य | —”; |
| 8ग. | 8421 21 20 | विद्युत और दाबकृत नल के जल के बिना कार्य करने वाले जल फिल्टर | कुछ नहीं | —”; |

(iv) क्रम सं. 12 के सामने, स्तम्भ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 17 के स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि (ड) और प्रविष्टि (च) के स्थान पर क्रमशः “(ड) डीपीडी ड्राइव/डीपीडी राइटर” और “(च) फ्लैश मेमोरी” प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी ;

(vi) क्रम सं. 23 के सामने, स्तम्भ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------|---|----------|-----|
| “54क | 8802 | सभी माल | कुछ नहीं | 21 |
| 54ख | 8803 | शीर्ष 8802 के वायुयान के पुर्जे | कुछ नहीं | 22 |
| 54ग | 8803 | निम्नलिखित के पुर्जे - (i) शीर्ष 8801 के अंतर्गत आने वाले माल ; या | कुछ नहीं | —”; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | (ii) टैरिफ मद 8802 60 00 के अंतर्गत आने वाले माल | | |
|--|--|--|--|

(viii) क्रम सं. 75 के सामने, स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर “सभी माल” और “8%” प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(III) उपाबंध में, शर्त 20 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएंगी :-

| शर्त सं० | शर्त |
|----------|--|
| “21 | <p>यदि वायुयान निम्नलिखित द्वारा उपाप्त किया जाता है, -</p> <p>(क) भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या</p> <p>(ख) अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा के प्रचालन के प्रयोजन के लिए किसी प्रचालक या उसकी ओर से ;</p> <p>स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए</p> <p>(क) “प्रचालक” से वायुयान प्रचालन में लगा हुआ या लगने के लिए प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति संगठन या उद्यम अभिप्रेत है ;</p> <p>(ख) “अनुसूचित वायु परिवहन सेवा” से उन्हीं दो या अधिक स्थानों के बीच की जाने वाली कोई वायु परिवहन सेवा और किसी प्रकाशित समय सूची के अनुसार या इस प्रकार नियमित उड़ानों या बारम्बार उड़ानों के साथ प्रचालित है कि वे एक मान्यताप्राप्त रूप में प्रणालीबद्ध श्रृंखला हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुली है ; और</p> <p>(ग) “अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा” से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार किसी अनुसूचित आधार पर स्थोरा या डाक का वायु परिवहन या उड़ानें अभिप्रेत हैं, जो इस प्रकार नियमित या बारम्बार हैं कि वे किसी मान्यताप्राप्त रूप में प्रणालीबद्ध श्रृंखला हैं, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए खुली नहीं हैं ।</p> |
| 22. | <p>यदि, -</p> <p>(i) यदि भारत सरकार, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्वामित्वाधीन वायुयान की सर्विस करने, मरम्मत करने या अनुरक्षण के लिए आशयित है ; या</p> <p>(ii) वायुयान की सर्विस करने के लिए, मरम्मत करने के लिए या अनुरक्षण के लिए आशयित है, जिसका यथास्थिति, अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा के प्रचालन के लिए उपयोग किया जाता है ।</p> <p>स्पष्टीकरण - “प्रचालक”, “अनुसूचित वायु परिवहन सेवा” और “अनुसूचित वायु स्थोरा सेवा” पदों के वही अर्थ हैं, जो उपरोक्त शर्त सं० 21 में क्रमशः उनके हैं ।”</p> |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 96(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया था और जो सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

No. 6/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 96(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification,-

- (I) in the preamble, in the proviso, for the words and figures "1st day of May, 2007", the words and figures "1st day of May, 2009" shall be substituted;
- (II) in the Table,-
- (i) against S.No.3, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;
- (ii) against S.No. 7, in column (3), for item (2), the following shall be substituted, namely:-

- "2. Pipes needed for delivery of water from its source to the plant (including the clear treated water reservoir, if any, thereof), and from there to the first storage point;
3. Pipes of outer diameter exceeding 20 cm when such pipes are integral part of the water supply projects.";

- (iii) after S.No.8A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|-----------------------------------|---|-----|-----|
| "8B. | 8421 21 (except 8421 21 20) | Water purification equipment, based on following technologies:- (a) Ultra-filtration Technology using poly acrylonite membranes; or (b) Arsenic Removal Technology using ceramic micro-filtration membrane; or (c) Reverse Osmosis Technology using thin film composite membrane (TFC); or (d) Candle-less terracotta water filtration. | Nil | |
| 8C. | 8421 21 20 | Water filters functioning without electricity and pressurized tap water | Nil | -"; |

- (iv) against S.No.12, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;
- (v) against S.No.17, in column (3), for the entries (e) and (f), the entries "(e) DVD Drive/ DVD writers" and "(f) Flash memory" shall respectively be substituted;
- (vi) against S.No.23, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;
- (vii) after S.No.54 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|------|---|-----|-----|
| "54A. | 8802 | All goods | Nil | 21 |
| 54B. | 8803 | Parts, of aircraft of heading 8802 | Nil | 22 |
| 54C. | 8803 | Parts of (i) goods falling under heading 8801; or (ii) goods falling under tariff item 8802 60 00 | Nil | — |

(viii) against S.No. 75, for the entries in columns (3) and (4), the entries "All goods" and "8%" shall respectively be substituted;

(ix) S.No. 88 and the entries relating thereto shall be omitted;

(III) in the Annexure, after Condition No. 20 and the entry relating thereto, the following conditions shall be inserted, namely:-

| Condition No. | Conditions |
|---------------|--|
| 21. | <p>If the aircraft is procured by-</p> <p>(a) Government of India, State Governments, Public Sector Undertakings of the Central Government or the State Governments; or</p> <p>(b) an operator or on his behalf for the purpose of operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service;</p> <p>Explanation.- for the purposes of this entry,</p> <p>(a) "operator" means a person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;</p> <p>(b) "scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public; and</p> <p>(c) "scheduled air cargo service" means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, not open to use by passengers.</p> |
| 22. | <p>If -</p> <p>(i) intended for servicing, repair or maintenance of aircraft owned by Government of India, State Governments, Public Sector Undertakings of the Central Government or the State Governments; or</p> <p>(ii) intended for servicing, repair or maintenance of aircraft, which is used for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service, as the case may be.</p> <p>Explanation.- The expressions "operator", "scheduled air transport service" and "scheduled air cargo service" shall have the meanings respectively assigned to them in condition 21 above."</p> |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.96(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 7/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 136(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 3/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 फरवरी, 2005 में, जो सा०का०नि० 95(अ), तारीख 24 फरवरी, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|------------|---|-------|-----|
| “5क | 1901 90 90 | शिशु उपयोग के लिए निर्मितियां, जो एकक आधानों में रखी जाती हैं | शून्य | —”; |

(ii) क्रम सं. 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 95(अ), तारीख 24 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION
No. 7/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2005-Central Excise, dated the 24th February, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.95(E), dated the 24th February, 2005, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(i) after S.No. 5 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------|------------|--|-----|-----|
| “5A. | 1901 90 90 | Preparations for infant use, put up in unit containers | Nil | —”; |

(ii) S.No. 78 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.95(E), dated the 24th February, 2005, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R.804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

सं० 8/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 137(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, स्तम्भ (2) में, “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (iii) और (iv) में, “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, क्रमशः “एक करोड़ पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पैरा 3 में, “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

3. ये अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 को लागू होगी ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 8/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 138(E), dated the 1st March, 2003, namely:-

2. In the said notification,-

- (i) in the Table, in column (2), for the words "one hundred lakh rupees", the words "one hundred and fifty lakh rupees" shall be substituted;
- (ii) in paragraph 2, in sub-paragraphs (iii) and (iv), for the words "rupees one hundred lakhs" occurring at both places, the words "one hundred and fifty lakh rupees" shall be substituted;
- (iii) in paragraph 3, for the words "one hundred lakh rupees", the words "one hundred and fifty lakh rupees" shall be substituted.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification number 8/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 138(E), dated 1st March, 2003, and was last amended vide notification number 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 9/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 138(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 126 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि.सं 126 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 22/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा किया गया था और तारीख 13 मई, 2005 सा.का.नि. सं. 295(अ), तारीख 13 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

No. 9/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2005-Central Excise, dated the 1st March, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 126(E), dated the 1st March, 2005, namely:—

In the said notification, in the Table, against S.No. 1, for the entry in column (4), the entry “6%” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 126(E), dated the 1st March, 2005, and was last amended by notification No. 22/2005-Central Excise, dated the 13th May, 2005 and published vide number G.S.R. 295(E), dated the 13th May, 2005.

अधिसूचना

सं० 10/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 139(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 10/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो सा०का०नि० 100(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 100(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

No. 10/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 139(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 100(E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification, in the Table, S.No.35 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.100(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 11/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 140(अ).— केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जनवरी, 2004 में, जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 60(अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 2. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट, 1 मार्च, 2007 को या उसके पश्चात् निकासी किए गए माल पर उपलब्ध नहीं होगी :

परन्तु 28 फरवरी, 2007 को या उसके पूर्व निकासी किए गए माल के लिए और उसके संबंध में जिसके लिए छूट का पहले से ही लाभ ले लिया गया है, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तें लागू रहेंगी ।” ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, सा.का.नि.सं 60 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 में प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 28/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया और सा.का.नि. सं. 419(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 11/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2004-Central Excise, dated 21st January, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 60(E) of the same date, namely:—

In the said notification, after paragraph 1, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“2. The exemption contained in this notification shall not be available to goods cleared on or after the 1st day of March, 2007:

Provided that for the goods cleared on or before 28th February, 2007 and in respect of which the exemption has already been availed of, the conditions specified in this notification shall continue to apply.”

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 60(E), dated the 21st January, 2004, and was last amended by notification No. 28/2004-Central Excise, dated the 9th July, 2004, and published vide number G.S.R. 419(E), dated the 9th July, 2004.

अधिसूचना

सं० 12/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 141(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 29/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 में, जो सा०का०नि० सं० 420(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(1) क्रम सं. 5 के सामने, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर “सभी माल (210 डेनियर्स या उसके गुणकों में नायलान एकल फिलामेंट सूत जिनकी सहायता 6 प्रतिशत हो ; या नायलान मछली जाल फैब्रिक, से भिन्न)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--|-------------|
| "7. | 56 (5601 10 00, 5607 50 10, 5608 11 10 और 5608 11 90 के सिवाय) | शीर्ष 5303 के जूट या अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर से भिन्न सभी माल,- (i) सूती, जिसमें कोई अन्य टेक्सटाइल सामग्री नहीं है (ii) अन्य (5601 22 00 टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाली सिगरेट फिल्टर राड के सिवाय) | 4% 8%" । |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 420(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया और सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 12/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2004-Central Excise, dated the 9th July, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.420(E), dated the 9th July, 2004, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) against S.No.5, for the entry in column (3), the entry "All goods (other than, nylon monofilament yarn of 210 deniers or in the multiples thereof, with tolerance of 6 per cent.; or nylon fish net fabrics)" shall be substituted;

(ii) for S.No.7 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--|------------|
| "7. | 56 (except 5601 10 00, 5607 50 10, 5608 11 10 and 5608 11 90) | All goods, other than of jute or other textile bast fibres of heading 5303- (i) of cotton, not containing any other textile material (ii) others (except cigarette filter rods falling under tariff item 5601 22 00) | 4% 8%". |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.420(E), dated the 9th July, 2004 and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R.804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 13/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 142(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 30/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा०का०नि० सं० 421(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| “7क | 5402 11 10, 5406 19, 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 59 10, 5402 61 00, 5402 69 30 और 5406 00 10 | निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) 6 प्रतिशत की सहायता वाले 210 डेनियर्स या उसके गुणकों के नायलान फिलामेंट सूत ; (ख) 6 प्रतिशत की सहायता वाले 210 डेनियर्स के पालिप्रोपाइलीन मल्टीफिलामेंट सूत |

(ii) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--------------------------|--|
| “11 | 56 (5601 10 00 के सिवाय) | शीर्ष 5303 के जूट या अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर से भिन्न, सभी माल ।” । |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 421(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 48/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 804 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

No. 13/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2004-Central Excise, dated the 9th July, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.421(E), dated the 9th July, 2004, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) for S.No.7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| "7. | 5402 11 10, 5402 19, 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 59 10, 5402 61 00, 5402 69 30 and 5406 00 10 | The following goods, namely,- (a) Nylon Filament yarn of 210 deniers or in the multiples thereof with tolerance of 6 per cent.; (b) Polypropylene multifilament yarn of 210 deniers with tolerance of 6 per cent." |

(ii) for S.No.11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) |
|------|------------------------|--|
| "11. | 56 (except 5601 10 00) | All goods, other than of jute or other textile bast fibres of heading 5303." |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.421(E), dated the 9th July, 2004, and was last amended by notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 and published vide number G.S.R.804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

सं० 14/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले और ग्राम लेपेटकाटा, जिला डिब्रूगढ़, असम में अवस्थित मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पालीमर लिमिटेड द्वारा विनिर्मित और निकासी किए गए माल पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, छूट देती है।

2. इस अधिसूचना में, अन्तर्विष्ट छूट, उक्त एकक में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION
No. 14/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling within the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), and manufactured and cleared from M/s Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, located in village Lepetkata, District-Dibrugarh, Assam, from whole of the duty of excise leviable thereon.

2. The exemption contained in this notification shall be in force for a period not exceeding ten years from the date of commencement of commercial production.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 15/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 256(अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की सारणी में क्रम सं० 7 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“लांच यान और उपग्रह परियोजनाओं की प्रणालियों और उप-प्रणालियों के लिए संघटक, कच्ची सामग्री, औजार, स्नेहक और नोदक; वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, साधित्र, उपस्कर (जिसके अन्तर्गत कंप्यूटर भी हैं); जिसके अन्तर्गत उनके उपसाधन, पुर्जे और अतिरिक्त पुर्जे, संघटक और कच्ची सामग्री भी हैं” ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि.सं 256 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 में प्रकाशित की गई थी और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 42/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अक्टूबर, 2006 किया गया और सा.का.नि. सं. 658(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION
No. 15/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.256(E), dated the 16th March, 1995, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No.7, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-

“Components, raw materials, tools, lubricants and propellants, systems and sub-systems of launch vehicles and satellite projects; scientific and technical instruments, apparatus, equipments (including computers); including their accessories, parts, spare parts, components and raw materials.”

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.256(E), dated the 16th March, 1995, and was last amended by notification No. 42/2006-Central Excise, dated the 20th October, 2006 and published vide number G.S.R.658(E), dated the 20th October, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 16/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 10/97-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 में, जो उसी तारीख को सा०का०नि० सं० 116(अ) द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं० | संस्थाओं के नाम | माल का वर्णन | शर्तें |
|----------|------------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| “2. | अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थाएं | (क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, साधित्र, उपस्कर (कंप्यूटर सहित) ; | (1) संस्था - (i) भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>(ख) उपसाधन, पुर्जे और खपतयोग्य;</p> <p>(ग) कंप्यूटर साफ्टवेयर, काम्पेक्ट डिस्क - रीड आनली मेमोरी (सीडी - रोम), अभिलिखित चुम्बकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिचेज ;</p> <p>(घ) प्रोटो-टाइप</p> | <p>रजिस्ट्रीकृत है ;</p> <p>(ii) प्रमुख, माल की निकासी की प्रत्येक दशा में, यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र देता है कि उक्त माल अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं और उनका उपयोग केवल कथित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।</p> <p>(2) किसी संस्था द्वारा प्राप्त प्रोटो टाइप का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होता है ।</p> <p>(3) उपरोक्त (1) और (2) के अंतर्गत आने वाले माल का संस्था द्वारा प्रतिष्ठापन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरण या विक्रय नहीं किया जाएगा ।” ।</p> |
|--|--|--|---|

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 10/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1997 भारत के राजपत्र, में सा.का.नि.सं. 116(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

No. 16/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/97-Central Excise, dated the 1st March, 1997 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 116(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for S.No.2 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

TABLE

| S.No. | Name of the Institutions | Description of the goods | Conditions |
|-------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "2. | Research institution, other than a hospital | (a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts and consumables; (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) prototypes | (1) The institution - (i) is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research; (ii) Head gives a certificate in each case of clearance of goods, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for the stated purpose only. (2) The aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year. (3) The goods falling under (1) and (2) above shall not be transferred or sold by the institution for a period of five years from the date of installation." |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note. The principal notification No.10/97-Central Excise, dated the 1st March, 1997 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 116(E), dated the 1st March, 1997.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

अधिसूचना

सं. 17/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 146(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 2002 के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.34/2001- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 जून, 2001 को, जिसे भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492 (अ) तारीख 28 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्पाद शुल्क माल को, अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाली जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों या अध्याय 76 के अंतर्गत आने वाले एलुमीनियम के वृत्तों को, शीत वेलित मशीन की सहायता से जिसके संबंध में किसी निर्धारिती के पास इस माल के अतप्त वेल्डन के लिए प्रतिष्ठापित अतप्त वेल्डन मशीन के आधार पर उत्पाद शुल्क का संदाय करने का विकल्प होगा, अतप्त वेल्डन की प्रक्रिया किए जाने के अधीन रहते हुए विहित करती है और प्रति अतप्त वेल्डन मशीन पर निम्नलिखित प्रतिमास शुल्क की दर नियत करती है :-

(i) जंगरोधी इस्पात की पट्टियां या पट्टे तीस हजार रुपए

(ii) अतप्त वेल्डन मशीनों पर विनिर्मित चादरों से उत्पादित एलुमीनियम वृत्त बारह हजार रुपए

परंतु केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों या एलुमीनियम के वृत्तों के अतप्त वेल्डन के लिए उपयोग की गई किसी कच्ची सामग्री, मशीनरी के संघटक पूर्ण या मशीनरी या तैयार उत्पादों पर किसी संदत्त शुल्क का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा :

परंतु यह और कि इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

2. विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए आवेदन - (1) विनिर्माता, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को इस अधिसूचना के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन करेगा और अधीक्षक ऐसी अवधि के लिए जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

(2) आवेदन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि बारह आनुक्रमिक कलेन्डर मास से अन्यून की अवधि को इसके अंतर्गत लाया जा सके किन्तु, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी कम अवधि के लिए अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।

(3) यदि विनिर्माता ऐसी अवधि के दौरान किसी समय इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का लाभ उठाने में असफल रहता है तो उसे जब तक यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, ऐसी असफलता की तारीख से छह मास की अवधि के लिए ऐसे प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाने से निवारित किया जाएगा।

(4) यदि विनिर्माता ऐसी अवधि के अवसान पर जिसके लिए आवेदन मंजूर किया गया था, इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाने की दांछा करता है तो वह ऐसे अवसान से पूर्व, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को उपपैरा (1) के अधीन एक आवेदन करेगा और ऐसा करने में उसके असफल होने पर उसे इसमें यथाउपबंधित के सिवाय ऐसे अवसान की तारीख से छह मास की अवधि के लिए ऐसी प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाने से निवारित किया जाएगा।

(5) उपपैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96यक के उपनियम (1) के अधीन इस अधिसूचना के प्रारंभ से पूर्व किसी विनिर्माता द्वारा किए गए किसी आवेदन को उपपैरा (1) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा और उसे उपपैरा (1) के अधीन मंजूर किया गया समझा जाएगा तथा जहां ऐसा आवेदन मंजूर नहीं किया गया है वहां, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, उसका इस प्रकार निपटान करेगा मानो यह उपपैरा (1) के अधीन कोई आवेदन हो।

3. कतिपय रकम के संदाय पर शुल्क दायित्व का उन्मोचन- (1) कोई विनिर्माता, जिसका आवेदन पैरा 2 के अधीन मंजूर कर लिया गया है, इसमें अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम का संदाय करेगा और ऐसा संदाय, उस अवधि के दौरान जिसके लिए उक्त रकम संदत्त की गई है ऐसे अतप्त पुनःवेल्लित जंगरोधी पट्टों/पट्टियों या एलुमीनियम के वृत्तों के उसके उत्पादन पर उदग्रहणीय शुल्क के उसके दायित्व के पूर्ण उन्मोचन में होगा :

परंतु यदि शुल्क की दर में पुनरीक्षण है तो, संदेय राशि पुनरीक्षण की तारीख से पुनरीक्षित दर के आधार पर पुनःसंगणित की जाएगी और उस तारीख से जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों के उत्पादन पर उदग्रहणीय शुल्क के लिए दायित्व का, उन्मोचन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अंतरीय शुल्क संदत्त नहीं कर दिया जाता है और यदि इस प्रकार पुनःसंगणित रकम संदत्त राशि से कम है तो बकाया का विनिर्माता को प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु यह और कि जब कोई विनिर्माता इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए पैरा 2 के अधीन प्रथम बार कोई आवेदन करता है तो, उस मास के लिए जिसमें आवेदन मंजूर किया जाता है शुल्क दायित्व को उस मास में कुल दिनों की संख्या और उस मास में इस प्रकार मंजूर की गई तारीख से शेष दिनों की संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से संगणित किया जाएगा।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय राशि की संगणना उस कलेन्डर मास के जिसमें पैरा 2 के अधीन आवेदन किया जाता है ठीक पूर्व तीन कलेन्डर मास के दौरान किसी समय एक या अधिक परिसरों में ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिष्ठापित अतप्त वेल्लन मशीनों की अधिकतम संख्या की समुचित दर लागू करके की जाएगी।

(3) राशि को विनिर्माता द्वारा आवेदन के साथ निविदित किया जाएगा।

4. विनिर्माता की घोषणा और लेखा - (1) विनिर्माता जिसे उपरोक्त पैरा 2 के अधीन अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है, इस अधिसूचना के परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में आगामी मास के दौरान उसके परिसर से जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों को हटाने के लिए अनुज्ञा हेतु कारखाने के भारसाधक अधीक्षक को, उस उक्त कलेन्डर मास से, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है ठीक पूर्व तीन कलेन्डर मास के दौरान किसी समय एक या अधिक परिसरों में उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रतिष्ठापित अतप्त वेल्लन मशीनों की अधिकतम संख्या की घोषणा करते हुए आवेदन करेगा।

(2) यदि ऐसा आवेदन उपपरा (1) में अधिकथित समय सीमा के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को किया जाता है तो विनिर्माता, जब तक सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक और आपवादिक परिस्थितियों में विनिर्माता उस मास या उसके भाग के दौरान जिसके संबंध में आवेदन किया गया था, जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों के संपूर्ण उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क का संदाय करने का दायी होगा।

(3) विनिर्माता, उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रतिष्ठापित अतप्त वेल्डिंग मशीनों की संख्या में किसी प्रस्तावित परिवर्तन को लिखित में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को भी संसूचित करेगा और कोई ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व ऐसे अधिकारी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

5. कतिपय उपबंधों आदि से छूट - (1) ऐसी अवधि के दौरान जिसके संबंध में किसी विनिर्माता को इस अधिसूचना की प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाने के लिए अनुज्ञात किया गया है तो उसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 8 के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी।

(2) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार के सिवाय जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के दौरान ऐसे विनिर्माता द्वारा उत्पादित स्टॉक में से भारत से निर्यातित किन्हीं जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों के संबंध में उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 18 के अधीन उत्पाद-शुल्क का कोई रिबेट संदत्त नहीं किया जाएगा।

6. नए कारखानों और बंद कारखानों में उत्पादन शुरू करने की बाबत उपबंध - (1) यदि कोई विनिर्माता जो प्रथम बार उत्पादन प्रारंभ करता है या जो लगातार तीन मास से अन्यून की अवधि के लिए उत्पादन बंद रखने के पश्चात् उत्पादन पुनः प्रारंभ करता है और जिसे यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए पैरा 2 के अधीन अनुज्ञात कर दिया गया है, तो यथास्थिति, पहले मास या उसके भाग के लिए उसके द्वारा संदेय रकम की संगणना अतप्त वेल्डिंग मशीनों की अधिकतम संख्या की घोषणा के आधार पर जो ऐसी अवधि के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रतिष्ठापित की गई हैं या किए जाने की संभावना है, अन्तिम रूप से की जाएगी।

(2) अवधि के अवसान पर, संदेय रकम को वास्तविक रूप से प्रतिष्ठापित अतप्त वेल्डिंग मशीनों की अधिकतम संख्या के आधार पर पुनःसंगणित किया जाएगा और यदि आरंभिक संदाय इस प्रकार अवधारित कुल दायित्व से कम रह जाता है तो उस कमी को विनिर्माता से वसूल किया जाएगा और जहां कुल दायित्व आरंभिक निक्षेप से कम है तो बकाया का विनिर्माता को प्रतिदाय किया जाएगा।

7. विशेष प्रक्रिया के लागू करने में हुई असफलता को माफ करने की शक्ति - इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, उत्पाद-शुल्क, अपने विवेकानुसार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट उपबंधों को उस विनिर्माता को लागू करेगा जो विशेष प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाने में या इस अधिसूचना में अधिकथित किसी शर्त का पालन करने में असफल रहा है।

8. कार्य बंद करने या सामान्य प्रक्रिया पुनः आरंभ करने वाले कारखानों की बाबत उपबंध - इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, जिसने इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का स्वयं उपयोग किया है, कार्य करना बंद कर देता है या सामान्य प्रक्रिया पुनः आरंभ कर देता है, वहां उस मास के दौरान जिसमें उसने प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाया है, उसके द्वारा संदेय शुल्क को, उस अंतिम मास के दौरान पैरा 6 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिष्ठापित अतप्त वेल्डिंग मशीनों की अधिकतम संख्या के आधार पर संगणित किया जाएगा और पैरा 3 के अनुसार उस मास के लिए पहले से संदेय रकम को इस प्रकार संगणित शुल्क के मद्दे समायोजित किया जाएगा और ऐसे समायोजन पर यदि संदाय अधिक है तो उसका विनिर्माता को प्रतिदाय किया जाएगा तथा शुल्क में किसी कमी को विनिर्माता से वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - कोई विनिर्माता जो केवल एक या दो पारियों के लिए अपने कारखाने में कार्य बंद कर देता है, तो उससे यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस अधिसूचना के अर्थान्तर्गत कार्य बंद कर दिया है।

9. अधिहरण और शास्ति - यदि कोई विनिर्माता, किसी उत्पाद शुल्क्य माल की बाबत इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसा संपूर्ण माल अधिहरण किए जाने का दायी होगा और विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 25 के अधीन शास्ति का दायी होगा ।

परिशिष्ट 1

(पैरा 2 देखिए)

प्ररूप, विशेष प्रक्रिया के लिए आवेदन 2

जंगरोधी इस्पात की पट्टियों या पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों से संबंधित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन ।

कारखाने/कारखानों का नाम..... पता

मैं/हम..... जोतालुका/तहसील जिले के निवासी हूँ/हैं और जंगरोधी इस्पात की पट्टियों या पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों के विनिर्माता हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं..... तारीख..... के धारक हैं, कलेन्डर मास के लिए, से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित मेरे/हमारे कारखाने/कारखानों में ऐसे जंगरोधी इस्पात की पट्टियों या पट्टों या एलुमीनियम वृत्तों के उत्पादन या संव्यवहारों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का स्वयं लाभ उठाने के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं ।

2. मैं/हम, उक्त पूरी अवधि के दौरान उक्त प्रक्रिया के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

स्थान :

तारीख :

विनिर्माताओं या उसके/उनके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

रेंज.....

सर्किल.....

स्थान :

तारीख :

....., कलेन्डर मास/..... से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञा ।

सहायक आयुक्त/उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

स्थान :

तारीख :

टिप्पण : जो प्रविष्टियां लागू न हों उन्हें काट दें ।

परिशिष्ट 2
(पैरा 4 देखिए)

मूल प्रति
दूसरी प्रति
तीसरी प्रति
चौथी प्रति

विशेष प्रक्रिया के अधीन विनिर्मित जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों को हटाने के लिए आवेदन ।

कारखाने का नाम..... पता

मैं/हम..... जोतालुका/तहसील जिले के निवासी हूँ/हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं..... तारीख..... के धारक हूँ/हैं, और जिसे/जिन्हें उपरोक्त उल्लिखित कारखाने/कारखानों में ऐसे जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/ पट्टों के मेरे/हमारे उत्पादन और संव्यवहारों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अंतर्विष्ट विशेष प्रक्रिया का मेरे/हमारे द्वारा उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैं/हम नीचे उपदर्शित रीति में..... वर्ष के दौरान जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/ पट्टों के उत्पाद के लिए अतप्त वेल्डन मशीनों को प्रतिष्ठापित और नियोजित करने का आशय रखता हूँ/रखते हैं और उक्त अवधि के संबंध में अधिसूचना में अधिकथित उपबंधों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा संदेय कुल राशि निम्न प्रकार से कथित है :-

| प्रतिष्ठापित और नियोजित की जाने वाली अतप्त वेल्डन मशीनों की संख्या | भारत सरकार की अधिसूचना सं...../2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख.... में विहित दर | संदेय राशि | योग |
|--|---|------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

2. मैं/हम इसके साथ रुपए (केवल रुपए) की राशि निविदित करता हूँ/करते हैं । बकाया राशि मेरे/हमारे द्वारा मासिक किस्तों में संदत्त की जाएगी ।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गई विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है ।

4. मैं/हम उक्त अवधि के दौरान उक्त परिसरों में विनिर्मित किन्हीं जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/ पट्टों को से तक की अवधि के दौरान उपरोक्त उल्लिखित परिसरों से हटाने के लिए इजाजत हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

5. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि वर्ष के लिए मुझे/हमे दी गई अनुज्ञा उपरोक्त पैरा 2 में यथाउपवर्णित बकाया रकम के मेरे/हमारे द्वारा संदाय करने के अध्यक्षीन है ।

स्थान :

तारीख :

विनिर्माता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

सेवा में,

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

..... रेंज,

..... प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

..... रेंज,

..... सर्किल

संदत शुल्क का विवरण

(क) पर नकद भुगतान के लिए

खजाना

भास्तीय स्टेट बैंक

भास्तीय रिजर्व बैंक

(विनिर्माता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भरा जाएगा)

| संदाय करने वाले व्यक्ति का नाम | संदाय की विशिष्टियां | रकम (अंकों और शब्दों में) |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

लेखा शीर्ष

038- संघ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क - जंगरोधी इस्पात की पट्टियां/पट्टे

(ख) शमनीय उदग्रहण स्कीम के अधीन

तारीख.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(खजाने या बैंक द्वारा भरा जाएगा)

प्रमाणपत्र

निकेप सं. तारीख..... रुपए (शब्दों में) का संदाय प्राप्त किया

खज़ांची या लेखापाल के हस्ताक्षर

अभिकर्ता या प्रबंधक

(ग) लेखा - चालू की मार्फत संदाय के लिए :

| लेखा खाते का शीर्षक | प्रविष्टि की संख्या और तारीख | रकम (अंकों और शब्दों में) |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

स्थान :

तारीख :

विनिर्माता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(घ) टी.आर.5/विशेष राजस्व मनीऑर्डर की मार्फत संदाय के लिए

| संदाय की तारीख | टी.आर.5 सं./विशेष मनीऑर्डर कूपन सं. | रकम (अंकों और शब्दों में) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

स्थान :

तारीख :

निकेपों की शर्त को पूरा करने के अधीन रहते हुए समाकषेधन अनुज्ञात किया गया

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

टिप्पण : जो प्रविष्टियां लागू न हों उन्हें काट दें।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION
No. 17/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007
10 Phalguna, 1928 (Saka)

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by rule 15 of the Central Excise Rules, 2002, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.34/2001-Central Excise, dated the 28th June, 2001 which was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 492(E) of the same date, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the excisable goods that is stainless steel pattis/pattas, falling under Chapter 72, or aluminium circles falling under Chapter 76 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) subjected to the process of cold rolling with the aid of cold rolling machine in respect of which an assessee shall have an option to pay the duty of excise on the basis of cold rolling machine installed for cold rolling of these goods, and fixes the following rate of duty per cold rolling machine, per month:-

| | |
|--|------------------------|
| (i) stainless steel pattis or pattas | Thirty thousand rupees |
| (ii) aluminium circles produced from sheets manufactured on cold rolling machines | Twelve thousand rupees |

Provided that no credit of duty paid on any raw materials, component part or machinery or finished products used for cold rolling of stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles under the CENVAT Credit Rules, 2004 shall be taken :

Provided further that the procedure mentioned hereinafter is followed.

2. Application to avail special procedure. - (1) The manufacturer shall make an application in the form specified in Appendix-I to this notification to the Superintendent of Central Excise, as the case may be, for this purpose and the Superintendent, may grant permission for the period in respect of which the application has been made.

(2) The application shall be made so as to cover a period of not less than twelve consecutive calendar months, but permission may be granted for a shorter period for reasons to be recorded in writing, by the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be.

(3) If at any time during such period the manufacturer fails to avail himself of the procedure contained in this notification, he shall, unless otherwise ordered by the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, be precluded from availing himself of such procedure for a period of six months from the date of such failure.

(4) If the manufacturer desires to avail himself of the procedure contained in this notification on the expiry of the period for which his application was granted, he shall, before such expiry, make an application to the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, as under sub-paragraph (1) and on his failure to do so, he shall, except as provided herein, be precluded from availing himself of such procedure for a period of six months from the date of such expiry.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), an application made by a manufacturer, before the commencement of this notification, under sub-rule (1) of rule 96ZA of the Central Excise Rules, 1944, shall be deemed to be an application made under sub-paragraph (1) and the same shall be deemed to have been granted under sub-paragraph (1) and where such application has not been granted, the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner, as the case may be, shall dispose of the same as if it is an application under sub-paragraph (1).

3. Discharge of duty liability on payment of certain sum. - (1) A manufacturer whose application has been granted under paragraph 2 shall pay a sum calculated at the rate specified in this notification, subject to the conditions herein laid down, and such payment shall be in full discharge of his liability for duty leviable on his production of such cold re-rolled stainless pattas/pattis, or aluminium circles during the period for which the said sum has been paid :

Provided that if there is revision in the rate of duty, the sum payable shall be recalculated on the basis of the revised rate, from the date of revision and liability for duty leviable on the production of stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles from that date shall not be discharged unless the differential duty is paid and in case the amount of duty so recalculated is less than the sum paid, the balance shall be refunded to the manufacturer :

Provided further that when a manufacturer makes an application for the first time under paragraph 2 for availing of the procedure contained in this notification, the duty liability for the month in which the application is granted shall be calculated *pro-rata* on the basis of the total number of days in that month and the number of days remaining in the month from the date of such grant.

(2) The sum payable under sub-paragraph (1) shall be calculated by application of the appropriate rate to the maximum number of cold rolling machines installed by or on behalf of such manufacturer in one or more premises at any time during three calendar months immediately preceding the calendar month in which the application under paragraph 2 is made.

(3) The sum shall be tendered by the manufacturer along with the application.

4. Manufacturer's declaration and accounts. - (1) The manufacturer who has been granted permission under paragraph (2) above shall make an application in the form specified in Appendix-II to this notification to the Superintendent-in-charge of the factory for permission to remove the stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles from his premises during the ensuing month, declaring the maximum number of cold rolling machines installed by him or on his behalf, in one or more premises at any time during three calendar months immediately preceding the said calendar month in which such application is made.

(2) If such application is not made to the Superintendent of Central Excise within the time limit laid down in sub-paragraph (1), the manufacturer shall, unless, otherwise directed by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, and in exceptional circumstances, be liable to pay duty on his entire production of stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles during the month or part thereof in respect of which the application was to be made, at the rate prescribed in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) read with any relevant notification issued under sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

(3) The manufacturer shall also intimate the Superintendent of Central Excise in writing of any proposed change in the number of cold rolling machines installed by him or on his behalf, and obtain the written approval of such officer before making any such change.

5. Exemption from certain provisions etc. - (1) During the period in respect of which any manufacturer has been permitted to avail himself of the procedure of this notification, he shall be exempt from the operation of rule 8 of the Central Excise Rules, 2002.

(2) Except in accordance with such terms and conditions as the Central Government may by notification specify in this behalf, no rebate of excise duty shall be paid under rule 18 of the said Central Excise Rules, in respect of any stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles exported out of India, out of the stock produced by such manufacturer during such period.

6. Provisions regarding new factories and closed factories resuming production. - (1)

In the case of a manufacturer who commences production for the first time or who recommences production after having ceased production for a continuous period of not less than three months, and who has been permitted by the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, under paragraph 2 to avail of the procedure, the amount payable by him for the first month or part thereof, as the case may be, shall be provisionally calculated on the basis of his declaration of the maximum number of cold rolling machines that are or are likely to be installed by him or on his behalf during such period.

(2) At the expiry of the period, the amount payable shall be recalculated on the basis of the maximum number of cold rolling machines actually installed and if the initial payment falls short of the total liability so determined, the deficiency shall be recovered from the manufacturer and where the total liability is less than the initial deposit, the balance shall be refunded to the manufacturer.

7. Power to condone failure to apply for special procedure. - Notwithstanding anything contained in this notification, the Additional Commissioner, or as the case may be, the Joint Commissioner of Central Excise may, at his discretion, for reasons to be recorded in writing, and subject to such conditions as he may deem fit, apply the provisions contained in this notification to a manufacturer who has failed to avail himself of the special procedure, or to comply with any condition laid down in this notification.

8. Provision regarding factories ceasing to work or reverting to the normal procedure. - Notwithstanding anything contained in this notification, where a manufacturer who had availed himself of the procedure contained in this notification ceases to work or reverts to the normal procedure, the duty payable by him in the month during which he has availed himself of the procedure shall be calculated on the basis of the maximum number of cold rolling machines installed during the last month in the manner prescribed in paragraph 6 and the amount already paid for the month in accordance with paragraph 3 shall be adjusted towards the duty so calculated and on such adjustment if there is any excess payment it shall be refunded to the manufacturer and any deficiency in duty shall be recovered from the manufacturer.

Explanation. - A manufacturer, who ceases to work his factory for one or two shifts only, shall not be deemed to have ceased to work within the meaning of this notification.

9. Confiscation and penalty. - If any manufacturer contravenes any provision of this notification in respect of any excisable goods, then all such goods shall be liable to confiscation, and the manufacturer shall be liable to penalty under rule 25 of the Central Excise Rules, 2002.

Appendix-I
(See paragraph 2)

Form A S P II

Application for permission to avail of the special procedure relating to stainless steel pattis or pattas or aluminium circles.

Name of the factory/factories.....Address.....

I/We.....manufacturers of stainless steel pattis or pattas/aluminium circles, residing at.....taluk/tehsil.....district.....and holders of Central Excise Registration No.....dated.....hereby apply to avail myself/ourselves during the.....calendar month/the period beginning with.....20.....and ending with.....20.....of the special procedure in respect of the production or transactions in such stainless steel pattis or pattas or aluminium circles at my/our above mentioned factory/factories.

2. I/We hereby agree to abide by the terms and conditions of the said procedure throughout the said period.

Place :

Date :

Signature of manufacturers or his/their authorised agent.
Countersigned

Range.....

Circle.....

Place :

Date :

Permission granted for the calendar month...../the period beginning with.... and ending with.....

Assistant Commissioner/Deputy
Commissioner of Central Excise

Place :

Date :

Note: Delete the entries which are not applicable.

Appendix-II
(See paragraph 4)

Original

Duplicate

TriPLICATE

Quadruplicate

Application for removal of stainless steel pattis/pattas manufactured under the special procedure

Name of the Factory Address.....

1. I/We.....manufacturer of stainless steel pattis/pattas residing at..... Taluka/Tehsil..... District..... and holder of Central Excise Registration No.dated.....having been permitted to avail myself/ourselves of the special procedure contained in the notification issued under rule 15 of Central Excise Rules 2002, in respect of my/our production and transactions in such stainless steel pattis/pattas at the above-mentioned factory/factories hereby declare that I/we intend to install and employ the cold rolling machines for the production of stainless steel pattis/pattas during the year..... in the manner indicated below, and the total sum payable by me/us in terms of the provisions laid down in the notification in respect of the said period are stated hereunder :-

| No. of cold rolling Machines to be installed and employed | Rate prescribed in Government of India Notification No. ___/2007-Central Excise, dated | Sum payable | Total |
|---|--|-------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

2. I/We tender herewith the sum of Rs. (Rupees only). The balance will be paid by me/us in monthly instalments.

3. I/We hereby declare that the particulars furnished herein are true and complete to the best of my/our knowledge and belief.

4. I/We apply for leave to remove from the above mentioned premises during the period from to any stainless steel pattis/pattas manufactured in the said premises during that period.

5. I/We understand that the permission accorded to me/us for the year is subject to my/our paying the balance amount as indicated in paragraph 2 above.

Place

Date

Signature of manufacturer or his authorised agent.

To

The Superintendent of Central Excise

..... Range

..... Division

COUNTERSIGNED

Place

Date

Superintendent of Central Excise

..... Range

..... Circle

Statement of duty paid :

(a) For payment in cash at

Treasury
State Bank of India
Reserve Bank of India

(To be filled in by the manufacturer or his authorised agent)

| Name of person tendering payment | Particulars of payment | Amount (in words as well as in figures) |
|----------------------------------|------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Head of Account

038-Union Excise Duties- Stainless steel pattis/pattas

(b) Under the compounded levy scheme.

Date.....

Signature of the tenderer

(To be filled in by the Treasury or Bank)

CERTIFICATE

Deposit Number.....Date.....Received payment of rupees (in words).....

Signature of Treasurer or Accountant

Agent or Manager

(c) For payment through account-current :

| Title of Account of Ledger | Number and date of entry | Amount (in words as well as in figures) |
|----------------------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

Place.....

Date.....

Signature of the manufacturer or his authorized agent.

(d) For payment through T.R.5/Special Revenue Money Order

| Date of Payment | T.R.5 No./Special Money Order Coupon No. | Amount (in words as well as in figures) |
|-----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

Place.....

Date.....

Clearance allowed subject to fulfilment of the condition of deposits

Superintendent of Central Excise

Note: Delete the entries not applicable.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 18/2007-उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सं.का.नि. 147(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 93 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, उक्त धारा 91 और धारा 93 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने शिक्षा उपकर से, जो उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत सकल उत्पाद-शुल्क के दो प्रतिशत की दर से संगणित रकम से, और इसके अतिरिक्त और उसी रीति में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क के रूप में प्रभार्य किसी राशि से अधिक है, किन्तु इसके अन्तर्गत वित्त विधेयक, 2007 के खंड 128 के साथ पठित खंड 126 के अधीन जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, उक्त माल पर उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है, छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 18/2007-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2007

10 Phalgun, 1928 (Saka)

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sections 91 and 93 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from so much of the Education Cess leviable thereon under the said sections 91 and 93 of the said Finance Act, which is in excess of the amount calculated at the rate of two per cent. of the aggregate of duties of excise which are levied and collected by the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue), under the said Central Excise Act, and any sum chargeable on such goods under any other law for the time being in force, in addition to and in the same manner as, a duty of excise, but not including the Secondary and Higher Education Cess leviable on the said goods under clause 126 read with clause 128 of the Finance Bill, 2007, which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 फरवरी, 2007.

सं० 8/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

9 फाल्गुन 1928 (शक)

सा.का.नि. 148(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 मार्च, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, -

(क) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात् 1 अप्रैल, 2007 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि कोई निर्धारिती जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपयोग करके संदत्त शुल्क की रकम से भिन्न पचास लाख रुपए या अधिक के शुल्क का संदाय किया है, तत्पश्चात् वह इंटरनेट बैंककारी के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क जमा करेगा।”;

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए ‘शुल्क’ या ‘उत्पाद शुल्क’ पद में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अनुसार संदेय रकम भी सम्मिलित होगी।”।

3. उक्त नियम के नियम 11 के उपनियम (2) में, 1 अप्रैल, 2007 से “रजिस्ट्रीकरण संख्या अंतर्विष्ट होगी” शब्दों के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण संख्या, संबद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग का पता अंतर्विष्ट होगा” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 21 में, -

(क) पहले परंतुक में, “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, “दो हजार पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक में, “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 25 में उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 26 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) में, -

(क) उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) कोई व्यक्ति जो -

(i) उसमें विनिर्दिष्ट माल के परिदान के बिना कोई उत्पाद शुल्क बीजक जारी करता है या ऐसा बीजक बनाने में दुष्प्रेरण करता है ; या

(ii) कोई अन्य दस्तावेज जारी करता है या ऐसा दस्तावेज बनाने में दुष्प्रेरण करता है, जिसके आधार पर उक्त बीजक या दस्तावेज का उपयोक्ता अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का दावा करने जैसा कोई नगण्य फायदा या प्रतिदाय लेता है या ले लिया है, वह जो ऐसे फायदे की रकम या पांच हजार रुपए से अनधिक इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति के लिए दायी होगा।”

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 4/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 69(अ), तारीख 8 फरवरी, 2007 द्वारा किया गया था और अधिसूचना सं. 03/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 8 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi the 1st March, 2007
10 Phalgun, 1928 (Saka)

Notification
No. 8/2007 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 148(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 2007.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8,-
(a) in sub-rule (1), with effect from the 1st day of April, 2007, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“ Provided also that an assessee, who has paid duty of fifty lakhs rupees or more, other than the amount of duty paid by utilization of CENVAT credit, in the preceding financial year, shall thereafter, deposit the duty electronically through internet banking.”;
(b) after sub-rule (4), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of this rule, the expressions ‘duty’ or ‘duty of excise’ shall also include the amount payable in terms of the CENVAT Credit Rules, 2004.”.
3. In rule 11 of the said rules, with effect from the 1st day of April, 2007, in sub-rule (2), for the words “shall contain the registration number”, the words, “shall contain the registration number, address of the concerned Central Excise division” shall be substituted.
4. In rule 21 of the said rules,-
(a) in the first proviso, for the words, “one thousand rupees”, the words, “ten thousand rupees” shall be substituted;
(b) in the second proviso, for the words, “two thousand five hundred rupees”, the words, “one lakh rupees” shall be substituted;
(c) in the third proviso, for the words, “five thousand rupees”, the words, “five lakh rupees” shall be substituted.
5. In rule 25 of the said rules, with effect from the date on which the Finance Bill, 2007 receives assent of the President, for the words, “rupees ten thousand”, the words, “two thousand rupees” shall be substituted.
6. Rule 26 of the said rules, shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof, and in sub-rule (1), as so re-numbered,-
(a) with effect from the date on which the Finance Bill, 2007 receives assent of the President, for the words, “rupees ten thousand”, the words, “two thousand rupees” shall be substituted;

(b) after sub-rule(1) as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) Any person, who issues-

- (i) an excise duty invoice without delivery of the goods specified therein or abets in making such invoice; or
- (ii) any other document or abets in making such document, on the basis of which the user of said invoice or document is likely to take or has taken any ineligible benefit under the Act or the rules made thereunder like claiming of CENVAT credit under the CENVAT Credit Rules, 2004 or refund, shall be liable to a penalty not exceeding the amount of such benefit or five thousand rupees, whichever is greater”.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, vide notification No. 4/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2002, vide GSR 143 (E) dated the 1st March, 2002, and were last amended vide notification No.03/2007-Central Excise (N.T.), dated the 8th February, 2007, vide GSR 69 (E) dated the 8th February, 2007.

अधिसूचना

सं० 9/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन 1928 (शक)

सा.का.नि. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क्य माल की कीमत का अवधारण) नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क्य माल की कीमत का अवधारण) संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2007 को लागू होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क्य माल की कीमत का अवधारण) नियम, 2000 में, नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“**10क.** जहां उत्पाद शुल्क्य माल, ऐसे व्यक्ति की ओर से (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनिर्माता कहा गया है) किसी जाब कर्मकार द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है वहां, -

(i) उस दशा में जहां माल का जाब कर्मकार के कारखाने से माल के हटाए जाने के समय परिदान के लिए मूल विनिर्माता द्वारा विक्रय किया जाता है, जहां माल का मूल विनिर्माता और क्रेता संबंधी नहीं हैं और विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है, वहां उत्पाद शुल्क्य माल का मूल्य मूल विनिर्माता द्वारा विक्रय किए गए उक्त माल का संव्यवहार मूल्य होगा ;

(ii) उस दशा में जहां माल का जाब कर्मकार के कारखाने से माल के हटाए जाने के समय मूल विनिर्माता द्वारा विक्रय नहीं किया जाता है, किन्तु उन्हें किसी अन्य स्थान को, जहां से, जाब कर्मकार के कारखाने से उसकी निकासी के पश्चात् उक्त माल का विक्रय किया

जाना है, स्थानांतरित किया जाता है और जहां माल का मूल विनिर्माता और क्रेता संबंधी नहीं हैं और विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है, वहां उत्पाद-शुल्क्य माल का मूल्य ऐसे अन्य स्थान से उसी समय पर या उसके आस पास विक्रय किए गए ऐसे माल का और जहां ऐसे माल का उसी समय पर या उसके आस-पास विक्रय नहीं किया जाता है, वहां जब कर्मकार के कारखाने से उक्त माल के हटाए जाने के निकटतम समय पर, साधारण संव्यवहार मूल्य होगा ;

(iii) खंड (i) या (ii) के अंतर्गत न आने वाली किसी दशा में, पूर्वगामी नियमों के उपबंध जहां कहीं लागू हों, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उत्पाद शुल्क्य माल के मूल्य के अवधारण के लिए लागू होंगे :

परंतु परिवहन की लागत, यदि कोई हो, उस परिसर से, जहां से माल का परिदान के अन्य स्थान को विक्रय किया जाता है, उत्पाद शुल्क्य माल के मूल्य में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब कर्मकार से, उक्त मूल विनिर्माता द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय किए गए किसी निवेश या माल से किसी मूल विनिर्माता की ओर से माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।”

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बंजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 45/2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 30 जून, 2000 [सा.का.नि. 575(अ), तारीख 30 जून, 2000] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 60/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 5 अगस्त, 2003 [सा.का.नि. 632(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003] द्वारा किया गया था ।

| | |
|----------------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 9/2007-Central Excise (N.T.) | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Valuation (Determination of Price of Excisable Goods) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Excise Valuation (Determination of Price of Excisable Goods) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2007.

2. In the Central Excise Valuation (Determination of Price of Excisable Goods) Rules, 2000, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:-

“10A. Where the excisable goods are produced or manufactured by a job-worker, on behalf of a person (hereinafter referred to as principal manufacturer), then,-

- (i) in a case where the goods are sold by the principal manufacturer for delivery at the time of removal of goods from the factory of job-worker, where the principal manufacturer and the buyer of the goods are not related and the price is the sole consideration for the sale, the value of the excisable goods shall be the transaction value of the said goods sold by the principal manufacturer;
- (ii) in a case where the goods are not sold by the principal manufacturer at the time of removal of goods from the factory of the job-worker, but are transferred to some other place from where the said goods are to be sold after their clearance from the factory of job-worker and where the principal manufacturer and buyer of the goods are not related and the price is the sole consideration for the sale, the value of the excisable goods shall be the normal transaction value of such goods sold from such other place at or about the same time and, where such goods are not sold at or about the same time, at the time nearest to the time of removal of said goods from the factory of job-worker;
- (iii) in a case not covered under clause (i) or (ii), the provisions of foregoing rules, wherever applicable, shall *mutatis mutandis* apply for determination of the value of the excisable goods:

Provided that the cost of transportation, if any, from the premises, wherefrom the goods are sold, to the place of delivery shall not be included in the value of excisable goods.

Explanation.- For the purposes of this rule, job-worker means a person engaged in the manufacture or production of goods on behalf of a principal manufacturer, from any inputs or goods supplied by the said principal manufacturer or by any other person authorised by him."

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 45/2000-Central Excise (N.T.), dated the 30th June, 2000 [G.S.R.575(E), dated the 30th June, 2000], and was last amended vide notification No. 60/2003-Central Excise (N.T.), dated the 5th August, 2003 [G.S.R.632(E), dated the 5th August, 2003].

अधिसूचना

सं० 10/ 2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

9 फाल्गुन 1928 (शक)

सा.का.नि. 150(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 है।
(2) ये, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-

(क) उपनियम (1) में,-

- (i) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) वित्त विधेयक, 2007 के खंड (उत्पाद-शुल्क) के साथ खंड (128) पठित खंड (126) के अधीन, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर ;

(ii) खंड (vii) में “और (vi)” शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “(vi) और (vi क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;”;

(ख) उपनियम 7 के खंड (ख) में,—

(1) उपखंड खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) वित्त विधेयक, 2007 के खंड (उत्पाद-शुल्क) के साथ खंड (128) पठित खंड (126) के अधीन जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर ;”;

(2) उपखंड (vii) के पश्चात् “विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी अन्तिम उत्पाद पर,” शब्दों से आरंभ होने वाले और “ऐसे शुल्क के मद्दे उपयोग किया जाएगा” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग में “उक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“या वित्त विधेयक, 2007 के खंड (उत्पाद-शुल्क) के साथ खंड (128) पठित खंड (126) के अधीन जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर”;

(ग) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर और कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर के प्रत्यय का उपयोग या तो उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर या माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए या कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए किया जा सकता है ।”

3. उक्त नियम के नियम 6 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2007 से निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(घ) शर्त (ग) में किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट निर्गत सेवा के प्रदाता के पास निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, कराधेय निर्गत सेवाओं को उपलब्ध कराने में उपयोग की गई निवेश और निवेश सेवा के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपयोग करने विकल्प होगा, अर्थात् :-

(i) इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग करते समय, निर्गत सेवा प्रदाता के निम्नलिखित विशिष्टियों को देते हुए अधीक्षक, उत्पाद-शुल्क को अपने विकल्प को संसूचित करेगा, अर्थात् :-

(क) निर्गत सेवा के प्रदाता का नाम और पता ;

(ख) वह तारीख, जिससे इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) कराधेय सेवाओं का वर्णन ;

(घ) छूट प्राप्त सेवाओं का वर्णन ;

(ङ) इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को बकाया में रखी गई निवेश और निवेश सेवाओं का केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय ;

(ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए (i) के अधीन किए गए ऐसे विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ;

(iii) निर्गत सेवा प्रदाता,-

(क) निम्नलिखित रीति में छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का अनंतिम रूप से निम्नलिखित रीति में अवधारण करेगा, अर्थात् :-

छूट प्राप्त सेवाओं (अनंतिम) के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय = (A/B) गुणा C, जहां A पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को प्रदर्शित करता है, B पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय और छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को प्रदर्शित करता है, और C मास के दौरान लिए गए निवेश और निवेश सेवाओं के कुल केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय को प्रदर्शित करता है ;

(ख) प्रत्येक मास के लिए आगामी मास की 5 तारीख को या उससे पूर्व यथापूर्वोक्त अवधारित छूट प्राप्त सेवाओं के कारण रकम का संदाय ;

(ग) निम्नलिखित रीति में संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का अवधारण, अर्थात् :-

छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय = (X/Y) गुणा Z, जहां X पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को प्रदर्शित करता है, Y पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय और छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को प्रदर्शित करता है, और Z मास के दौरान लिए गए निवेश और निवेश सेवाओं के कुल केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय को प्रदर्शित करता है ;

(घ) उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 जून को या उससे पूर्व मद (ग) के अनुसार अवधारित रकम और मद (क) के अनुसार अवधारित रकम के बीच के अंतर के बराबर रकम का संदाय, जहां मद (ग) के अनुसार अवधारित रकम संदत्त रकम से अधिक है ;

(ङ) कम संदाय की गई रकम के अतिरिक्त, देय तारीख से अर्थात् 30 जून से संदाय की तारीख तक के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, जहां कम संदत्त रकम उक्त देय तारीख के भीतर संदत्त नहीं की जाती है ;

(च) जहां मद (ग) के अनुसार अवधारित रकम मद (क) के अनुसार अवधारित और संदत्त रकम से कम है वहां अधिक रकम को ऐसी रकम का प्रत्यय लेकर स्वयं समायोजित करना ;

(iv) निर्गत सेवा प्रदाता, अधिकारिता रखने वाले अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को, ऐसे संदाय या समायोजन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, निम्नलिखित विशिष्टियों की संसूचना देगा, अर्थात् :-

(क) भाग (iii), मद (क) के अनुसार अनंतिम रूप से अवधारित, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के मास वार ब्यौरे,

(ख) भाग (iii), मद (ख) के अनुसार प्रत्येक मास के लिए अनंतिम रूप से अवधारित और मास वार संदत्त छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम,

(ग) भाग (iii), मद (ग) के अनुसार यथाअवधारित संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय,

(घ) कम संदत्त रकम के संदाय की तारीख के साथ साथ भाग (iii), मद (घ) के अनुसार अवधारित कम संदत्त रकम,

(ङ) भाग (iii), मद (ङ) के अनुसार अवधारित कम संदत्त रकम पर संदेय और संदत्त ब्याज यदि कोई हो,

(च) भाग (iii), मद (च) के अनुसार अवधारित अधिक संदाय की बाबत लिया गया प्रत्यय यदि कोई हो,

(v) जहां, छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का अनंतिम रूप से अवधारण नहीं किया जा सकता, चूंकि वित्त अधिनियम की धारा 85 के खंड (105) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट कराधेय निर्गत सेवा का कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहां निर्गत सेवा प्रदाता से अनंतिम रूप से अवधारित और प्रत्येक मास के लिए छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का संदाय करना अपेक्षित नहीं है किन्तु वह भाग (iii), मद (ग) में यथा विहित संपूर्ण वर्ष के लिए छूट प्राप्त सेवाओं के कारण केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का अवधारण करेगा और उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व इस प्रकार संगणित रकम का संदाय करेगा।

(vi) जहां, भाग (v) के अधीन अवधारित रकम, उक्त देय तारीख के भीतर अर्थात् 30 जून तक संदत्त नहीं की जाती है वहां निर्गत सेवा प्रदाता, उक्त "कम के अतिरिक्त देय तारीख से संदाय की तारीख तक के लिए बीबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

4. उक्त नियम के नियम 9 में,-

(क) उपनियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपनियम (1) के अधीन किसी केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय को तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 या सेवा कर नियम, 1994 के अधीन यथाविहित सभी विशिष्टियां उक्त दस्तावेज में अंतर्दिष्ट न हों :

परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विशिष्टियां नहीं हैं, किन्तु उसमें संदेय शुल्क या सेवा कर के ब्यौरे, माल या कराधेय सेवा का वर्णन, निर्धारणीय मूल्य, कारखाने या भांडागार या पहले या दूसरे प्रक्रम के व्यौहारियों के परिशरों या कराधेय सेवा के प्रदाता का नाम और पता अंतर्दिष्ट है और, यथास्थिति, उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का यह समाधान हो जाता है कि उक्त दस्तावेज के अंतर्गत आने वाले माल या सेवाएं प्राप्त हो गई हैं और प्राप्तकर्ता के लेखाबहियों में हिसाब में ले ली गई हैं तो वह केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात कर सकेगा ;”

(ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

(ग) उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(11) यथास्थिति, उपनियम (9) में निर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपयोग करने वाला निर्गत सेवा का प्रदाता या उपनियम (10) में निर्दिष्ट निवेश सेवा वितरक यथास्थिति उपनियम (9) या उपनियम (10) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किसी भूल या लोप को सही करने के लिए एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।”

5. उक्त नियम के नियम 11 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) किसी अंतिम उत्पाद के किसी विनिर्माता या उत्पादक से, उसके द्वारा उक्त अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्राप्त निवेशों और स्टॉक में रखे गए या प्रक्रियागत या स्टॉक में रखे गए अंतिम उत्पाद में अंतर्दिष्ट के संबंध में लिए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय यदि कोई हो, के समतुल्य रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी, यदि-

(i) वह अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित उक्त अंतिम उत्पाद पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट के लिए विकल्प देता है ; या

(ii) उक्त अंतिम उत्पाद को अधिनियम की धारा 5क के अधीन आत्यंतिक रूप से छूट दी गई है, और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, यदि कोई हो, के बकाया से उक्त रकम की कटौती करने के पश्चात्, बकाया यदि कोई हो, उसके जमा खाते में रखा हुआ है, अभी शेष है, व्यपगत हो जाएगा और उसे किसी अन्य अंतिम उत्पाद पर, चाहे उसे आंतरिक उपभोग के लिए या निर्यात के लिए या किसी अन्य निर्गत सेवा पर सेवाकर के संदाय के लिए चाहे भारत में उपलब्ध कराई गई हो या निर्यात की गई हो, जारी किया गया हो, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) निर्गत सेवा के प्रदाता से, उस केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, यदि कोई हो, जो उक्त सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त निवेश के संबंध में उसके द्वारा लिया जाता है और उपलब्ध कराए जाने के लिए लंबित कराधेय सेवा के स्टाक में रखा हुआ है या अंतर्विष्ट है, समतुल्य किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी, जब वह वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन ऐसी कराधेय सेवा पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर के संदाय से छूट के लिए विकल्प देता है और उसके जमा खाते में बकाया, के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, यदि कोई हो से उक्त रकम की कटौती करने के पश्चात् अभी शेष रकम, व्यपगत हो जाएगी और उसे किसी उत्पाद-शुल्क के माल पर शुल्क के संदाय के लिए उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, चाहे उसे आंतरिक उपभोग या निर्यात या किसी अन्य निर्गत सेवा पर सेवा कर के संदाय के लिए निकासी किया जाता है, चाहे उसे भारत में उपलब्ध कराया जाता है या निर्यात किया जाता है।”;

6. उक्त नियम के नियम 15 में,-

(क) उपनियम (1) में,-

(i) “युक्तियुक्त कदम उठाए बिना यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम 9 में विनिर्दिष्ट निवेश या पूंजी माल से संलग्न दस्तावेज में यथाउपदर्शित उक्त निवेश सेवा पर समुचित सेवा कर संदत्त किया है, निवेश या पूंजी माल की बाबत सेनवेट प्रत्यय लेता है या किसी निवेश या पूंजी माल या निवेश सेवा की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है” शब्दों और अंक के स्थान पर, “किसी निवेश या पूंजी माल की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में समुचित सेवा कर संदत्त करता है” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो हजार रुपए” रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में,-

(i) “यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त निवेश सेवाओं पर समुचित सेवा कर, नियम 9 में विनिर्दिष्ट निवेश सेवाओं से संलग्न दस्तावेज में यथाउपदर्शित अनुसार संदत्त किया जा चुका है, बिना युक्तियुक्त कदम उठाए या किसी निवेश सेवा की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है,” शब्दों और अंक के स्थान पर, “इन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में उक्त निवेश सेवाओं पर सेवा कर का संदाय करता है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए” रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं.23/2004 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी) तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा.का.नि.600(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 07/2007 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी) तारीख 21 फरवरी, 2007 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 100 (अ)/2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

| | |
|-----------------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 10/2007-Central Excise (N.T.) | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2007.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,
 - (a) in sub-rule (1),
 - (i) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
“(via) the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under clause (126) read with clause (128) of the Finance Bill, 2007, which by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law;”;
 - (ii) in clause (vii), for the word, figures and brackets “and (vi)”, the word, figures, brackets and letter “, (vi) and (via)” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (7), in clause (b),-
 - (1) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
“(iiia) the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under clause (126) read with clause (128) of the Finance Bill, 2007, which by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law;”;
 - (2) after sub-clause (vii), in the portion beginning with the words “shall be utilized only towards” and ending with the words “after being partially processed or on any output service”, after the words “the education cess on excisable goods leviable under section 91 read with section 93 of the Finance (No.2) Act, 2004”, the following shall be inserted, namely:-
“or the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under clause (126) read with clause (128) of the Finance Bill, 2007, which by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law” shall be inserted;”;
 - (c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
“Provided that the credit of the education cess on excisable goods and the secondary and higher education cess on excisable goods and education cess on taxable services can be utilized, either for payment of the education cess on excisable goods or secondary and higher education cess on excisable goods or for the payment of education cess on taxable services.”
3. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), after Explanation II, the following condition shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2007, namely:-

'(d) notwithstanding anything contained in condition (c), the provider of output service referred to in sub-clause (d) of clause (105) of section 65 of the Finance Act has the option to utilise CENVAT credit attributable to inputs and input services used in providing taxable services subject to the following, namely:-

(i) while exercising the option under this condition, the provider of output service shall intimate his option in writing to the Superintendent of Central Excise giving the following particulars, namely:-

- (a) name and address of the provider of output service;
- (b) date from which the option under this clause is exercised or proposed to be exercised;
- (c) description of taxable services;
- (d) description of exempted services;
- (e) CENVAT credit of inputs and input services lying in balance as on the date of exercising the option under this condition;

(ii) the option given under part (i) for a financial year shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year;

(iii) the provider of output service shall,-

(a) determine, provisionally, the amount equivalent to CENVAT credit attributable to exempted services, in the following manner, namely:-

CENVAT credit attributable to exempted services (provisional) = (A/B) multiplied by C, where A denotes total value of exempted services provided during the preceding financial year, B denotes total value of taxable and exempted services provided during the preceding financial year, and C denotes total CENVAT credit of inputs and input services taken during the month;

(b) pay the amount attributable to exempted services determined as above for each month, on or before 5th day of the following month;

(c) determine the CENVAT credit attributable to exempted services for the whole financial year in the following manner, namely:-

CENVAT credit attributable to exempted services = (X/Y) multiplied by Z, where X denotes total value of exempted services provided during the financial year, Y denotes total value of taxable and exempted services provided during the financial year, and Z denotes total CENVAT credit of inputs and input services taken during the financial year;

(d) pay an amount equal to the difference between the amount determined as per item (c) and the amount determined as per item (a), on or before the 30th June of the succeeding financial year, where the amount determined as per item (c) is more than the amount paid;

(e) in addition to the amount short-paid, be liable to pay interest at the rate of twenty-four per cent. per annum from the due date i.e. 30th June till the date of payment, where the amount short-paid is not paid within the said due date;

(f) where the amount determined as per item (c) is less than the amount determined and paid as per item (a), adjust the excess amount on his own, by taking credit of such amount;

(iv) the provider of output service shall intimate to the jurisdictional Superintendent of Central Excise, within a period of fifteen days from the date of such payment or adjustment, the following particulars, namely:-

- (a) details of CENVAT credit attributable to exempted services, monthwise, for the whole financial year, determined provisionally as per part (iii) item (a),
- (b) the amount equivalent to CENVAT credit attributable to exempted services, determined provisionally for each month and paid monthwise as per part (iii) item (b),
- (c) CENVAT credit attributable to exempted services for the whole financial year as determined as per part (iii) item (c),
- (d) amount short paid determined as per part (iii) item (d), alongwith the date of payment of the amount short paid,
- (e) interest payable and paid, if any, on the amount short paid, determined as per part (iii) item (e), and
- (f) credit taken on account of excess payment, if any, determined as per part (iii) item (f);

(v) where the amount equivalent to CENVAT credit attributable to exempted services can not be determined provisionally since no taxable service referred to in sub-clause (d) of clause (105) of section 65 of the Finance Act has been provided, the provider of output service is not required to determine, provisionally, and pay CENVAT credit attributable to exempted services for each month but he shall determine the CENVAT credit attributable to exempted services for the whole year as prescribed in part (iii) item (c) and pay the amount so calculated on or before 30th June of the succeeding financial year.

(vi) where the amount determined under part (v) is not paid within the said due date i.e. the 30th June, the provider of output service shall, in addition to the said amount, be liable to pay interest at the rate of twenty four per cent. per annum from the due date till the date of payment.

4. In rule 9 of the said rules,-

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) No CENVAT credit under sub-rule(1) shall be taken unless all the particulars as prescribed under the Central Excise Rules, 2002 or the Service Tax Rules, 1994, as the case may be, are contained in the said document:

Provided that if the said document does not contain all the particulars but contains the details of duty or service tax payable, description of the goods or taxable service, assessable value, name and address of the factory or warehouse or premises of first or second stage dealers or provider of taxable service, and the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, is satisfied that the goods or services covered by the said document have been received and accounted for in the books of the account of the receiver, he may allow the CENVAT credit”;

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

(c) after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(11) The provider of output service, availing CENVAT credit referred to in sub-rule (9) or the input service distributor referred to in sub-rule (10), as the case may be, may submit a revised return to correct a mistake or omission within a period of sixty days from the date of submission of the return under sub-rule (9) or sub-rule (10), as the case may be.”.

5. In rule 11 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(3) A manufacturer or producer of a final product shall be required to pay an amount equivalent to the CENVAT credit, if any, taken by him in respect of inputs received for use in the manufacture of the said final product and is lying in stock or in process or is contained in the final product lying in stock, if,-

(i) he opts for exemption from whole of the duty of excise leviable on the said final product manufactured or produced by him under a notification issued under section 5A of the Act; or

(ii) the said final product has been exempted absolutely under section 5A of the Act, and after deducting the said amount from the balance of CENVAT credit, if any, lying in his credit, the balance, if any, still remaining shall lapse and shall not be allowed to be utilized for payment of duty on any other final product whether cleared for home consumption or for export, or for payment of service tax on any output service, whether provided in India or exported.

(4) A provider of output service shall be required to pay an amount equivalent to the CENVAT credit, if any, taken by him in respect of inputs received for providing the said service and is lying in stock or is contained in the taxable service pending to be provided, when he opts for exemption from payment of whole of the service tax leviable on such taxable service under a notification issued under section 93 of the Finance Act, 1994(32 of 1994) and after deducting the said amount from the balance of CENVAT credit, if any, lying in his credit, the balance, if any, still remaining shall lapse and shall not be allowed to be utilized for payment of duty on any excisable goods, whether cleared for home consumption or for export or for payment of service tax on any other output service, whether provided in India or exported.”;

6. In rule 15 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) for the words, “without taking reasonable steps to ensure that appropriate duty on the said input or capital goods has been paid as indicated in the document accompanying the input or capital goods specified in rule 9 or contravenes”, the words, “in contravention of” shall be substituted;

(ii) with effect from the date on which the Finance Bill, 2007 receives assent of the President, for the words, “ten thousand rupees”, the words, “two thousand rupees” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3),-

(i) for the words, “without taking reasonable steps to ensure that appropriate service tax on the said input services has been paid as indicated in the document accompanying the input services specified in rule 9, or contravenes any of the provisions of these rules”, the words, “in contravention of any of the provisions of these rules” shall be substituted;

(ii) with effect from the date on which the Finance Bill, 2007 receives assent of the President, for the words, “ten thousand rupees”, the words, “two thousand rupees” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 2372004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, vide GSR 600 (E), dated the 10th September 2004, and were last amended vide notification No.07/2007-Central Excise (N.T.), dated the 21st February 2007, vide G.S.R.100(E), dated the 21st February, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 फरवरी, 2007.

सं० 11/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

9 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम और उसकी अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

| | |
|-----------------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 11/2007-Central Excise (N.T.) | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by section 37A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by the Central Board of Excise and Customs under the provisions of sub-rule(2) of rule 3 of the Central Excise Rules, 2002, shall also be exercised by the Chief Commissioner of Central Excise for the purposes of adjudication of notices issued under the provisions of the said Act or the rules made thereunder within his jurisdiction.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 फरवरी, 2007.

सं० 12/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

9 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 6 सितम्बर, 2004 में, (भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 572 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित), निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, खंड (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (i) उपरोक्त खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद के शुल्क के समतुल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क” ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 21/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 9 सितम्बर, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं 572 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 30/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 30 अक्टूबर, 2004 सा.का.नि. सं. 697 (अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2004 और अधिसूचना सं. 15/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2005 सा.का.नि. सं. 144 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा किए गए ।

| | |
|-----------------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 12/2007-Central Excise (N.T.) | 10 Phalguna, 1928 (Saka) |

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by rule 18 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 21/2004-Central Excise (N.T.), dated the 6th September, 2004 (published vide number G.S.R. 572(E), dated the 6th September, 2004), namely:-

In the said notification, in the Explanation, after clause (h) and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely; -

“(i) the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), equivalent to the duty of excise specified under clauses (a),(b),(c),(d),(e) and (g) above”.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.21/2004-CE(NT) dated 6th September 2004 was published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 572(E), dated the 6th September, 2004 and was subsequently amended vide notification No.30/2004-CE(NT), dated the 30th October, 2004 vide number G.S.R. 697 (E) dated, the 30th October, 2004 and notification No. 15/2005-Central Excise(NT), dated the 1st March, 2005 published vide number G.S.R. 144(E), dated the 1st March 2005.

अधिसूचना

सं० 13/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 28 फरवरी, 2007.

9 फाल्गुन 1928 (शक)

सा.का.नि. 153(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 05/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 14 मार्च, 2006 में, (अधिसूचना सं० 156(अ), तारीख 14 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित) निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में, शर्तों के क्रम सं० 3 के खंड (क) में, “सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित” शब्दों के स्थान पर, “सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित या उसके द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित उसकी फोटो प्रति” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.05 /2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 14 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 156 (अ), तारीख 14 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

| | |
|-----------------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 13/2007-Central Excise (N.T.) | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the CENVAT Credit Rules, 2004 the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 05/2006-Central Excise (N.T.), dated the 14th March, 2006 (published vide number G.S.R.156(E), dated the 14th March, 2006), namely; -

In the said notification, in the Appendix, in condition at serial number 3, in clause (a), for the words, "duly certified by the officer of customs", the words, "duly certified by the officer of customs or a photocopy thereof duly attested by him" shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.5/2006-Central Excise(N.T.), dated the 14th March, 2006, was published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R. 156(E), dated the 14th March, 2006.

अधिसूचना

सं० 14/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 154(अ).— केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 113 (अ) का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 20 और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|------------------------|------|
| "20 | 2106 90 20 | सभी माल | 44% |
| 20क | 2403 | तम्बाकू वाला पान मसाला | 50%" |

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 113(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 24/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 14 नवंबर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 699(अ), तारीख 14 नवंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

| | |
|-----------------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 14/2007-Central Excise (N.T.) | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 154(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2006-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.113(E) dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification; in the Table, for S.No. 20 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be substituted, namely:-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|------------|-------------------------------|-------|
| "20. | 2106 90 20 | All goods | 44% |
| 20A. | 2403 | Pan masala containing tobacco | 50%". |

[F. No. 334/1/2007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.113(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 24/2006-Central Excise (N.T.), dated the 14th November, 2006 and published vide number G.S.R.699(E), dated the 14th November, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 1/2007-सेवा कर

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 155(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

2. सेवा कर नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) में, उपखंड (vii) के स्थान पर 1 अप्रैल, 2007 से निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(vii) यथास्थिति, भारत में अवस्थित किसी निगमित निकाय या फर्म, निगमित निकाय या ऐसी फर्म को, जो ऐसी प्रायोजित सेवा प्राप्त करती है, उपलब्ध कराई गई प्रायोजित सेवा के संबंध में;” ।

3. उक्त नियम के नियम 4 के उपनियम (5) में,-

(i) “आवेदन प्ररूप” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति आवेदन प्ररूप या उपनियम (5क) के अधीन कोई सूचना” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii). “आवेदन” शब्द के पश्चात् “या सूचना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 6 में, उपनियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती ने यथास्थिति किसी मास या तिमाही के लिए सेवा कर दायित्व के मद्दे संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधिक किसी रकम का केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय कर दिया है, वहां निर्धारिती, यथास्थिति, उतरवर्ती मास या तिमाही के लिए अपने सेवा कर दायित्व के प्रति उसके द्वारा संदत्त ऐसी अधिक रकम का समायोजन कर सकेगा।

(4ख) उपनियम (4क) के अधीन संदत्त की गई अधिक रकम का समायोजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(i) संदत्त अधिक रकम ऐसे कारणों से है जिसमें विधि का निर्वचन, कराधेयता, वर्गीकरण, मूल्यांकन या किसी छूट अधिसूचना का लागू होना अंतर्वर्तित नहीं है,

(ii) नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निर्धारिती द्वारा संदत्त अधिक रकम कराधेय सेवा के मद्दे भुगतानों के ब्यौरे की विलंबित रसीद के कारण है, धनीय सीमा के बिना समायोजित की जा सकेगी,

(iii) उपरोक्त खंड (ii) में विनिर्दिष्ट से भिन्न दशाओं में संदत्त अधिक रकम यथास्थिति सुसंगत मास या तिमाही के लिए पचास हजार रुपये की धनीय सीमा के साथ समायोजित की जा सकेगी,

(iv) ऐसे समायोजन के ब्यौरे और कारण ऐसे समायोजन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को सूचित किए जाएंगे।”।

5. उक्त नियम के नियम 7क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7ख विवरणी का पुनरीक्षण -

कोई निर्धारिती, नियम 7 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किसी भूल या लोप को सही करने के लिए प्ररूप एसटी - 3 में, तीन प्रतियों में पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - जहां कोई निर्धारिती कोई पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है, वहां अधिनियम की धारा 73 के अधीन सेवा कर की, यदि कोई हो, वसूली के प्रयोजन के लिए ‘सुसंगत तारीख’ वह तारीख होगी जिसको ऐसी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत की जाती है।”।

6. उक्त नियम के प्ररूप एसटी - 1 में, -

(i) घोषणा में, “(मूल विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है)” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित फोटोप्रति संलग्न की जानी अपेक्षित है)”;

(ii) अभिस्वीकृति में, “(में मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति को अभिस्वीकार करता हूँ)” कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम के प्ररूप एसटी - 2 में, पैरा 5 के पश्चात् और टिप्पण से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6. आवेदक द्वारा सूचित परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और -----तारीख को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक----- वाले पूर्व प्रमाणपत्र को रद्द किया जाता है।”

8. उक्त नियम के प्ररूप एसटी - 3 के आरंभ में, “अवधि” शब्द के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“मूल/पुनरीक्षित विवरणी (जो लागू न हो उसे काट दें)”

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 29/2006-सेवा कर, तारीख 2 नवम्बर, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 688(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

New Delhi the 1st March, 2007

10 Phalguna, 1928 (Saka)

Notification

No. 1/2007-Service Tax

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, unless otherwise specified.

2. In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1st day of April, 2007, in rule 2, in sub-rule(1), in clause (d), for sub-clause (vii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(vii) in relation to sponsorship service provided to any body corporate or firm located in India, the body corporate or, as the case may be the firm who receives such sponsorship service;”

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (5),-

(i) after the words “application form”, the words “or an intimation under sub-rule (5A), as the case may be,” shall be inserted;

(ii) after the words "receipt of the application", the words "or the intimation" shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (4A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), where an assessee has paid to the credit of Central Government any amount in excess of the amount required to be paid towards service tax liability for a month or quarter, as the case may be, the assessee may adjust such excess amount paid by him against his service tax liability for the succeeding month or quarter, as the case may be.

(4B) The adjustment of excess amount paid, under sub-rule (4A), shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) excess amount paid is on account of reasons not involving interpretation of law, taxability, classification, valuation or applicability of any exemption notification,

(ii) excess amount paid by an assessee registered under sub-rule (2) of rule 4, on account of delayed receipt of details of payments towards taxable services may be adjusted without monetary limit,

(iii) in cases other than specified in clause (ii) above, the excess amount paid may be adjusted with a monetary limit of rupees fifty thousand for a relevant month or quarter, as the case may be,

(iv) the details and reasons for such adjustment shall be intimated to the jurisdictional Superintendent of Central Excise within a period of fifteen days from the date of such adjustment."

5. In the said rules, after rule 7A, the following rule shall be inserted, namely:-

"7B. Revision of Return.-

An assessee may submit a revised return, in Form ST-3, in triplicate, to correct a mistake or omission, within a period of sixty days from the date of submission of the return under rule 7.

Explanation.- Where an assessee submits a revised return, the 'relevant date' for the purpose of recovery of service tax, if any, under section 73 of the Act shall be the date of submission of such revised return."

6. In the said rules, in Form ST-1,-

(i) in the DECLARATION, for the brackets and words "(Original existing Registration Certificate is required to be enclosed)", the following shall be substituted, namely:-

"(Self certified photocopy of Registration Certificate is required to be enclosed)";

(ii) in the ACKNOWLEDGEMENT, the brackets and words "(I hereby acknowledge receipt of original existing Registration Certificate)" shall be omitted.

7. In the said rules, in Form ST-2, after paragraph 5, and before Note, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"6. This certificate is issued incorporating the changes intimated by the applicant and the previous certificate of registration bearing Registration Number _____ issued on _____ stand cancelled."

8. In the said rules, in Form ST-3, in the beginning, before "For the period:" the following shall be inserted, namely:-

"ORIGINAL / REVISED RETURN (strike whichever is NOT applicable)".

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note.- The principal rules were notified vide notification no. 2/94-Service Tax, dated the 28th June 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.546 (E), dated the 28th June 1994 and were last amended vide notification No. 29/2006-Service Tax, dated the 2nd November, 2006 and published vide number G.S.R. 688 (E), dated the 29th November, 2006.

अधिसूचना

सं० 2/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 156(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा निर्यात नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा निर्यात (संशोधन) नियम, 2007 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा निर्यात नियम, 2005 के नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी कराधेय सेवा के उपबंध को, सेवा का निर्यात समझा जाएगा जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :-

(क) ऐसी सेवा भारत से उपलब्ध कराई जाती है और भारत के बाहर उपयोग की जाती है ; और

(ख) सेवा प्रदाता द्वारा भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा के लिए भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “भारत” में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.429(अ) तारीख 18 जुलाई, 1986 और का.आ.643(अ) तारीख 19 सितम्बर, 1996 द्वारा घोषित महाद्वीपीय शैल्फ में अभिहित क्षेत्र और भारत का अनन्य आर्थिक जोन सम्मिलित हैं ।’

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 9/2005-सेवा कर, तारीख 3 मार्च, 2005 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 151(अ), तारीख 3 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.13/2006-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. 229(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 2/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Services Rules, 2005, namely :-

1. (1) These rules may be called the Export of Services (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Services Rules, 2005, in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

‘(2) The provision of any taxable service specified in sub-rule (1) shall be treated as export of service when the following conditions are satisfied, namely:-

- (a) such service is provided from India and used outside India; and
- (b) payment for such service provided outside India is received by the service provider in convertible foreign exchange.

Explanation.—For the purposes of this rule “India” includes the designated areas in the continental shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the notifications of the Government of India in the Ministry of External Affairs numbers S.O. 429(E), dated the 18th July, 1986 and S.O.643(E), dated the 19th September, 1996.’

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note.—The principal rules were notified vide notification no. 9/2005-Service Tax, dated the 3rd March 2005 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.151 (E), dated the 3rd March 2005 and were last amended vide notification No. 13/2006-Service Tax, dated the 19th April, 2006 and published vide number G.S.R. 229 (E), dated the 19th April, 2006.

अधिसूचना

सं० 3/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2004-सेवा कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. 849(अ), तारीख, 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के, पैरा (क) के उपपैरा (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) भारत में अवस्थित किसी निगमित निकाय या फर्म को उपलब्ध कराई गई प्रायोजित सेवाओं के संबंध में ;” ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 36/2004-सेवा कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 849(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 16/2006 - सेवा कर तारीख 25 अप्रैल, 2006 द्वारा किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 246(अ) तारीख 25 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 3/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 157(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 849(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in paragraph (A), for sub-paragraph (vi), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(vi) in relation to sponsorship service provided to any body corporate or firm located in India”

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note.- The principal notification No.36/2004-Service Tax, dated the 31st December 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.849 (E), dated the 31st December, 2004 and were last amended vide notification No. 16/2006-Service Tax, dated the 25th April, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 246 (E), dated the 25th April, 2006.

अधिसूचना

सं० 4/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 158(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि.सं. 140(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) पैरा 1 में, “चार लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “आठ लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) पैरा 2 के उपपैरा (viii) में, “चार लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “आठ लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) पैरा 3 में, “चार लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, “आठ लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

2. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 140(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 4/2007-Service Tax | 10 Phalguna, 1928 (Saka) |

G.S.R. 158(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 140(E) of the same date, namely:-

In the said notification,-

- (i) in paragraph 1, for the words “four lakh rupees”, the words “eight lakh rupees” shall be substituted;
- (ii) in paragraph 2, in sub-paragraph (viii), for the words “rupees four lakhs”, the words “eight lakh rupees” shall be substituted;
- (iii) in paragraph 3, for the words “four lakh rupees”, wherever they occur, the words “eight lakh rupees” shall be substituted.

2. These amendments shall come into force on the 1st day of April, 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 6/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 140(E), dated the 1st March, 2005.

अधिसूचना

सं० 5/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 159(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 69 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि.सं. 368(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के, पैरा 1 के उपपैरा (ii) में “तीन लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “सात लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 368(अ), तारीख 7 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 5/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 368(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (ii), for the words “three lakh rupees”, the words “seven lakh rupees” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 26/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 368(E), dated the 7th June, 2005.

अधिसूचना

सं० 6/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 160(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 के नियम 3 के उपनियम (2) में “तीन लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “सात लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 27/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 369(अ), तारीख 7 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2006-सेवा कर, तारीख 25 अप्रैल, 2006 द्वारा किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 248(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 6/2007-Service Tax | 10 Phalguna, 1928 (Saka) |

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2007.

2. In the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005, in rule 3, in sub-rule (2), for the words "three lakh rupees" occurring at both the places, the words "seven lakh rupees" shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note:- The principal rules were notified vide notification No. 27/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005 and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 369(E), dated the 7th June, 2005 and were last amended vide notification No. 18/2006-Service Tax, dated the 25th April, 2006 and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 248(E), dated the 25th April, 2006.

अधिसूचना

सं० 7/ 2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 161(अ).—केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2005 - सेवा कर, तारीख 20 अक्टूबर, 2005 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 640(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्ररूप सेवा कर - 1 की क्रम संख्यांक 4 में, प्रवर्ग (ख) (ii) में, "तीन लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "सात लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

2. ये 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 32/2005-सेवा कर, तारीख 20 अक्टूबर, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 640(अ), तारीख 7 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 7/2007-Service Tax | 10 Phalguna, 1928 (Saka) |

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2005-Service Tax, dated the 20th October, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 640(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in Form ST – 1, in serial number 4, in category (b)(ii), for the words “three lakh rupees”, the words “seven lakh rupees” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 32/2005-Service Tax, dated the 20th October, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 640(E), dated the 7th June, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

सं० 8/2007-सेवा कर

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, जो किसी ऐसे किसी निवासी कल्याण संगम द्वारा अपने सदस्यों को, जहां सदस्यता का एक मात्र मानदंड किसी आवासीय कॉम्प्लेक्स या परिक्षेत्र में किसी व्यक्ति की आवासीय प्रास्थिति है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययड) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं को, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उनपर उद्ग्रणीय समस्त सेवा कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त संगम द्वारा किसी व्यक्ति सदस्य से प्राप्त कुल प्रतिफल प्रतिमास तीन हजार रुपये से अधिक नहीं हैं, छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 8/2007-Service Tax | 10 Phalguna, 1928 (Saka) |

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services, specified in sub-clause (zzze) of clause (105) of section 65 of the said Finance Act, provided or to be provided, by a resident welfare association where the sole criterion for its membership is the residential status of a person in a residential complex or locality, to its members, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act, subject to the condition that the total consideration received from an individual member by the said association for providing the said services does not exceed three thousand rupees per month.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

अधिसूचना
सं० ९/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007
10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 163(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास बोर्ड (एनएसटीडीबी) द्वारा मान्यताप्राप्त किसी प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटर (टीबीआई) या किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क (एसटीईपी) द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सभी कराधेय सेवाओं को, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर से छूट देती है।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी, अर्थात् :-

- (i) एसटीईपी या टीबीआई, जो छूट का उपयोग करने का आशय रखता है, प्रत्येक इन्क्यूबेटी से प्राप्त प्ररूप 2 में सूचना के साथ-साथ इन्क्यूबेटर के ब्यौरे वाले प्ररूप 1 में अपेक्षित जानकारी, यथास्थिति, संबंधित सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को, छूट का लाभ लेने से पूर्व देगा ;
- (ii) एसटीईपी या टीबीआई, तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून से पूर्व उसी शीति में उपरोक्त उल्लिखित प्ररूपों में जानकारी देगा ;

प्ररूप - 1 - टीबीआई या एसटीईपी द्वारा दी जाने वाली जानकारी

..... वित्तीय वर्ष में फाइल की गई

1. प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटर/विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क का नाम
2. पता
3. क्या छूट का फायदा पहली बार ले रहे हैं
4. यदि 3 का उत्तर सकारात्मक नहीं है तो वह तारीख, जिससे फायदा लिया जा रहा है
5. पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के ब्यौरे

| क्रम सं. | कराधेय सेवा का नाम | उपलब्ध कराई गई सेवा का मूल्य | |
|----------|--------------------|------------------------------|---------|
| | | इन्क्यूबेटी को | अन्य को |
| | | | |

6. संलग्नक के अनुसार इन्क्यूबेटी के द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के ब्यौरे स्थान

तारीख

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

में अवधि के लिए प्ररूप 1 की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देता हूँ।

स्थान

तारीख

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर
अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम और कार्यालय की मुद्रा)

प्ररूप - 2 - प्रत्येक इन्क्यूबेटी से टीबीआई /एसटीईपी द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली और प्ररूप 1 के साथ-साथ फाइल की जाने वाली जानकारी

1. इन्क्यूबेटी का नाम
2. पता
3. परियोजना के ब्यौरे
4. टीबीआई /एसटीईपी (इन्क्यूबेटर) के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख
5. पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारबार आवर्त
6. पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के ब्यौरे

| क्रम सं. | कराधेय सेवा का नाम | उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा का मूल्य |
|----------|--------------------|-------------------------------------|
| | | |

स्थान

तारीख

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

| | |
|------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 9/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all taxable services, provided or to be provided, by a Technology Business Incubator (TBI) or a Science and Technology Entrepreneurship Park (STEP) recognized by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology, Government of India, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act.

2. The exemption contained in this notification shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) the STEP or the TBI, who intends to avail the exemption, shall furnish the requisite information in Format I containing the details of the incubator along with the information in Format II received from each incubatee to the concerned Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, before availing the exemption; and

(ii) the STEP or the TBI shall thereafter furnish the information in the formats mentioned above in the same manner before the 30th day of June of each financial year.

Format - I - Information to be furnished by TBI or the STEP

Filed in the financial year _____

1. Name of the Technology Business Incubator / Science and Technology Entrepreneurship Park
2. Address
3. Whether availing benefit of exemption for first time
4. If the answer to 3 is not in affirmative, the date from which benefit is being availed
5. Details of taxable services provided during the previous financial year

| Sl No | Name of Taxable Service | Value of Service Provided | |
|-------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | | To incubatees | To others |
| | | | |

6. Details of Taxable services provided by incubatees as per enclosure.

Place
Date

Signature of the authorised person

Acknowledgement

I hereby acknowledge the receipt of Format I for the period _____

Place
Date

Signature of the Officer of
Central Excise and Service Tax
(with Name and Official seal)

Format II – Information to be obtained by TBI / STEP from each incubatee and to be filed along with Format I

1. Name of the Incubatee
2. Address
3. Details of the project
4. Date of signing agreement with the TBI / STEP (incubator)
5. Total business turnover during the previous financial year
6. Details of taxable services provided during the previous financial year

| Sl No | Name of Taxable Service | Value of taxable Service Provided |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | |

Place

Date

Signature of the authorized person

3. This notification shall come into force on and from the 1st day of April 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० १०/२००७-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख १ मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 164(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास बोर्ड (एनएसटीडीबी) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटर (टीबीआई) या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क (एसटीडीपी) के परिसरों के भीतर अवस्थित किसी उद्यमी द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं को, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) उद्यमी, किसी इन्क्यूबेटी के रूप में उच्च तकनीक और नवीकृत उत्पादों का विकास और उत्पादन करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए टीबीआई या एसटीडीपी के साथ कोई करार करता है ; और
- (ii) ऐसे उद्यमी का कुल कारबार आवर्त ... पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होता है ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट, उस तारीख से, जिसको ऐसा उद्यमी टीबीआई या एसटीडीपी के साथ कोई करार करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी ।

3. इस अधिसूचना के अधीन कराधेय सेवाओं के लिए छूट, किसी उद्यमी के उसी वित्तीय वर्ष में कुल कारबार आवर्त के पचास लाख रूपए से अधिक होने के ठीक पश्चात् उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली किन्हीं कराधेय सेवाओं को उपलब्ध नहीं होगी।

4 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, डेप-सचिव

| | |
|-------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 10/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 164(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services provided by an entrepreneur located within the premises of a Technology Business Incubator (TBI) or Science and Technology Entrepreneurship Park (STEP) recognized by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology Government of India from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act subject to the condition following conditions, namely:-

1. The exemption contained in this notification shall apply subject to the following conditions, namely:-

- (i) the entrepreneur enters into an agreement with the TBI or the STEP as an incubatee, to enable himself to develop and produce hi-tech and innovative products; and
- (ii) the total business turnover of such entrepreneur does not exceed fifty lakh rupees during the previous financial year;

Provided that the exemption contained in this notification shall apply for a period of three years from the date on which such entrepreneur enters into an agreement with the TBI or the STEP.

Explanation:- The exemption for taxable services under this notification shall not be available for any taxable services provided or to be provided immediately after the total business turnover of the entrepreneur exceeds fifty lakh rupees during a given financial year.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 11/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 165(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययज) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा को, जो भारत के ओषधि- महानियंत्रक द्वारा, नैदानिक परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किसी नैदानिक अनुसंधान संगठन द्वारा नई विकसित ओषधियों के परीक्षण और विश्लेषण के संबंध में, जिसके अन्तर्गत मानव भागीदारों पर वैक्सीन और जड़ी-बुटी उपचार भी है, उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जानी है, मानव भागीदारों पर ऐसी ओषधि की सुरक्षा और प्रभावकरिता सुनिश्चित करने के लिए उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर से छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

| | |
|-------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 11/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service, specified in sub-clause (zzh) of clause (105) of section 65 of the said Finance Act, provided or to be provided by a Clinical Research Organization approved to conduct clinical trials by the Drugs Controller General of India, in relation to testing and analysis of newly developed drugs, including vaccines and herbal remedies, on human participants so as to ascertain the safety and efficacy of such drugs on human participants, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 12/2007-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2007.

10 फाल्गुन, 1928 (शक)

सा.का.नि. 166(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को, जिसके पास चलचित्र फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अधिकार है, किसी करार के अधीन उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली कराधेय सेवाओं को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर से छूट देती है, अर्थात् :-

(i) यह कि चलचित्र फिल्म की अन्तर्वस्तु के परिदान के संबंध में उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा ; और

(ii) यह कि ऐसी फिल्म की अंतर्वस्तु, जो अंकीय प्ररूप में है, इसके गोदने के पश्चात्, उपग्रह, सूक्ष्म तरंग या स्थलीय संसूचना लाइन के उपयोग के माध्यम से और किन्हीं भौतिक साधनों के द्वारा नहीं, जिनके अंतर्गत सीडी और डीवीडी भी हैं, प्रदर्शन के लिए किसी सिनेमा थियेटर में प्रत्यक्षतः पारेषित की जाती है ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) “चलचित्र फिल्म” से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5क के अधीन प्रमाणित कोई फिल्म अभिप्रेत है ;

(ख) “सिनेमा थियेटर” से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के भाग 3 या किसी चलचित्र फिल्म के प्रदर्शन के लिए किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्त है ।

[फा. सं. 334/1/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

| | |
|-------------------------|--|
| Notification | New Delhi, the 1 st March, 2007 |
| No. 12/2007-Service Tax | 10 Phalgun, 1928 (Saka) |

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services, provided or to be provided, under an agreement, by any person to other person who has the right to authorise any person to exhibit cinematograph film, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the service provided or to be provided is in relation to the delivery of the content of the cinematograph film; and

(ii) that the content of such film, being in digitized form, after its encryption, is transmitted directly to a cinema theatre for exhibition through the use of satellite, microwave or terrestrial communication line and not by any physical means including CD and DVD.

Explanation. - For the purposes of this notification,-

(a) “cinematograph film” means a film certified under section 5A of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952);

(b) “cinema theatre” means a place which is licenced under Part III of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), or under any other law for the time being in force in a state for the exhibition of a cinematograph film.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.